


BHAVAN'S LIBRARY

This book is valuable and
NOT to be ISSUED
out of the Library
without Special Permission

थीविनोदाजो की 'ईशावास्य वृत्ति' के आधार पर लिखित

ईशावास्यदर्शन

[ईशावास्य-बोध, प्रतिपद व्याख्या, गीता का
बीज, पद्यानुवाद,—सहित]



निगमानन्द परमहस

प्रकाशन -

वेदमंदिर, काकरिथा रोड, अहमदाबाद (गुजरात)

निर्जला एफादशी

प्रथम संस्करण, १०००] २०।६।५३ [मूल्य नरमात्र आठ आने।।]

मुस्तक मिलने का पता—

१. वेदमंदिर, कांकिरिया रोड, अहमदाबाद, (गुजरात)

२. श्रीस्वामी गोपालानन्दजी वैद्यराज

उदासी धावा का मंदिर

लालदरवाजा, खंभात।



दो शब्द

के महापुरप !

अबतक तो मैंने आपकी इस आङ्ग का यथावत् पालन किया कि “निगम ! इस नद्वर शरीर का परिचय किसीको मत देना ” ; पर आज तो यह आङ्ग मेरे लिए बहुत ही कठिन प्रतीत हो रही है। क्योंकि मेरा हृदय आपकी अद्वैतवी दयासे इतना भर चुका है कि यह बिना फूटे दम न लेगा। सर्वभूत उत्सल ! फूटने दीजिए न इसे ! होने दीजिए न इस हठी का हठ पूरा !। अच्छा, न सही। पर यदि मैं आपके शरीर का नाम न लेकर आपना हृदय इलका करने के लिए दो शब्द लिये थालू तो कृत्या इसे अपनी आङ्ग का उत्सलगम सौ न समझिएगा।

आप शरीर से ब्राह्मण नहीं थे, पर कर्मवाद प्रभाकर आपके चरणों में बैठने के लिए सदा लालायित रहा करते थे। आप संस्कृत का शुद्ध उच्चारण तक नहीं कर सकते थे, पर दर्शन के सरी आप के समीप बैठते ही बिली बन जाते थे। आपने सन्ध्यास नहीं लिया था, पर बड़े बड़े टाट्ठधारी अवधूत आपके समीप आकर यह कह कह कर रोने लगते थे कि “हमारू क्या बना ?” आप त्यागी नहीं थे, पर आजीवन किसी से दातन तक नहीं ली। आप एक निजी कोटी (मवन) में रहा करते थे, परन्तु उसकी रक्षा के लिए आपने ताला तक नहीं खोरीदा। आपका आपना कोई संबंधी नहीं था, पर जो आप के समीप बैठा वही आपवा बन जाता। आप ज्यातिश बिलदुल नहीं जानते थे, पर जो जिहामु आपके समीप आता था, वह बिना ग्रेध दिये आपना यथार्थ उत्तर बाकर हौटता था। मेरी इच्छा आप का पाठ प्राप्त करने की हुई, पर हृदयों पर तो आपका फोटो देखने को मिला, बिन्तु बागड़ पर महा। (सुना है देहान्त के बाद लोगोंने आपके शव का फोटो ले लिया है) पिर आप कौन थे ? यमस्त रूप में आप आभूष्य थे और असमस्त रूप में थे आप भगवान् के दास। पर मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मेरे क्षणों रैंनेवाले दूसरे थे और मन रैंगनेवाले हैं आप !

हे दूसरे महापुरुष ! अभीतक मैंने आपके पाचभीतिक शरीर के दर्शन नहीं किये । पर आपकी फोटो की आकृति उनकी आकृति से बिलकुल मिलती-जुलती है । आकृति ही नहीं मिलती, हृदय भी मिलता है । मुझे तो यह देखवर बहुत ही आर्थर्य हो रहा है कि जो जो बातें वे कहा करते थे; ठीक वही बातें मैं आपकी पुस्तकों में पढ़ता हूँ । कहाँ आए दीनो एक तो नहीं ? नहीं । अन्दर से एक होते हुए भी बाहर से भेद है । वे हिमाचल थे आप भागीरथी हैं । अर्थात् उनकी निरूति प्रगट थी और प्रवृत्ति अप्रगट । आपकी प्रति प्रगट है और निरूति अप्रगट है कान्तिकारी महान् आचार्य । मैं चाढ़कारिता को महापाप समझता हूँ । पर यह मैं निर्भीकिता पूर्वक एक सचाई प्रगट बर रहा हूँ कि मुझे कोई भी पुराचीन और अर्बाचीन आचार्य वर्म का रहस्य नहीं समझा सका (भले वे वर्म का रहस्य जानते ही हों) । पर आपकी पुस्तकने ही मुझे वर्म का रहस्य समझाया । यह रहस्य समझते ही मेरा जीवन इतना रसमय बन गया है कि दैसे बहुत । यह तो स्वान्त-संदेश थात है । प्रथम महापुरुषने एकबार मुझ से कहा था कि “निगम ! फक्त बनो फक्तर” मैंने पूछा, फक्तर की क्या पढ़नान है ? वे बोले “जो भूत काजिकर न करे, भविष्यत् का फिकर न करे और घर्तमान का फकर करे, वह है फक्तर । ” हे महापुरुषों ! वह आत्मबल दीजिए, जिससे यह फकर-वृत्ति आजीवन बनी रहे । (दूसरे महापुरुष हैं श्रीविनोबाजी भावे) ।

आपका—जो दुच्छ समझे वही
निगम

इस पुस्तक के विषय में

इस में श्रीविनोबाजी की ‘ईशावास्य-वृत्ति’ के अर्थ ज्यो-केत्यों दे दिये हैं । जहा आवद्यकता प्रतीत हुई, वही उन्हें सुगम और सुवेद बनाने का पूरा-पूरा यत्न किया गया है । शाति-भंत्र की व्याख्या प्रो० श्रीशीलजी के एक माध्यण के आधार पर लिखी गई है और मंत्र ६ की व्याख्या में जो मधुविद्या पर विचार किया है वह मेरे प्रियबन्धु श्रीविष्णुदेवजी-

साक्षेप्तर पंडित की 'उपनिषद्-सुधा' के आधार पर है। तो भी इस में बहुत-सी बातें नई नई मिलेंगी। नई होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। श्रीविनोबाजी के निम्न उद्धरण से मैं पूर्णहरेण सहमत हूँ। “पूर्वाचार्यों ने जो विवरण किया है उससे इसमें बहुत जगह भिन्नता दिखाई देनेवाली है। लेकिन उसमें विरोध जैसा कुछ नहीं। बचन को अर्थका भार नहीं होता। अगर विचार उत्तरोत्तर आगे बढ़ा तो पूर्वाचार्यों के परिश्रम को उसमें सार्यकता ही है। भिन्न अगर कुछ भी कहने का न हो, तो फिर लिखने की आवश्यकता ही पड़ा है?”

परिशिष्ट में गीता का कौन-सा शब्दावस्थ के विस मंत्र या पद में से निकला है, यह दिखाकर सब मन्त्रों की प्रतिपद-हिन्दीव्याख्या द दी है। गुजरात के मूर्खसेवक (चलती फिरती उपनिषद्) श्रीरविशंकरजी महाराज के आदेश से मन्त्रों का पदानुवाद भी दे दिया है।

आरंभ में श्रीविनोबाजी का 'ईशावास्य-योग्य' भी दे दिया गया है। एतदर्थं श्रीमती ग्राम सेवा-मंडल 'वर्धा' को अनेक धनन्यवाद हैं, जिन्होंने इसे प्रकाशित करने की स्वीकृति दी है। इतना कुछ होने पर भी मेरा मन छाई से संतुष्ट नहीं हुआ। आशा रखता हूँ कि यदि यह शरीर ठीक रहा तो इसका द्वितीय सस्तरण भोटे टाइप में यहुत शीघ्र निकलेगा।

अंत में मैं स्वर्गीय भाईश्री फूलशंकर-सुन्दरलाल देसाई ऐडब्ल्यूडेट-न्याय-सदस्यों (ट्रस्टीयों) तथा वेदमदिर-प्रकाशनाध्यक्ष म. म. महलेश्वर श्री स्वामी सर्वानन्दजी को अनेक धन्यवाद देता हूँ जो प्रतिवर्ष वेदिक तथा दार्शनिक प्रकाशन निकाल कर जनता में संसार-रों का संचार कर रहे हैं। यह 'दर्शन' भी उन्हों की ओर से प्रकाशित हो रहा है।

—निगम

३५

विषय-सूची

— कीकीकी —

१.	ईशाव स्योघ	
२.	उपोद्घत	१
३.	शाति-मन्त्र	६
४.	सपूर्ण जीवन दर्शन (मंत्र १-३)	१८-३५
५.	आत्मा की भट्टिमा (मंत्र ४-५)	३५-३६
६.	आत्महु मुण्ड (मंत्र ६-८)	३६-५०
७.	बौद्धिक साधना और आत्मज्ञान (मंत्र ८-११)	५०-६०
८.	ह्याद्विक साधना और आत्मज्ञान (मंत्र १२-१४)	६०-७०
९.	सत्यकी उपासना (मंत्र १५)	७०-७५
१०.	ध्याननयी (मंत्र १६-१८)	७५-८८
११.	गैता का बीज	८८-९०४
१२.	ईशावास्योपनिषद् (शब्दार्थ सहित)	९०४-९१०
१३.	पदानुधाद	९१०-९१४

— { ३५ } —

ईशावास्य-चोध

[ए० महादेवमाई देसाई की तीसरी पुण्य-तिथि पर खादी विद्य लब,
सेवाग्राम में दिया गया पूर्णिमा जी का प्रदर्शन]

माई नारायण ने जब मुझे ईशावास्य का पाठ करने के लिए उनमन्त्रित किया, तब मैंने विना सक्षेप उसे स्वीकार कर लिया । यद्यपि इन दिनों 'पाठ-हृति' मुमन्त्रे वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, फिर भी पाठमें लाभ है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ । पाठ के साथ-साथ उसका अर्थ जानना जहरी है । मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ बेवल पाठ नहीं करना है, उसका अर्थ भी करना है । इसलिए मैं अर्थ शुहू करता हूँ ।

यह एक छोटी-सी उपनिषद् है । शायद ही ऐसी कोई दूसरी छोटी स्त्रिया हो जिसमें इतना अर्थ समाविष्ट किया गया हो । हम चोज गीता का पाठ करते हैं । पहली भी छोटी हो है । फिर भी उसमें अठारह अध्याय है । पर इसमें तो बेवल अठारह श्लोक हैं । सोग मानते हैं कि दुनिया का पहला ग्रन्थ बेद है । वेदों का रहस्य जिन ग्रन्थों में आया है, उनको बेदाता बहुते हैं । ईशावास्य एक बेदात ग्रन्थ है । बेदात के अर्थ तो बेसे बहुत हैं । पर इसमें थोड़े मैं वेदों का सार आ गया है, और उसका भी निचोड़ पहले मन्त्र में आया है ।

उसका अर्थ है कि दुनिया में जो भी जीवन है, सब ईश्वर से भरा है । कोई चीज़ ईश्वर से खाली नहीं । सत्ता की भाषा में बाले, तो यहाँ बेवल उसीद्वा उत्ता है । वही एक मालक है । यह समझ कर हमें सब उसीका समर्पण करना चाहिए और जो कुछ उसके पास से मिले, प्रसाद समझ कर प्रहृण करना चाहिए । यहाँ मेरा दुष्ट भी नहीं, यह ईश्वर का है—ऐसी भावना रखनी चाहिए । जो पुण्य इस तरह रहेगा—कोई भी चोज अपनी नहा मानेगा—उभी उसका होगा, सब उसे मिल जा यगा । जो कुछ उसे मिलेगा, उसमें वह संतुष्ट रहेगा । दूसरे का मत्सर नहीं करेगा । जिसके धन की अभिलाषा नहीं करेगा । इस छोटे-से मन्त्र में एक महान् जीवन-व्यापी उद्घान्त बता दिया है, और उसे अमल में

क

लाने का उपाय भी । ईद्वर-समर्पण, प्रसाद के रूप में ग्रहण, मत्सर न करना, धन की धासना न करना—इस प्रचार एक संपूर्ण विचार इस मन में हमारे सामने रख दिया है ।

बहुधा हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरे के धन की अभिलाषा करता है । यह क्यों ? इसलिए कि वह आलस्य में जीना चाहता है । दूसरे मन म इसलिए कहा है कि धिना कर्म के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ वेर्षेमानी है । अर्थात् निरंतर कर्म करते हुए जैपी जिन्दगी भगवान् हमें दे, जीना चाहिए । जब हम कर्म को ठालते हैं, जीवन भारहर होता है—शापटप होता है । जाने-अनजाने हम सब यह बर रहे हैं, इसीसे हम हुँख भोग रहे हैं । दुनिया में जो पप हैं, वे भी बहुत सारे इसीसे पैदा हुए हैं ।

तीसरे मन में आगे चलकर बताया है कि माई, शामर भगवान् को भूल जाते हो, भोग प्रथान दृष्टि रखते हो, कर्मनिष्ठा को छोड़कर आलस्य को अग्रजाते हो, तो इसी जिन्दगी में नरक में पड़ते हो । और जो स्थिति जिन्दगी में है उसीके अनुसार मरने के बाद भी गति होगी, यह वस्तु तीसरे मन में समर्पित है ।

मन चार और पाँच का एक स्वतंत्र परिच्छर होता है । उसका सार यह है कि ईद्वर की शक्ति अलौकिक है । वह असीम है । उसके बारे में हम तर्क नहा कर सकते । हमारे तर्क से वह सीमित हो जायगा । गीता में बताया है कि ईद्वर जब अवतार लेना है, तब वह महान् कर्म करता हुआ दिखाई देता है, पर उस कर्म का लेण उसे नहीं लगता । उस समय भी वह अकर्मी रहता है । इससे उलटे, जब वह अपने मूल रूप में रहता है, अर्थात् अवतार प्रहण नहीं करता है, तब वह कुछ भी नहीं करता दिखाई देता है, पर उस समय भी वह सारी दुनिया का शासन करता रहता है । अर्थात् अकर्मी भी वह सब कर्म करता है । वही उसका व्यापक स्वरूप यही रख दिया है ।

फिर तीन मनों में ईद्वरभक्त का बरुन है । वह अपने में सब को

और सब में अपने को देखता है। यही भक्ति है। भक्ति से निजग्र का भेद मिट जाता है। मनुष्यने अपने बीच हजारों दीशों खड़ी की है। राष्ट्र, समाज और बुद्ध्य में लड्डाई-मण्डे इसीसे पैदा हुए हैं। इस निजग्र के भेद को मिटाना ईश्वर के ज्ञान वा फल है। जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है, वह इसी रास्ते पर अप्रसर होता है। दिन दिन चसकी आत्म-भावना बढ़ती जाती है। अर्थात् वह सोचता है कि जैसे मेरे शरीर की वासनाएँ हैं, दूसरों के भी हैं। इसलिए उनको खिल कर खाऊँ और पिलागर पीज़ें। सुझमें और मेरे बुद्ध्य में कोई भेद नहीं, इसी तरह देहात देहात और राष्ट्र-राष्ट्र में कोई भेद नहीं। इतना ही नहीं, मनुष्य और पशु में भी वह भेद नहीं करता। इस प्रकार वह अपना परम्य भेद मिटाता है। जो इस तरह रहता है, उसका जीवन आनंद-मय बनता है। इस प्रकार ईश्वर लिट पुरुष का या आत्महानी का दर्जन करके आठवें मंत्र के अत में पूर्वार्ध समाप्त किया है।

अगे के तीन मंत्रों में सुद्धि का कार्य बतलाया है। सुद्धि भगवान् ने हमारे हाथ में एक बड़ा हार्थियार दिया है। इससे हम अपनी उत्तमता कर सकते हैं और अवनति भी। हमें चाहिए कि हम उत्तमता करें। दुनिया में जितना भी ज्ञान है उस सारे ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। जुछ तो आवश्यक ज्ञान होता है, जुछ अनावश्यक। आवश्यक और अनावश्यक ज्ञान का विवेक करना हमें सौखना चाहिए। जो ज्ञान आवश्यक नहीं, उससे जीवन बरबाद होगा और सुद्धि पर व्यर्थ का बोझ पहेगा। जो आवश्यक है वह अगर हासिल नहीं किया, तो मनुष्य अरता कर्तव्य पूरा नहीं बर सकेगा। इसलिए इन मंत्रों में कहा है कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी। जो आवश्यक नहीं उसका अज्ञान ही रहने द। अगर असावधानता से अनावश्यक ज्ञान हो जाय, तो प्रयत्न-पूर्वक उसे भूल ही जाना चाहिए। साथ ही हमें यह भी पढ़चानना चाहिए कि हम तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से मिल, केवल साक्षिण्य हैं। इस तरह अभ्यास करने से सुद्धि ईश्वर-परायण रहती है। नहीं तो वह अवनति के लिए चारण हो सकती है।

विद्यार्थी राजा बनाने के वज्रय निर्वाचन पदते से हम सेना द्वादश वर्षा और भिज्ञ भिज्ञ गुण एक व्यवधि के लिए राजा बनेंगे। सेनेन जिन गुणों को मैं राजा बनाऊं, लगता है, उनमें कठुता का स्थान पहला रहेगा। जहाँ समृद्धि है, सरलता है, वहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। जहाँ वक्तव्य है, वहाँ अधर्म है, मृत्यु है। इतने बाना जानना है इस तकुआ सीधा चाहिए। उसमें टेक्कपन जरा भी नहीं चलता। तकुआ जिस तरह टेक्कपन सदैन नहीं करता उसी तरह हम भी अपने जीवन में वक्ता को विलुप्ति सदैन न करें। काया-बाचा, इसी प्रकार, ऐसी इस भंग में प्रार्थना की जाए।

उपनिषद् के आरम्भ में और अन्त में शान्ति मन्त्र घोलते हैं। उपासा अर्थ है—सब पूर्ण है, इसलिए सर्वं दा शान्ति रखनी चाहिए। अशान्ति या कोई कारण द्वारा नहीं। पर हमें तो आभास होता है, तिथर देखो उधर दुख भरा है, सब अपूर्ण है, और उसे हमें पूरा करना है। सेवन ऐसा नहीं। कुम्हार मिठीके पक्ष बनाता है सही, पर गे पहले ही मौजूद था, छुपा था। मैं तो बीचमें निमित्तमात्र खण्ड हो गया हूँ। इसी तरह रिक्त भी सोचेगा, वह विद्यार्थी को ज्ञान नहीं देता। प्राप्त करने भर में राहायक बनता है। इसी तरह माता पिता भी सोचें। दूनिया पूर्ण है, सेवन हमें बीचमें खेल करने का मौका मिला है। पानी पीछे दूरी तारी है और वह भी मिट जाती है। उसके साथ पनी ही पानी। वैसे ही हम भी हैं। जब हम काम करते हैं और गिर जाते हैं। दूसरे उठते हैं। इस तरह जब हम सोचते हैं, अशान्ति का कोई कारण द्वारा नहीं रहता। इसलिए अन्त में कहा है—

ईशावास्य-दर्शन

उपोद्घात

राधां कृष्णमर्यी साक्षात् कृष्णं राधामयं तथा ।
 द्वयं जगन्मयं चैतद्, भावये मन्मयं जगत् । १।
 ईशावास्यस्य या वृत्तिः, श्रीविनोदा-विनिर्मिता ।
 गुरु-शिष्य-संवादेन, अर्थते विशदं हि सा । २।
 अनुवादः सखा मेडस्टिल, लेखनी सहचारिणी ।
 ययोः साहाय्य मासाद्य, गतोडस्मि विदुषा पदम् । ३।

शिष्य—ये तीन श्लोक लिखन का क्या भव है?

गुरु—पहले श्लोक में मगल के लिए अपनी भावना का, दूसरे में अपनी इस पुस्तक के आधार का और तीसरे में अपने अध्ययन की न्यूनता का निर्देश किया है।

शिष्य—यदि आपका अध्ययन कम है तो लिखने ही क्यों चैठते हैं?

गुरु—अध्ययन दूसरों की आखों देखना है और मनन अपनी आखों, इसलिए लिखने में कुछ बाधा प्रतीत नहीं होती।

शिष्य—क्या 'ईशावास्य' किसी व्यक्ति का नाम है?

गुरु—नहीं। लक्ष्मी-साहित्य में जो जो ग्रन्थ दखने में आते हैं।

उनके नाम या तो किसी व्यक्ति के नाम पर ही रख लिये गये हैं, जैसे 'रघुवंश' 'हर्षचरित' 'शशुन्तका' 'कादम्बरी' आदि। अथवा उसमें की किसी सुख्ख घटना के आधार पर ग्रन्थ का नामकरण हुआ है, जैसे 'मृच्छकटिक' 'ऊरभग 'पचास' 'प्रतिमा नाटक' आदि। अथवा सीधा विषयानुसार भी नाम रख देते हैं। जैसे साहित्य दर्पण 'भारतवर्ष का इतिहास' आदि। पर यहा इन मार्गों से

आगे के तीन मंत्रों में हृदय-शोधन आया है। जिस तरह कुद्दि की शुद्धि करना आवश्यक है, उसी तरह हृदय की भी। हमें हृदय में देखना चाहिए। हम रे हृदय में दोष और गुण भरे हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें गुणों की 'अभूति' करनी चाहिए। उनका विकास करते रहना चाहिए। उन्हें उज्ज्वल बनाना चाहिए और दोषों की 'असंभूति' करनी चाहिए। अपान् नये दोष उत्तम नहा होने दना चाहिए, और जो हों उनका विनाश करना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें हमारी हाँ बेवल चित्त शुद्धि की होनी चाहिए। बाल्यावृष्टि से किसी वर्म में हमें पूरे सफलता भी मिले और सोग हमारा जयजयकार करने लगे, पर भी अगर उस वर्म से हमारे गुण नहा वहै है, तो वह वर्म बुरा है। उससे अपनी अवनति की है, और दुनिया की भी होने दी है। साथ ही हमें यह भी पढ़चानना चाहिए कि हम तो दोष और गुण दोनों से भिन्न, केवल साक्षिण्य है। इस तरह अभ्यास बरने से सच्ची हृदयशुद्धि होगी।

इसके आगे एक महान् मन्त्र आया है उसमें दर्शन का सार आ जाता है। दर्शन सार यह है कि दुनिया में सत्य छिपा हुआ है। यह मोह के आवरण से ढका है। जबतक उस मोह के आवरण का हम भेद नहीं करते हैं, तबतक सत्य का दर्शन नहीं होता। वह इसलिए नहीं कि धृद्धि-शक्ति की कमी है। दर्शन तो कुद्दि पर मोह का आवरण होने के कारण ही नहीं होता। एक मोह काचन मोह है। बाहर और अन्दर भी उस मोह के कारण परद पड़ते हैं। उसके कारण सत्य का दर्शन नहीं होने पाता। और भी तरह तरह के मोह हैं। उनको "द्विरप्मय पात्र" अपान् साने का ढकना कहा है। अगर सत्य के दर्शन बरना है, तो वह साने का ढकना दूर हटा देना चाहिए।

आवर के तीन मंत्रों में हमारा विकास-क्रम बतलाया है।

नन सोलहवें में बताया है कि जिसे ईश्वर बहते हैं, वह इस सासार को प्रेरणा देता है, उसका पालन पोषण करता है, और नियमन करता है। वह सासार का नित्य निरीक्षण करता है। ऐसी जिसकी शक्ति गाई

जाती है, उसके सामने तो मैं एक तुच्छ जीव हूँ। पर उसम और मुझमें तत्त्व भेद नहीं। क्योंकि उसीका मैं अश हूँ। वही मैं हूँ। मुझपर यह दह एक आवरण है। यह एक सुदर्शनग्र है। इसके भीतर मैं छिपा हूँ। इस देह को अगर हम भेद सकते हैं, तो वह 'मैं' का दर्शन होता है ईश्वर जिस प्रकार पूर्ण है, सुन्दर है, मैं भी हूँ-हो सकता हूँ। 'सोऽहम्' मन ने यह आश्वासन हर्म दिया है।

फिर कहा है कि इसकी हमें आमरण साधना करनी है। जितने भी भेद हैं, सब बाहरी हैं, दह के साथ हैं। मुझमें-आत्मा मैं-कोई भेद नहीं। बाहरी आवरणों को भेद कर हमें अतर्यामी के पास पहुँचना है। काला-गोरा, पतला-मोटा, मूढ़-चतुर, नीलिमान-अनीतिमान—सभी भेद उपरी हैं, देह के साथ हैं। इन्हें हमें भूल जाना है और अन्दर की वस्तु को प्रहण करना है। कुछ कहता है कि जो इस तरह आमरण साधना करता है, उसका देह जब गिर जाता है, तो उसकी मिट्ठी मिट्ठी में मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल जाता है।

आखिरी मन भगवान् की प्रार्थना है। भगवान् को मार्ग दर्शक अग्नि के रूप में देखा है। जो अग्नि हममें रहकर हम जीवित रखता है, जिसके न रहने से शरीर ठण्डा पड़ जाता है, वह जो गरमी है वह उपासना के लिए चैतन्य का एक सकेत है। उससे हम चैतन्य पहचानते हैं। वह चैतन्य की व्याख्या नहीं। अग्निस्वरूप चैतन्यदायी भगवान् से प्रार्थना की है कि हे प्रभो, जबतक हममें चेतना है, गरमी है, हमें सीधी रह पर रख। हमें वक मार्ग से न ले जा। आप लोग बुनने का काम करते हैं और शायद इस मन का कुछ भी बुनकर होगा। आप जानते हैं कि बुनते समय अगर हत्ये की ठोक टेढ़ी समती है तो कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, बिगड़ता जाता है इसलिए भगवान् से इस आन्तम मन में प्रार्थना की है कि हे प्रभो, हमारे जीवन में किसी तरफ की वक्षता न आने दे। हमें सीधी राह से ले जा। अगर मुझसे पूछा जाय कि किस गुण को गुणों का राजा बनाओगे तो मैं किसी एक गुण को

स्थायी राजा बनाने के बाह्य निर्वाचन पद्धति से बाम लेना पर्यंद कहंगा और गिर्जा-गिरज गुण एक अवधि के लिए राजा बनेंगे। लेकिन जिन गुणों को मैं राजा बनाऊँ, लगता है, उनमें कठुना का स्थान पहला रहेग। जहाँ कठुना है, सरलता है, वहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। जहाँ बकलता है, वहाँ अधर्म है, मृत्यु है। कातने बाला जानता है कि तकुआ सीधा चाहिए। उसमें टेटपन जरा भी नहीं चलता। तकुआ जिस तरह टेटपन सहन नहीं करता उसी तरह इम भी अपने जीवन में बकला को बिलकुल सहन न करें। काया-बाचा, मन से अंदर बाहर हम सरल हो जायें। ऐसे सरल जीवन के लिए हमें चल दे, ऐसी इस मंत्र में ग्रार्थना की है।

उपनिषद् के आरम्भ में और अन्त में शान्ति भंत्र बोलते हैं। उसका अर्थ है—सब पूर्ण है, इसलिए सर्वदा शान्ति रखनी चाहिए। अशाति का कोई कारण ही नहीं। पर हमें तो आभास होता है, निधर देखो उधर दुख भरा है, सब अपूर्ण है, और उसे हमें पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं। कुम्हार मिट्ठीसे पड़ा बनाता है सही, पर उसको जनना चाहिए कि मैं नया खुँझ नहीं करता हूँ। घड़ तो मिट्ठी में पहले ही मौजूद था, खुपा था। मैं तो बीचमें निमित्तमात्र खड़ा ही गया हूँ। इसी तरह शिवक भी सोचेगा, वह विद्यार्थी को ज्ञान नहीं देता। ज्ञान तो विद्यार्थी के दिमाग में भरा हो है। शिवक उम ज्ञान को प्रकट करने भर में सहायक बनता है। इसी तरह माता-पिता भी सोचें। दूनिया पूर्ण है, लेकिन हमें बीचमें खेल बरने का मौका मिला है। पानी में लहरें उठनी हैं। एक लहर उठती है और मिट जाती है। उसके पीछे दूसरी लहर उठती है और वह भी मिट जाती है। किन्तु झोता है सब पानी-ही-पानी। वैसे हो हम भी हैं। जब हम बाम करते हैं और गिर जाते हैं। दूसरे उठते हैं। इस तरह जब हम सोचते हैं, अशाति का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए अन्त में बदा है।—

ॐ शाति: शांतिः शाति:

ईशावास्य-दर्शन

उपोद्घात

राधां रुणमर्यां साक्षात्, रुणं राधामर्यं तथा ।
 द्वयं जगन्मर्यं धैतद्, भावये मन्मर्यं जगत् । १ ।
 ईशावास्यस्य या चृत्तिः, श्रीयिनोद्या-विनिर्मिता ।
 गुह्यशिष्यसंवादेन, यश्यते विशदं द्वि सा । २ ।
 अनुयादः सया मेऽस्ति, लेखनी सद्बारिणी ।
 ययोः साहास्य मासाद्य, गतोऽस्मि विदुषां पदम् । ३ ।

शिष्य—ये तीन श्लोक लिखने का क्या भव है?

गुरु—पहले श्लोक में मगल के लिए अपनी भावना का, दूसरे में अपनी इह पुस्तक के आधार का और तीसरे में अपने अध्ययन की न्यूनता का निर्देश दिया है।

शिष्य—यदि आपका अध्ययन इस है तो लिखने ही क्यों चैक्से हैं?

गुरु—अध्ययन दूसरों को अ'तो दखना है और मनव अपनी भावों, इसलिए लिखने में बुद्ध वापा प्रतीत नहीं होती।

शिष्य—क्या 'ईशावास्य' किसी व्यक्ति का नाम है?

गुरु—नहीं। सहृन-साहित्य में जो जो प्रथ्य दखने में आते हैं।

उनके नाम या तो इसी व्यक्ति के नाम पर ही रप लिये जाये हैं, जैसे 'रघुवा' 'हर्षचरित' 'शत्रुघ्नशा' 'बद्रमरी' आदि। अथव उसमें की इसी मुख्य पटवा के आधार पर प्रथ्य का नामकरण हुआ है, जैसे 'गृच्छद्विष्ट' 'ज्ञानग' 'पंचाश' 'प्रविमा नटह' आदि। अथवा सौभा विद्यानुगार भी नाम रपा लेने हैं। जैसे 'साहित्य दर्शण' 'मारतवर्ण' का इतिहास आदि। पर दहो हजारों से

वाम न लेकर नमकरण का अन्य ही भार्व निकाल लिया गया है। ‘ईशावास्य’ एवं उपनिषद् का नाम है। यह नाम उसके पहले भज के पहले पद परसे रख लिया गया है। पहला मंत्र है ‘ईशा-वास्य मिदं सर्वम्’ इत्यादि। इसी प्रकार का दूसरा नाम ‘वेदो-पनिषद्’ है। ये दो नाम थोड़कर तौमरा इसीप्रकार का नाम अभीतक मेरे कानों में नहा आया। यह ‘ईशावास्य’ आदिम भी है और अन्तिम भी। उपनिषदों में इसका नाम आदि में आता है। इसलिए यह वेदों का सर है और थोमदू-भगवदू-गीता की जननी है। यह यजुर्वेद के अन्त में आती है, इसलिए इसका नाम ‘वेदान्त’ भी है। ‘वेदान्त’ शब्द का एक अर्थ ‘रहस्य’ भी होता है। अत इसे ‘वेदोंका रहस्य’ भी कहते हैं।

शिष्य—‘उपनिषद्’ शब्द का क्या अर्थ है?

गुरु—‘उपनिषद्’ आदि शब्द-राशि ही अपना महान् अर्थ (सम्पत्ति) है। वेदादि भी शब्द-राशि के अतिरिक्त और कुछ नहा।

शिष्य—ग्रन्थ में समझा कि अपने पूर्वज शब्दरूपी पेटियों में अर्धहप्ती अनूत्तम रत्न घन्द करके हमारे लिए छोड़ गये।

गुरु—नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ऐसा मान लेने से ही आज अर्थ का अनर्थ हो रहा है। सौम्य ! शब्दों में अर्थ नहा रहा करते। शब्द तो सब उन अर्थों का सकेतमात्र करते हैं। शब्द आकाश में रहता है। उसकी साकेतिक आकृतिया प्रन्थों में रहती है और उनका अर्थ रहता है लोकमें। चापड़ी में अर्थ किलकुल नहीं रहता खोपड़ी में रहे तो रहे।

शिष्य—आच्छा, तो ‘उपनिषद्’ शब्दसे किस अर्थका बोध होता है?

गुरु—‘उपनिषद्’ शब्द के तीन खंड हो सकते हैं—उप-नि-सत्, ‘उप’ समीप का, ‘सत्’ बैठना कियाका और ‘नि’ निराँ (निष्ठा) का योग्यक है। कोई बैठनेवाला भी हांगा ही। किसी के समीप ही बैठा जायगा और बैठने का भी कुछ-न-कुछ उद्देश्य होना ही चाहिए।

का बच्चा पैदा होते ही राखा एं आदि पक्कने लगता है। इन्होंने ये कियाएं कहाँ देती और सुनी हैं?

गुरु—यहाँ ऐसी बातें हैं जिनसे पूर्वजन्म सिद्ध होता है। इसलिए पूर्वजन्म में देखा हुआ और सुना हुआ ही इनका कारण मानना पड़ता है।

शिष्य—देखा जाता है कि बहुत लोग 'गुरु' बनाने पर भी कोरे-वे-कोरे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है?

गुरु—यह कभी मानने जैसी बात नहीं कि पैट्रोल तो हो, पर आग न लगे। या तो पैट्रोल की जगह पानी होगा या दिया-सलाई ही नहीं होगी। या तो शिष्य ही नहीं होगा या गुरु ही नहीं होगा।

शिष्य—शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा?

गुरु—जो 'गुरु' बना सके वह गुरु और जो 'गुरु' बन सके वह शिष्य।

शिष्य—यह बात थोड़े विस्तार से सुनना चाहता हूँ।

गुरु—मुझो, महाभारत युद्ध होने ही वाला था। अर्जुन मोह में पढ़ गया और कह उठा कि 'शिष्यस्तेऽङ्ग शाधि माम्' मैं तेरा शिष्य हूँ और तू मेरा गुरु; अतः हो जाय हूँ। पैट्रोल तो था ही, क्यों कि वह गुडाकेश-तमोगुणरहित-था। आग लगानेवाला भी पक्का था; क्यों कि वह हृषीकेश-जितेन्द्रिय-था। इसलिए गुरु को हृषीकेश (जितेन्द्रिय) और शिष्य को गुडाकेश (सत्त्वगुणी) होना ही चाहिए।

दूसरा उदाहरण लो। अयोध्यावासी (सब नरनारी) राम से मिलने के लिए गये। रास्ते में युहसे भेट हुई। भरतजी कहते हैं कि "मनहृ लघनसन भेट भड़, प्रेमु न हृदये समाद्"। रानियां "जानि लखनसम देहि असीसा। जियहु सुखी सय लाउ बरीसा" "निरखि निषादु नगर नरनारी। भए सुखी जनु लघनु निहारी"। दूसरे किसी भाई का नाम न लेकर लक्ष्मणजी का ही क्यों नाम लेते हैं? इसलिए कि जैसे भगवद्गीता के सुनने से अर्जुन हृषण (अर्जुन का एक नाम) बन गया। वैसे ही गुरु भी लक्ष्मणगीता

मुननेसे शुश्मणा था हप भन गया। संत विनोदा तो इससे भी दो बदम आगे निकल गये। वे कहते हैं कि युह कृष्ण, शिष्य कृष्ण और उन दोनों का संबाद लिखने वाला भी हृष्ण (कृष्णद्वैपायन)। अत शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अट्टी कमिया कान खोल करके और आंखे मूद पर मुने एव दुखरोड़ी कमिया कान मूद करके और आंखें खोलकर मुने। युह को भी चाहिए कि वह शिष्य के प्रत्येक प्रभ का 'प्रदर्शनिव' हो कर उत्तर दे। शब्द तुम समझ गये होगे कि 'उपनिषत्' शब्द से कितना महान् अर्थ अवगत होता है।

शिष्य—हृष्णा मुन एक्षर इसका संक्षेप कह दीजिएगा।

शुद्ध—जैसे गीता ने अपने तेरहवें अध्याय के भातवें श्लोकमें लेवर म्यारहवें श्लोफ तक का साध्य-माध्यन दो अच्छर के 'शान' शब्द में भर दिया है। वैसे ही उपनिषदों में भी शान साध्यना और उसका पर्वत होनेवाला शान दोनों 'उपनिषत्' शब्द में भर दिये हैं। लिङ्गर्थ यह लिखता (१) आमस्तल (२) द्रष्टव्य (३) क्रष्णर्थ (४) गुणेवा में शरीर को निशेष रुपादेना (५) युह-(हृष्ण)-सांकेत्य, (६) जीवन-निरीक्षण (७) ध्रुव (८) मन (९) अवबोधन (१०) आचरण (११) अतुभूति।

शिष्य—पूर्वोक्त विवेचन में 'प्रदर्शयर्थ' शब्द नहा आया निकटमें कहासे आगया?

शुद्ध—यहुत अस्त्रा पूछा। ज्ञानदोष में "प्रहृत्यारी आचार्य-कुल-पासी, अत्यम्तम् आत्मानम् आचार्यं कुले अघसादयन्" (०१२३१) निम्ना है। अथात् द्रष्टव्यर्थ-पूर्वक युह व पास रहकर (वय), युह सवा में अपने आपको अत्यन्त निराश रूपसे (नि), रागने वाला (सर)। दोनों को मिलकर इतना 'अर्थ' रुपनेजा।

शिष्य—आपने 'अर्थ समझका' कैसे कहा? वक्तों कि अर्थ तो अपने मतसे शब्दमें नहीं रहता।

गुरु—मेरे मतमें ही नहीं, सभी के मन में समझो। ‘अर्थ’ शब्द में कभी नहीं रहना। यहाँ या कहीं अन्यत ऐसे स्थलों पर जो ‘अर्थ’, शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका मतलब, आराय तत्त्व, अभिग्राय, समझन् चाहिए।

शिष्य—‘द्वद्वयर्थ’ किसे कहते हैं?

गुरु—गुरु की सेर में अपने आपको नि दोष रखादेना। अर्थात् स्वामी रोचक और सेवा नामकरे तीनों का एक ही जाना ही सच्चो मैवा (ब्रह्मतर्य) है।

शिष्य—सबसे थेष्ट गुरु रीन है?

गुरु—“पूर्वेषामपि गुरुः कलेनानयच्छेदात्” (यो, द सू. २६) इधर ही गुरुओंमा गुरु है। जो अपना हाथ न पकड़ता इधर का हाथ पकड़ता है वह भी गुरु ही है।

शिष्य—यथा संसार द्वाइर इधरत्रास र लिए बाहर जगलमें जाने की आवश्यकता नहीं।

गुरु—जहाँ जाओगे कथा वहा रंसार नहा? यदि है तो तुमने द्योऽन्न ही क्या? खारे। ससार तो अपने अदर है, उसका प्रतावन्म मात्र बाहर है। तेरे ही पकाशसे यह सब प्रसारित होता है और तेरे सा जान पर ससार वा भी प्रलय हो जाता है “समीलने नयनयो नैहि किञ्चिदस्ति”। अत इधरप्राप्ति के लिए पर द्योऽकर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही घर को इधर का घर बनाओ।

शिष्य—अपना घर इधर का घर बैमे बनाया जाता है?

गुरु—सेवाम्। अपनी प्रत्येक इन्द्रिय जगदीधर की सेवामें लगा दो। जगदीधर की सेवा बरनेके गोग्य बनने के लिए पढ़ले ‘जगत्’ की सेवा करो। जगत् की सेवा ही स्वयं जगदीधर की सेवा बन जायगी; अन्त में तीना सेव्य-सेवक-सेवा) एक बन जायेंगे।

शिष्य—‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का जैसा तात्पर्य लोग बताते हैं क्या वह ठीक नहीं ?

गुरु—आभीतक मेरी समझ में नहीं आसका। जो वाकी सभी इन्द्रियों को बै—लगाम^१ छोड़ देता है और एक इन्द्रिय पर लगाम लगा लेता है वह वैषा ‘प्रसवचारी’। जितना इन्द्रियों को निरक्षण छोड़ देना अप्राकृतिक है; उसना ही इन्द्रियों से काम न लेना भी अप्राकृतिक है। जितेन्द्रिय होना चाहिए बद्देन्द्रिय या नटेन्द्रिय नहीं।

शिष्य—क्या विसी एक ही वर्णेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं वी जा सकती ?

गुरु—बिलकुल ही नहीं। क्यों कि ज्ञानेन्द्रियों और वर्णेन्द्रियों का अटट सम्बन्ध है। जैसे—थवण और वाणी का, त्वया और हाथ का, आँखें और पलंग का, रसना और उपस्थिता, नासिका और गुदाका। अर्थात् जो गुन नहीं सकता वह योंल भी नहीं सकता। जिसके रांगेन्द्रिय नहीं उसका हाथ नहीं हिल सकता। जो आँखोंसे हीन है वह चल नहीं सकता। जिसके रसना नहीं उसकी जननेन्द्रिय काम नहीं करेगी। नामिकाया हीन का भलायाग नहीं हो सकता।

शिष्य—वैषा आप हम संवन्धमें एव—आध आर्य प्रमाण भी दे पाते हैं ?

गुरु—तुम्हें प्रमाणों की आवश्यकता हो तो शायद देसो उनमें बहुत-बुद्ध भरा पड़ा है। उचाई के लिए बहुत प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती। अरद्धा एक वायव्य मूलता है; स्थान् यह ‘भागवत’ का हो। “जिद्धोपस्थजयो घृतिः” इजेन्द्रिय जिहा पर विजय प्राप्त करतेन्म से वर्णेन्द्रिय उपरूप पर स्वयं विजय होती है और यही राष्ट्रा धैर्य है।

शिष्य—जो आँखोंसे हीन है वह चल नहीं सकता। यह आपने हीमे रहा ? क्योंकि इम अन्योंको चलते हुए रहते हैं।

गुर—ज्ञानेन्द्रिय आत्म के विना कर्मेन्द्रिय पाँच कभी नहीं चल सकते । अंधेरा या तो किसी आँखवाले का सहारा लेकर चलेंगे या लाठीको ही अपनी आत्म बनावेंगे । अर्थात् वे ज्ञानेन्द्रिय तत्त्वाके होनेके कारण कर्मेन्द्रिय हाथ के सर्वशंसे काम चलावेंगे ।

शिष्य—‘उपनिषद्’ शब्द का तात्पर्य समझा । अब इसके कर्ता आदि के विषयमें कुछ सुनना चाहता हूँ ।

गुर—मुनो, ‘उपनिषद्’ है श्रुति, जो गुरु-परम्परा से ही सुनी जाती चली आरही है । श्रुति वेदको बढ़ते हैं । वेद नाम ज्ञान का है । ज्ञान का कर्ता कोई नहीं होता, वह स्वयंप्रकाश है । प्रकाशका दर्शन होता है । प्रकाश देखने वाले को ‘कृषि’ कहते हैं । (कृष्णो मन्त्र-दृष्टारः) । इसके कृषि ‘नारायण’ हैं । अर्थात् कोई ऐसा व्यक्ति जो नरकी सेवा (भक्ति) से स्वयं ‘नारायण’ बन चुका है अपना नामहृषि खो चुका है । कुछ लोग इसका क्षाप ‘दध्वङ् आशर्वण’ को मानते हैं । यही ‘मधुविदा’ के दृष्टा है (वृ. १५।१६-१७) ‘ईशावास्य’ भी सब उपनिषदोंका ‘मधु’ है ही; अतः यह कल्पना मीठी ही बैठनी है । दधीषि कृषि जैसे स्वागमूर्ति के मुखसे ‘तेन तथक्तेन भुजीया’ मुननेमें विशेष स्वारस्य है । देवता ‘परमात्मा’ है । छन्द अनुष्टुप् और त्रिष्टुप् है, किन्तु मुख है । तेरह मंत्र अनुष्टुप् छन्दमें हैं और बाँच मंत्र त्रिष्टुप् छन्द में तुल मंत्र संख्या १८ है । इनमें से ८ वा अंतर १६ की प्रसारित त्रिष्टुप् है ।

दूसरी घटना—किसी विषय को विक्षेप, द्विक्षेप और एकको में विभक्त करके विवेचन करनेही वेदोंकी पद्धति है । यहाँ भी तीन-तीन मंत्रों के पाँच विक्षेप, दो मंत्रोंका एक द्विक्षेप और एक मंत्रोंका एक एकक है । अर्थात् अद्यारह मंत्रोंमें सात विभाग किये गये हैं । प्रत्येक ग्रन्थ दूसरे मंत्र से एक विक्षेप आवाजा से गूणा गया है और कहाँमें ईश्वर-भक्ति (सेवा) की अस्त्र धारा पिरोया हुआ है ।

शांति-मन्त्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णं मादाय पूर्णं मेवा विशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

अर्थ—३५ । यह पूर्ण है । यह पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण निष्पक्ष होता है । पूर्ण में से पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही बोय (बाकी) रहता है ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

शिष्य—यथा यह मन्त्र इस उपनिषद्का नहीं ? यदि याहाका है तो यहाँ देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

गुरु—उपनिषदों में आये हुए शांति-मन्त्र उपनिषदों के बाहर के माने जाते हैं । यह मन्त्र भी 'ईशावास्य' के बाहर वा है । शांति-मन्त्र उपनिषद् के आदि और अत में पढ़ना होता है । आदि में अद्वा से और अनन्त से समाधानसे । यश्चार्थ अध्ययन के अनुकूल चित्तस्थिति तैयार करना इसका उद्देश्य है, फिरभी इसमें मानो ईशावास्य वा सारा सार ही कह दिया है, आरंभ में ही हमें उसका दर्शन हो जाता है ।

शिष्य—तीन बार 'शांति' बहनेवा मतलब ?

गुरु—वैदिक, सामाजिक और सामारिक शांति के लिए अध्यक्ष कायिक, वाचिक और मान्मिक शांति के लिए तीन बार 'शांति' शब्दका उच्चारण किया है ।

शिष्य—'पूर्ण में से पूर्ण निष्पक्ष, जिसमेंने निष्पक्ष यह भी पूर्ण और जो निष्पक्ष यह भी पूर्ण' यह ऐसी पढ़ेती ?

गुरु—पढ़ेती नहीं सचाई है । एक दैपक से कितने ही धौपक जल'सो सब-है-सब पूरे ही रहेंगे । एक फोटो के कितने ही फोटो

खीच सो सब पूरे ही होंगे। मनुष्य में से मनुष्य निकला है, वह भी पूरे-जा-जूरा, नक की जगह आख या आंख की जगह नाक नहीं ठीक वैसा ही जैसा मनुष्य है।

शिष्य—कभी कभी देखने में आता है कि सुन्दर सुडौल और पूरे व्यक्ति के भी लूँगा-लौंगड़ा और अबूरा बच्चा वैदा हो जाता है।

गुरु—तुमने वैसे जाना वि वह बच्चा उसीका है जिसी दूसरे का नहीं।

शिष्य—उसकी माँ कहती है जो परम साध्वी है।

गुरु—वाहर से शरीर स्थूल होने पर भी उसके बीच में कमी ही सकती है। खान-पान या इसी बाह्य दृश्य का भी गर्भस्थ बच्चे पर बुरा प्रभाव पहुँच सकता है। पूर्ण चीज होने पर भी जल-जाहु-जमीन की पूर्ण अनुदूलता न छिटनेमें वह परिणाम, सुधित और फलित नहीं हो सकेगा। पर भगवान् तो पूर्ण ही नहीं परिपूर्णतम है। परिपूर्णतम की कृतिमें अपूर्णता कैसे हो सकती है। क्या तुम पूर्णी-जल-तेज बागु-न्मकश में कुछ अपूर्णता बता सकते हो? पंच भूतों से द्वी पस्तुओं (देना-नदेनी-सेव आदि) में क्या कुछ अनुदूलता तुम्हें दिखाई देती है? इसलिए जगदीधर की महान् हृति यह जगत् भी परिपूर्णतम है।

शिष्य—स्वा आप यह विषय इससे भी अधिक साझ करते समझा सकते हैं?

गुरु—भगवत्-हृति से क्या तुम नहीं हो सकता। हृति भगवत् का आदि नाम ‘प्रणव’ है। इसके दो ग्रन्थ होते हैं ‘प्र’ और ‘नव’। इससा अर्थ है पुराणुरुप होते हुए भी प्रणव=नित्यनूतन। एवं इससा दूसरा अर्थ भी हो सकता है प्र=वरी, नव=रसेया [तस्य घाचकः प्रणवः] प्रणव=अर्थात् ऊँ। इसका यिसपूत वल्ला रथ नव-संस्कारः एवं अंक (८) (६) है; वही कहीं एक मंग्रवा के अंक का उच्चा नव संस्कार एवं अंक दरखते में आता है; यथा (१) (८) अथ इम

नव की संख्या पर विचार करते हैं कि वह पूर्ण है या नहीं? उसमें से निकलने वाली संख्या पूर्ण है या नहीं? और वाकी कची संख्या पूर्ण है या नहीं? आदि आदि।

एक में लैकर नी तक संख्या लियो—(१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९) और जोड़ो ४५ होगे, चार और पाँच नी (५)। अब नी वी गंख्या दो बार लिया बर जोड़ो—१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

$$\begin{array}{r} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9 \\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9 \\ \hline 2\ 4\ 6\ 8\ 1\ 3\ 5\ 7\ 9 \end{array}$$

अब योग के थंक जोड़ो ४५ होंगे—चार और पाँच नी (५) अब नी वी प्रतिलिपि संख्या जार रख कर उसमें में अनुलिपि नी वी संख्या घटाओ—

$$\begin{array}{r} 6\ 5\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1=45-4+5=6, \\ 3\ 2\ 1\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9=45-5+6=6, \\ \hline 5\ 6\ 4\ 9\ 6\ 7\ 5\ 3\ 2=45-4+5=6, \\ \text{अब तीनों को जोड़ो—} 1\ 6\ 7\ 5\ 3\ 0\ 6\ 4\ 2=45-4+5=6, \\ \hline 24-2+6=6, \end{array}$$

नीता पहाड़ा— १-६=५

पन्द्रह संग्र

६	१	८
७	२	३
२	६	४

१५

१

१५

$$\begin{array}{r} 3-15-1+5=6, \\ 2-2+3-2+2=6, \\ 1-14-3+6=6, \\ 2-12-1+5=6, \\ 1-12-2+4=6, \\ 3-13-4+1=6, \\ 2-12-3+1=6, \\ 1-14-5+1=6, \\ \hline 15-15-15+15=6, \end{array}$$

१५=१५+१५=६। इसी प्रकार दोनों नी वी संख्या पूर्ण ही होती।

शिष्य—गणित के अनुसार क्या यह संसार भी 'पूर्ण' सिद्ध किया जा सकता है?

गुरु—क्यों नहीं। 'अ आ इ ई उ क क ल ल ए ऐ ओ अं अः' ये १६ स्वर हैं। "क" से लेकर 'म' तक २५ वर्ण शीर 'य र ल व रा य स ह' ये आठ वर्ण। सब मिलाकर ३३ व्यंजन हुए। जो जो स्वर या व्यंजन जिस जिस संख्या पर आता है उसकी वही संख्या लिखो फिर उसका योग करो। स्मरण रहे—अकारकी संख्या नहीं लिखनी। वह केवल व्यंजनों के उच्चारण के लिए है—'ककारादिपु अकार उच्चारणार्थः' 'नात्कं विना व्यंजनस्योच्चारणं सम्भवति' (महाभाष्यम्)। पहले 'संसार' शब्द ही लो—(स-अं-स-आ-र-अ) 'स' की संख्या ३, 'अं' की १५, 'स' की ३२, 'आ' की २ 'र' की २७ और 'अ' की संख्या नहीं लेनी। क्योंकि वह उच्चारणार्थ है।

संसार	जगत्	हरि
।	।	।
३२	८	३३
१५	३	२७
३२	१६	३
२	<u>२७, २+७=६,</u>	<u>६३, ६+३=९,</u>
२७		
<u>१०८, १+८=९,</u>		

प्रद्वा	रासा	सीता	राम
।	।	।	।
२३	१२	३३	२७
२७	२	४	२
३३	२	१६	२५
२५	<u>३६, ३+६=९,</u>	<u>९</u>	<u>—</u>
<u>१०८ १+८=९,</u>		<u>२४ + ५४-१०८, १+८=९,</u>	

राखिला—कृत्य

२७	१
२	५
१६	११
३	१२
१	
३	
<hr/>	
४४	+ ४४ = १०८, १+८=९,

गीतोळ व्रष्टिकर्म १, भक्ति के भेद ८, यजा-गृथ के तन्त्र ८,
देह के द्वार ८, संख्योक जगत् वर्द्धतवद्य ८, (हेतुमूल अनिष्टम्
अव्याप्ति०) रा. च. मा. मंगलाचरण की चैताइया ८, श्रित् ८,
पुराण १८, (१+८=९) उपगुरुण, सहित्या, उपसूतिया, गीता के
अध्याय, पाठ्य सेना के बीरों के नाम, स्थित-प्रश्नके सद्दण-संकेत,
भगवान् के प्रियमंत्र के नामाचार, ये सब अठारह अठारह ही हैं।
भागवत के श्लोक १८ हजार, महाभारत के पर्व १८, म. भा. युद्ध
१८ दिन तक, अचौहिणी १८, । एक अदंडिली के मंख्य—

२	९	=	७	=	०	=	०	—(हाथी)	१८, १+८=९,
२	१	९	८	०	०	—(राघु)	१८, १+८=९,		
६	१	६	१	१	०	—(पेट)	१८, १+८=९,		
१	०	१	१	१	१	०	—(रंदल)	१८, १+८=९,	
<hr/>									
									७२, ७+२=९,

‘इतानाय’ वर्णनदू के गद भी १८ अठारह हैं हैं ।

शिय—गुरुशय ! हृषा वरके दद वर्षाएगा हि इम १८ ही गंख्य के
इन्हा महात् वयो दिया गद । ८ ही गंख्य का महात् तो गमका ।
यदर्थी १+८=९ ही होते हैं जिर भी नी ही गंख्य न दद १८ ही
गंख्या वयो ही ।

गु—देवा^१ भारतीयों के प्रत्येक नाम और स्वप्न की बल्पना म भी जीवनोपयोगी रहस्य निहित रहते हैं। यहाँ उनका वर्णन करना विषयात्तर हा जायगा। दियी दूसरे समय पर इस पर भी चर्चा हा सकेगी। अस्तु

गीता के मानवे अथाय के चौथे श्लोक में भगवान् ने आपनी आठ अकार की 'प्रहृति' का वर्णन किया है। जैसे

"भूमिरापोऽनलो वायुः यं मनो बुद्धिरेव च।
अट्टकार इतीय मे भिन्ना प्रकृति रण्धा ॥"

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहकार यह मेरी आठ प्रकारकी अपरा प्रहृति है और

"अपरा इयम्, इत स्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।
जीवभूता भद्रायाहो यथेऽप्यधार्यते जगत् ॥"

इससे अलग एक मेरी परा प्रहृति है जो एक ही प्रकार की है और जो समस्त जगत् का धारण कर सकती है, जिसका नाम है 'जीव' अपरा प्रहृति का योग्य आठवा अंक और परा प्रहृति का योग्य एक या अष्ट, छोटी मद्या यही सख्त्या से पूर्व बोली और लिखी जाती है, जैसे दो-चार (२-४) दस-बीस (१०-२०)। इसी प्रसार यदि हम प्रहृति की संरक्षा किये तो १-८ लिखी जायगी और दीचढ़ी लीटी निशाल दी गई, यदि गये १८ अठारद, १+८=९, पूर्ण का पूर्ण ।

गिर्व—प्रहृति की ही स्थिति के आधार पर गीताध्याय आदि की संख्या क्या रखी गई ।

गु—इसलिए हि यदि हम प्रहृति के पूजे से छूटना चाहते हों तो कर दें हुए अठारद पर्यायशाले महाभारत-भिन्ना आदि संख्यों का मनन करो और उन्हें औरन में उतारो ।

शिष्य—भगवान् रामने दिनके बारह बजे और भगवान् कृष्ण ने रात के बारह बजे जन्म क्यों लिया?

गुरु—भगवान् राम सूर्यवर्षी थे और भगवान् कृष्ण चंद्रवर्षी थे। सूर्य दिन के बारह बजे एर्स होता है और चंद्रमा रातके बारह बजे। शिष्य—क्या 'राम' पूर्णवितार थे? लोग तो उन्हें १२ कला अवतार कहते हैं।

गुरु—तू लोगों की बात मानेगा या शास्त्रों की। वेद कहता है कि 'पूर्णं पूर्णं मुद्द्यते' इस सिद्धान्त से तो सभी पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भगवान् राम तो पूर्ण ही नहीं परिपूर्णतम् थे।

शिष्य—भागवत में लिखा है कि—

"अन्ये चांशकलाः पुंसः, कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्"

गुरु—यह भागवत की भाषा है जो विलकृत ठीक है। सबकी भाषा (बोली) भिन्न भिन्न होती है। एक पूरा राष्ट्र किसी बनिये म पूछो। वह कहेगा हमसा पूरे १६ सोलह आनों का है और उसी राष्ट्र को मुनार के यहाँ ले जायो, वह कहेगा हमारा (१२) बारह मासोंका है। चरकों सोलह कलाएं हैं तो हमें चंद्रवर्षी कृष्ण के लिए सोलह कलासम्पूर्ण ही बहन। ठीक है और सूंकी बारह राशया या बारह मास होते हैं, इसलिए सूर्यवर्षी राम के निए बारहकलासम्पूर्ण रहने में ही विशेष स्वारस्य है।

शिष्य—तुम लोग कहते हैं कि द्वा ओंकार का दर्शकरण नहीं कर सकती। यहाँ तो "ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम्" लिखा है?

गुरु—यह द्वी पद्मरी होगी। जो बहरा होता है वह बोल नहीं सकता ताकि वह द्वी हो, पारे बनुय।

शिष्य—नहीं नहीं। कहो है यि गी यो अंकार के उत्तरण वरसे का अधिकार नहीं।

गुरु—यह अधिकार दिमने देन लिया? प्रह्लाद ने ये तुम सें-न दर्द कुछ नहीं ने दीना है तो यह उन्होंने श्रिय पर पास कृष्ण

वधिकार की बात कहाँ है। यह तो बण्ठ को अपूर्णना है। जो लियों को प्रहृति माताकी औरसे मिली है। अन्यथा इन्हें भी दाढ़ी-मूत्र मृदनेके लिए मनुष्यों के समान सफटोरेजर रखना पस्त। दाढ़ी-मूत्र ही मनुष्य के पूर्णकठता की सूचक है, जैसे मारकी पूछ। मोरनो के पूँछ नहा होती, इसलिए वह मोरके समान 'केका' नहीं कर सकती। सिट्टनी के अबाल नहा होता। इसलिए वह सिंह के समान गर्जना नहा कर सकती। चतुर्थवर्ण के लोग भी मात्रोंनी गर्जना नहा कर सकते। क्योंकि उनका भी बढ़ अपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ कि गर्ज ना हो तभी गर्जना हो सकती है। गर्जमन्द ही शाद है।

ॐ ईशावास्यमिदैः सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुजोया मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

अर्थ—ॐ । जगत् में जो शुद्ध जीवन है, वह ईश्वर का वसाया हुआ है। इसलिए उसके नाम से त्याग करके तू यथाप्राप्त भोगता जा। किसीके धन के प्रति वापना न रख।

शिष्य—“जगत् में जो शुद्ध जीवन है, वह ईश्वर का वसाया हुआ है”

यह कैसे?

गुरु—ईश्वरने नहीं वसाया तो और इसने वसाया है? हम-मुम तो इसके वसानेवाले हो नहीं सकते। क्यों कि हम सर्वज्ञ नहीं और सर्वशक्तिमान् नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ है और शबशक्तिमान् है। पहले उसने आव्यक्त, आव्यरुपसे महत्त्व, महत्त्वसे अद्वन्तत्व, अद्वन्तत्वसे भूम्भूत, सूक्ष्मभूतों से महाभूत। अर्थात्-ऋग्वेद आकाश-वायु-तेज जल-पृथ्वी वसार्ह। आकाश में केवल शब्द गुण, वायु में शब्द-सर्व दो गुण, तेज में शब्द-स्पर्श-हप तीन गुण, जल में शब्द-स्पर्श-हप-रस चार गुण और पृथ्वी में शब्द-स्पर्श-स्पर्श-रस-गन्ध पाँच गुण वसाये। इन गुणवालों की प्राप्ति के लिए वाणी, दाष, पात्र, उपस्थ और गुदा ये पाच कर्मनिदेये वसार्ह। ज्ञानेन्द्रियों के दिना

गुरु—भले मानम्; जिसने रहने के लिए पुखी दी, पीने के लिए पानी दिया; देखने के लिए तेज दिया, जीने के लिए हवा दी और बोलने के लिए आकाश दिया। क्या उस अकारण कहणा निधि के ग्रति हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं? है, अतः दरिद्रनारायण के लिए त्याग करके ही यथाप्राप्त भोगता जा। “दरिद्रान् भर कौन्तेय! मा प्रयच्छेष्वरे धनम्” ईश्वर को धन मत दो, उसके अहमीय दरिद्रों का पालन करो।

शिष्य—‘यथाप्राप्त’ की क्या अवध्यकता है। जैसे भी हो संभव धन इकट्ठा करेंगा। स्वयम् भी उड़ाऊंगा और कुछ उसमें मेरी बोको भी दे दिया करेंगा।

गुरु—ना, ऐसा करना अन्यथा है। अन्यथा के अन्न से तन पुष्ट होता है, मन दुष्ट होता है, आत्म असंतुष्ट होता है, परमात्मा रुष्ट होता है और अन्तमें मुर्वस्त्र प्लुष (स्वाहा) होता है। इसलिए ‘त्यक्तेन भुजीयाः।’ अर्थात् त्यागका नाम ही भोग है, नहीं तो भोग महारोग है। मान लो, मेरे पास लातों मन अन्न है और मेरे प्रतिदिन लातों कमाता हूँ। पर प्रहृतिमाताकी ओरसे मुझे पाव भर अन्न ही भोगने के लिए मिलेगा। इससे अधिक अन्न और धन मेरे लिए महारोग धन जायगा। यदि मैं इस समस्त अन्न और धन का उपयोग करना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि जिन्हे अन्न की अवध्यकता है, उनमें उसे मुख द्वारा से बढ़ दूँ। इसीका नाम बस्तुतः भोग है, नहीं तो रोग है।

मेरी समझमें यहाँ ‘भुजीयाः’ का अर्थ भोग नहीं। क्योंकि भोग सो हम नीची पश्चु आदि योनियोंमें भी भोगने ही आरहे हैं और देव आदि योनियोंमें भी भोगें हैं। क्योंकि वे सभी योनियों भोगयोनियों हैं। मनुव्ययोनिये लिए भोगकी विधि नहीं हैं

शिष्य—‘क’ नाम प्रजापतिका है। इसका कोई बहिर्या उदाहरण दीजिए।

गुरु—इसके तो अनेकों उदाहरण हैं। पर मैं तुम्हें एक व्याकरण से सम्बन्ध रखनेवाला उदाहरण मुनाता हूँ। मुनो, विसी मित्रने एक नायिकाकी ओर सरेत करके प्रश्न किया—

“ दद्येयं गुणदीना कथय सर्ये । को हेतुः ? ”

उत्तर मिला “किं मां ययस्य पृच्छसि यदुत्तर प्रश्न पव ते !”

प्रश्न—“ यह दद्या=मुन्दर तो है, पर इसमें कोई दूसरा गुण नहा, कहो इसका क्या कारण है ? ”

उत्तर—“ मुझमें क्या पूछ रहे हो, जो तुम्हारा प्रश्न है वही इसका उत्तर है ‘ ‘ को हेतु ’ क विधाता, हेतु व्याकरण है।

प्रथम मित्र—नहीं नहीं, मेरा यह भाव नहीं। मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि यहाँ ‘दद्या’ कैसे बत गया। ‘दद्या’ धातु से ‘प्यत्’ प्रत्यय होने पर गुण होना चाहिए। अर्थात् ‘दद्या’ बनना चाहिए।

दूसरा मित्र—मुझ से क्या पूछ रहे हो, जो तुम्हारा प्रश्न है वही इसका उत्तर है। ‘को हेतु’ गुण न होनेमा कारण ‘क’ है। अर्थात् यहाँ ‘प्यत्’ प्रत्यय नहा ‘प्यप्’ है, किंतु होने से गुण का नियेध हो गया।

शिष्य—योदे में इस मनका सार कह दीजिए ?

गुरु—यह मन ही समस्त वैदिक धर्मका सार है। (१) ईधर की सत्ताका स्वीकार करना (२) स्वयं त्यागगृहि के जीवन व्यतीत करना और (३) दूसरोंकी भोगता के प्रति ईर्ष्या न करना। अर्थात् स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा सम्बन्धी कर्तव्य बैठे होने चाहिए। यदि एक ही वाक्य में कहना चाहें तो यो कद सकते हैं कि नोति से प्राप्त करे, रीति से उपयोग करे और प्रीति से दान करे।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् छत्रं समाः ।
पर्वं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

अर्थ——इह लोक में कर्म करते-करते ही, सौ साल तक जीने की इच्छा करे । तुम देहधार के लिए यही मार्ग है । इससे मिल मार्ग नहीं । मनुष्य से कर्म नहीं चिपकता, फल-बासना चिपकती है ।

शिष्य—‘जिजीविषेत् शतं समाः’ सौ-साल तक जीने की इच्छा करे । यह विधि कैसी ? क्योंकि जीनेवा अभिनिवेश तो सभी में रहता ही है ।

गुरु—खत्री थात । यहा जीनेकी इच्छाकी विधि नहीं, किन्तु कर्म धरने की विधि है कि ‘कर्म करते-हरते ही सौ-पर्व तक जीवे’ । क्योंकि कर्मयोग ही जीवन है और अकर्मण्यता मृत्यु । परिथम ही परमात्मा है और आलस्य ही पिशाच । परिथम ही स्वर्ग है और आलस्य ही पाप । परिश्रमी ही दवना है और आलसी ही दानव, एवं कर्मयोगी है सच्चा मानव ।

शिष्य—इह=इम लोकमें । ऐसा क्यों बहा ?

गुरु—ठीक तो यहा । जिसका ऐहिक जीवन है पवित्र, उसका पारलौकिक जीवन भी दवित्र । यो कहा कि पारलौकिक जीवनका है ऐहिक जीवन चित्र ; जैसे हम इस लोक में होंगे वैसे ही परलोक में । परलोक का चित्र हमारे अन्दर होता है । प्रत्येक पर्वत एवं नदी में देखतर उम फिलमा दर्शन वर सकता है । यदि यह पिलम काली होगी तो काला लोक मिलेगा और यदि यह सफेद होगी तो प्रसागमान लोक मिलेगा । जो जो कर्म इम जन-पूरुषोंकरते जाते हैं उन उन कर्मीका चित्र हमारे मन पर उतरता रहता है । जैसा होगा मन यैसा मिलेगा तज, जैसा होगा तज वैसे मिलेंगे जन,

जैसे मिलेंगे जन वैसा ही होगा उत्थान और पतन । यही बात भगवान् कपिल, माता देवहृषि के प्रति कह रहे हैं कि

“ अत्रैव नरकः स्वर्गः, इति भातः । प्रचक्षते । ”

अर्थात्—हे मा ! ‘यहा ही नरक और स्वर्ग है’ ऐसा शब्द कहते हैं ।

श्रिय—हम कुछ लोगों की आयु से—वर्ष से उपर की भी छेदहस्ते हैं । वेद तो केवल से—वर्ष ही आयुका परिमाण मान रहा है । यह कैसे ?

गुरु—श्री विनोदाजी लिखते हैं कि ‘जैसे नीचूका सेकड़ा १२० का, रक्तलों का ११२ का, और नाम-स्मरण का १०८ का मानते हैं, उसी तरह आयुर्मान वा सेकड़ा ११६ वरसका माने—ऐसी शिक्षा श्री ऋषणांको घोर आगिरसने दी है जो (द्वा० ३।१६) उपनिषद् में आती है । उस योजनामें पहले २४ वरस अध्ययन के, बीचके ४४ वरस कर्मयोग के और अन्त के ४८ वरस चिन्तन के माने गये हैं ।’ (ईशावास्य-उत्ति, पृष्ठ १८)

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी लिखते हैं कि

“इसका अर्थ केवल १०० वर्ष इतना ही नहीं । ‘इच्छा’ प्रौढ मनुष्य बरता है । बालक या युवक इच्छा बरते में और उसे प्रभावो बनाने में असमर्थ ही है ; ८ वर्षका बालपन और उसके पश्चात् १२ वर्षका अद्विष्ट, अर्थात् विद्याध्ययनकी आयु मिलकर २० वर्ष होते हैं । इस बीसवें वर्ष मनुष्य विद्वान् और अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति से अपना निर्वाच्य बनानेवाला होता है । अत ये २० वर्ष और १०० वर्ष पुरुषार्थ प्रदत्त बरतेकी आयु मिलकर १२० वर्षको आयु होती है । २० वर्ष होने पर सी वर्ष में जीउगा और उससे पहले नहीं मर्हगा ऐसी इच्छा मनुष्य बर सकता है । इस तरह मानवी आयु १२० वर्षकी है । पत्त-जयोतिष जन्मपत्री जो बनाते हैं वे विशोषरी (१२० वर्ष आयु) मानकर

करते हैं। दूसरा गणित अष्टोत्तरी (१०८ वर्षकी आयु) मानकर विचार जाता है। इस तरह १०८ या १२० वर्षकी आयु सामान्यतः द्योतिप्रभ में मानी है। इसलिए १०० वर्षकी आयु अपनी हो रेसी डच्छा मनुष्य तरह बनकर करे यह इस मंत्र द्वारा कहा है।” (आत्मज्ञान-ईसोपनिषद् पृष्ठ १७१)

शिश्य—इस विषयमें व्याप भी आमना बाबाशाही कुछ अनुभव सुनाने की कृपा कीजिए?

गुरु—मुझी, जैसे आजकल हमारी औंमत (सामान्य) आयु ३४ वर्ष की मानी जाती है, जैसे ही वैदिक धालकी औंप्रत आयु सी-वर्षकी मानी जाती होगी। मैं तो समझता हूँ कि यह हमारी आयु की गारंटी है। जैसे तीन वर्षकी गारटीवाली घड़ी व सो वर्ष चलती रहती है। जैसे ही सी-वर्षकी गारटीवाली आयु भा दृजरो वर्ष तक पहुँच सकती है। इसलिए पुराणोंमें बहुत लंबी—लंबी आयु वा बर्णन मिलता है। यह समस्त आयु कर्म करते—करते ही व्यक्तित होनी चाहिए। स्मरण रहे—विहानने यह सिद्ध करने देखा दिया है कि जितने समयमें प्रहृतिके नियमानुसार जिस प्रणो के अवश्य पूर्ण होते हैं, उसमें कम—थे—कम पाच गुना अधिक उमसी आयु होती है। यथ—

योहा पाच वर्ष में पूर्णवयव होता है और उसकी आयु भी ३० वर्ष की होती है। तुता दई वर्षमें पूर्णवयव होता है, उसकी आयु भी १४ वर्ष की होती है। उठ अठ वर्षमें पूर्णवयव होता है, उसकी आयु ४० वर्षकी होती है। उठउठ संक्षेप में पूर्णवयव होता है, अन. उमकी आयु हजारों वर्षों की होती है। मनुष्य ३५ वर्षमें पूर्णवयव होता है, अन. उसकी आयु भी १२५ वर्ष होनी चाहिए।

शिश्य—सहते हैं कि ‘कर्म’ तो बदन का बारण है? बंधनमें पड़ने को क्या अवश्यकता है?

गुरु—यदि 'कर्म' बाँधने की शक्ति रखता है तो छोड़नेकी भी रखता हो होगा। जो बाँध सकता है वह छोड़ भी सकता है। गाठ लगाना भी कर्म है और गाठ खोलना भी कर्म। देहधारीके लिए कर्म के बिना दूसरा कोई मार्ग ही नहा। क्योंकि कर्म छोड़ना भी कर्म ही हो जाता है। न करना भी एक प्रकारका कर्म ही है। इसलिए 'एवं न्ययि नान्यथेतोऽस्ति'—तुम देहवान् के लिए यही मार्ग है, इससे भिन्न मार्ग नहा। अर्जन भी कर्म न करने की बात चला रहा था। भगवान्से यहा वा 'त्वयि' शब्द उठाऊ कहा कि 'नैतत् त्वयि उपपद्यते' अर्थात्—तेरे लिए ऐसा बहना ठीक नहीं। इस 'त्वयि' तृकारमे बितभी आत्मीयता है—कितनी बासलगा है। मानो माँ इपने लाडले बेटसे कह रही हो। कि तू मेरा लाल है। जो इस 'तू' मे भजा है वह 'आप मेरे लाल है' के 'आप'में वहाँ?

दूसरी धारा—'न कर्म लिप्यते नरे'=मनुष्यम् कर्म नहीं चिपकता। करण कि 'कर्म' जड़ है। जड़ वस्तु चमचमसे चिपक नहीं सकती। हाँ, चेतन ही उसे चिपक' ले तो यह दूसरी धारा है। 'कर्म' हम करते हैं न कि 'कर्म' हमें करता है। घोड़ेको हम चलते हैं, घोड़ा हमें नहा चलाता, क्योंकि हम 'नर' हैं=कर्म के नेता हैं। भगवान् कहते हैं कि 'न मां कर्माणि लिप्यन्ति' (गी ४। १४) कर्म मुझमें चिपकते नहीं। क्योंकि 'न मे कर्म-फले स्फूर्ता' मेरी कर्म-फल में स्फूर्ता नहा। 'स्वाध' के लिए बिया हुआ कर्म भारहप होता है, 'परार्थ' के लिए बिया हुआ कर्म भारहप नहा।

शिष्य—'लिप्यन्ति' का भार अर्थ कैसे हो सकता है?

गुरु—'लिप्' का अर्थ ही भार है ('लिप्' उद्देहे, उद्देहो=हृदि) देह पर लादा हुआ। जब देह पर कोई वस्तु हम लाद लेने हैं तो उसका भार होता ही है। इसीका 'लेपन' बनता है जिम्मा,

अर्थ 'पोतना' होता है, अर्थात् मिट्ठी पर मिट्ठी चढ़ाना।

शिष्य—क्या कोई ऐसी युक्ति है, जिससे 'कर्म' भारहप न बन सके? उत्तर—हा, है। 'कर्म' को 'विकर्म' बना दो अर्थात् जो कर्म करते हो उसमें मन मिला दो। 'कर्म' में 'मन' के मिल जाने पर 'विकर्म' बन जाता है। भार शरीरको नहीं लगता मनको लगता है। जब किसी कर्म में हमारा मन नहीं लगता तभी वह 'कर्म' हमें भारहप प्रतीत होता है। दो परीक्षार्थी प्रश्नपत्र निकाल रहे हैं। तीन घटेका समय है। जिसे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, वह धड़ाधड़ लिखना आरम्भ कर दता है। उसके लिए तीन घटेका समय आध घटे के समान लगता है। परन्तु जिसके बाद नहीं, वह बारबार पढ़ी ओर देखता है, पढ़ीकी सूई राहीं—सी प्रतीत होती है। उस बैचारेका समय ही नहीं चोत रहा। कभी 'टक्क-टक्' करके पानी मैंगदाता है और कभी पेशाबके बहाने बाहर जाता है। समय दो उसकी परवाह ही नहीं, क्योंकि समयसी उसने परवाह नहीं की। मन उसको क्याम में नहीं लगने देता, क्या कि उसमें मनको काममें नहीं होगाया।

एक विद्यार्थी विद्यालय में विलम्बमें पहुँचा। अध्यापकने उसे सी ढठ—बैठ लगानेका दण्ड कर दिया। यह बैचारा ढठ—बैठ कर रहा है। देखी रहिए अध्यापककी ओर भी घूरता जाता है। मानो भूता सिंह रिकार्डकी ओर घूर रहा है। पासमें दगड़ा एक पहलाकान दण्ड पेन रहा है। बल इसने एक दजार दण्ड पेने थे। आज यह रह सी पेलने की छानी है। दोनों का क्याम पूरा हो, गया है। एक मुराब पर भार के कटकी रेगा दिग्दं दरही है और दूसरे के मुराब पर सफलता की प्रशंसन रेगा। कर्म एक ही है। पर एकमात्र मन कर्ममें नहीं लगा था और दूसरे का नगा था। जिस का मन कर्ममें बाहर था, उसके मन को भार ने पहइ निया और जिसका मन

वर्म में लगा हुआ था, उसके मनको भार नहा पड़ गया ।
क्यों कि मन वर्ममें से बाहर निकले तो पढ़ा जाय ।

जब महावीर माता जनकीजी की खबर लेकर भगवन् र मके प सा
अन्ये तो भगवान् पूछते हैं कि—

“ ऐ हो हनू ! कहो रघुवीर,

कहूं सुधि है भिय की छिति माही ?

है प्रभु, लक फलक विना,

सो तदां यस राघव याग की आही ॥

जीवत है ? कहवैर्को नाथ !,

सो क्यों न मरो मांसो विचुराहीं ?

प्राण यसें पद-पंकजमें,

यम आवत है, पर यावत नाहीं ॥”

मले तुम इसे किं की कल्पना ही मानो, पर है वितनी अच्छी
कल्पना । मुरी कल्पनासे विद्यर्थीको हुस हुआ और अत्यं इन्द्रन से
पहलवानको मुख । दोनों की विया तो एक ही प्रकारकी है । कल्पना
करना है मन का काम । या कल्पना ही मन है ।

रिष्ट—इसके आगे भी वर्मकी कोई अवस्था है ?

गुरु—हाँ, ‘विर्म’ करते-करते हम ‘अवर्म’ अवस्थामें पहुँच जाते हैं ।

जहाँ पहुँच जाने पर ‘विर्म’ भी ‘अवर्म’ बन जायगा । हम
सब कुछ करते हुए भी ‘अवर्म’, ही रहेंगे । हमारा कर्त्तव्य का
अभिमान ही गल जायगा । अभिमान उसी वर्मका होता है जो वर्म
हमसे कभी-कभी हुआ करता है । हम शाय निरन्तर लेने रहते हैं ।
अब ‘मैं निरन्तर इससे लेना हूँ’ ऐसा अभिमान नहा हान । निरन्तर
वर्म करनेसे वर्मका अभिमान नहा रहता । पर अगलि तो शोष रह
ही जाती है । शाय सेनेहा अभिमान भल न हो पर ‘आसक्षि’ अवस्था
है । बोइ हमारा शाय बैर दरद ते तह-पहने सग जायेग । यह

आमुकि भी 'कर्म' को जनता—जनादन की सेवामें ममपित कर देन्से दूर हो जाती है—मिट जाती है। इसी लिए भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—“कुरु कर्मय तस्मात्त्वम्” ।

शिष्य—ज्ञानी के लिए भी कर्म करनेद्वारा आवश्यकता होती है ?

गुरु—आवश्यकता नहीं होती । पर कर्म से तो कोई छूट ही नहीं सकता “नहि देहभृता शास्त्रं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः” । पर कर्म करनेकी विधि भिन्न-भिन्न है—कर्मयोगी गगारी तरह कर्म करता है और ज्ञानी हिमलयकी तरह ।

अर्थात्—पशुके कर्म में नियाकी प्रधानता होती है, मनुष्य के कर्म में भावकी प्रधानता होती है और ज्ञानीके कर्म में ज्ञानकी प्रधानता होती है या ज्ञान ही ज्ञान होता है ।

स्मरण रहे—कर्मयोगी स्त्रष्टु प्रतिपदन करनेवाला गीतासे यहले वा ऐसा बचन द्युरा नहीं मिलता ।

अमृर्या नाम ते लोका अन्धेन तमग्नावृताः ।

ता॒५ स॒ ते ग्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चान्महनो जनाः॥ ३॥

अर्थ—आत्मज्ञान से राम्रुता करनेवाले जो कोई आत्मघातकी जन हैं । ने दद-पात के बाद, गाद अन्धकार से पिरी हुई आमुरी कही लज्जावाली थोनि की ओर मुहते हैं ।

शिष्य—‘आत्महन जनाः’ वा क्या अर्थ है ? आत्मा का सो नाश नहीं होता, पर ऐसा क्यों लिखा ?

गुरु—आत्महन=अविद्यासोऽपुभा जना, ऐसा अर्थ यृदारण्यक (४।४।११) में दिया है । जो यहले मंत्र में आई रिक्तादो नहीं मानते वे ‘आविद्यान्’ और जो दूसरे मंत्र में आई ‘शिद्यादो नहीं मानते वे ‘आमुख’ जन हैं । अर्थात् नर में मारायण बन सकते थे । पर वे केवल ‘जन’ ही रहे—‘जननु’ ही रहे । मनुष्य जन्मद्य उत्तेष्य सो आत्मज्ञान था । पर इन नाममणोंमें बद हाथ में भो

दिया। उल्टे चक्र में यह गये। थब न जाने कब यह मुश्वसर हाथ लगेगा। यद्यपि आत्मा का नाश नहीं होता, तो भी ऐसे हम, मुद्द-नाशके 'आत्मनाश' बोल देते हैं वैसी ही यह भाषा है। अर्थात् यह औपचारिक प्रयोग है। वयोंकि मुद्दिके गुणों के अनुपार आत्मा के विषय में भी ऐसा बोल दिया जाता है।

"तदगुणसारत्वात् तु तदव्यपदेश" (न. ८. अ. २१३।३६)

शिष्य—ऐसे भक्तिहीन, भोगपरायण, सोभी, अधमष्य मनुष्यों नी मरने के बाद व्यथा दशा होती है?

गुरु—वही दशा होती है जो होनी चाहिए। न तो वेचारे वे जड़ सुखिमें लीन हो सकते हैं, वयोंकि वे चेतन हैं और नहा वे ईश्वर में लीन हा सकते हैं। वयोंकि वे आनन्दहानी नहीं—आत्महत्यारे हैं। तीसरा एक ही मार्ग बाकी रह जाता है जो कुछ-कुछ जड़ भी हो और कुछ-कुछ चेतन भी। इसे 'गीता' मृट्योनि कहनी है, पुराण 'पापयोनि' वहते हैं और यहा 'अन्धेरे से धिरी योनि' वहा है। ऐसी योनि पशु-योनि ही हो सकती है जो कुछ-कुछ चेतन भी हो और कुछ-कुछ जड़ भी। यही है 'आसुरी योनि' जिसका वर्णन गीतावे १६ वें अध्याय में किया गया है।

शिष्य—मूल में तो 'आसुरी योनि' का नाम तक भी नहीं आया?

गुरु—वहों नहीं आया? आया है। 'असूर्यः' इसके रधान पर कृदारण्यक (४। ४। ११) में 'अनन्दाः' और कठ० (१।३)में भी यही शब्द पाया जाता है। पर कही कही 'असूर्यः' पाठान्तर भी देखने में आता है, जिसका अर्थ है—सूर्यरहित-दशनरहित—अधेन तमसागृह। यहाँ 'लोक' शब्द योनिके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'लोक' का अर्थ 'प्रकाश' है, पशुयोनि में भी कुछ-न-कुछ प्रकाश रहता ही है। इसलिए इसका अर्थ भी विचेष्याजीने 'आसुरी योनि' किया है।

शिष्य—क्या कोई इससे भिन्न दूसरा अर्थ भी करते हैं ?

गुरु—हाँ, करते हैं। थी सातवलेश्वरजीने—‘असुर्य’ का अर्थ “प्राणियों को प्राणशक्ति देनेवाला, असुर=परमात्मा, उसकी शक्तिका नाम ‘असुर्य’। यह सभी के बलोंका आधार है।

(असु=प्राण, र=देनेवाला, असुर=परमात्मा, उसकी शक्तिका नाम ‘असुर्य’। यह सभी के बलोंका आधार है।)

शिष्य—इनमें से कौनमा अर्थ अस्त्वा है ?

गुरु—जो तुम्हें न्यौः वसुनः यह प्रथ मेरे अधिकारमें बाहर का है। इसलिए मैं घट-घट नम्बर नहीं लगा सकता।

शिष्य—‘अभिगच्छन्ति’का भाव क्या है ?

गुरु—उस योनि की ओर अभिगच्छन्ति=मुड़ते हैं। भाव यह है कि जो किसी ओर जा सकता है वह उस ओरसे मुड़ भी सकता है। जो गिर सकता है वह :ठढ़ भी सकता है। वह उठता क्यों नहीं—गिरता ही क्यों जाता है ? इसलिए कि वह भगवान् की ओर मुड़ा नहीं। भगवान् की ओर मुड़ा कि काम बना। अभिगच्छन्ति=अभिमुड़ा: गच्छन्ति। भगवान् बहते हैं कि जो मेरी ओर एक बदम आता है मैं उसकी ओर चार बदम बढ़ता हूँ, जो मुझे अपनी अंगुली पकड़ता है, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, जो मुझे हाथ पकड़ता है, मैं उसकी भुजा पकड़ता हूँ, और जो मुझे भुजा पकड़ता है, मैं उसे गले लगाता हूँ। इसलिए वह तबतक मिलता ही जायगा जबतक ईश्वरी ओर नहीं मुड़ता।

निष्कर्ष—इस शिख में सम्पूर्ण जगन् के जीवन का ‘दर्शन’ आ गया है। पहले मंत्र में ईश्वरनिष्ठा, द्वारे में उसके अनुमार कर्मयोगनिष्ठा और तीसरे में दोनों निष्ठाओं से रहता आन्ध्रत्यारी आमुरी धूत्ति। यदो हैं शिविध जगन्।

छिप्प—इस विषय में अपनी भी कुछ प्रगाढ़ी दैजित ?

गुह—मेरी प्रसादी उष्ण नहीं। ही सन्तोंकी प्रसादी द सकता है। लो, सुनो—इसीसे चौरासी-लाय योनि कहते हैं। यही लक्ष-चौरासी का चक्र है जो आत्मज्ञान से ही छूटता है। चौरासी-अंगुल का यह शारीर जिसका सक्ष्य है वह इस चक्रमें है। इसी शरीर से हम इस चौरासी के चक्रमें से निकल सकते हैं। इस लिए हमारा जीवन भोग के लिए नहीं किन्तु त्याग के लिए है। भोग इष्ट लिए भोगना है कि हम दूसरोंकी उष्ण सेवा कर सकें। इसी में शरीरकी सार्थकता है। यही असाधमेंसे सार निकलना है। यह सूत्र सदा ध्यान में रखो: “जीवनार्थम् अन्नम्, नान्नार्थं जीव-नम्” जीवनके लिए अन्न है, अन्न के लिए जीवन नहीं। जीवन तो सेवा के लिए है।

पुराणों में—२१ लाख डिब्ब, २१ लाख स्वेदज, २१ लाख अंडज और २१ लाख जरायुज़ योनियाँ आती हैं। कहाँ कहाँ यह संस्कृत घटा-घटा कर भी लिखी हुई मिलती है।

तीयरा प्रकार ढग तरह है—

१. अध्यक्ष स्थिति,
२. व्यक्त स्थिति,
३. व्यक्त की इच्छात्मक स्थिति,
४. पंच महाभूतों का प्रार्दभाव,
५. पंच महाभूतों का परस्पर संघर्ष,
६. हिरण्यगर्भ,
७. सूर्य,
८. पूर्णी,
९. पूर्णी में जीवनशक्ति,
१०. छलटी सृष्टि,

११. आङ्गी सृष्टि,
१२. खसी सृष्टि,
१३. शान-वर्म-विहीन मानव,
१४. शानविहीन वर्मयुक्त-मानव,
१५. शान-ठर्म-युक्त मानव,
१६. बाल-अवस्था,
१७. किरोर-अवस्था,
१८. तद्दण-अवस्था,
१९. श्रीह-अवस्था,
२०. शृदा-अवस्था,
२१. जीर्ण-अवस्था,

प्रत्येक कोटि में चार काल-टक्कमक्कल, मध्यमकाल, अधमकाल और इन का संधिकाल। २१ को ४ से गुना करो २१x४=८४ चौरासी हुए। जीव एह एह ज्ञानेन्द्रिय को लेकर पाँच बक्क लगाता है। चक्रका आकार गोल होता है। अतः चौरासी पर पाच शून्य लगादो। क्योंकि यह सर्वंत शून्य ही शून्य पाता है। =४००००० ये हुई चौरासी लास बोनिया। खुलोइसे चलता जीव वही आ जाता है जहामें चला था।

यह जीव चलता-चलता उद्दिज्ज्ञसे स्वेदज में आया स्वेदज में से अंडज में आया, अंडज में से जरायुग में आया, और पशुओंमें से मनुष्य-योनि में आया। आगे की योनि देख है। यह इमवी स्वाभाविक गति है। अर्थात् मनुष्यजीवन पशुयोनि और देवयोनि के मध्यमा स्टेशन है। यदि हम मनुष्य के बाद देव बने तो यह हमारा बढ़ना हुआ और यदि मनुष्यसे पशु बने तो यह हमारा मुठना हुआ। यह चिलकुल ठीक अर्थ है कि “आत्महत्यारे लोग अन्धकारसे पिरी हुई आमुरी कही जाने-पाली योनि की ओर मुड़ने हैं।”

वस्तुतः जब हम किशी पूज्य व्यक्ति कहा नहीं मानते तो वह उस घट्टिकी दत्ता ही होती है। प्रतिदिन हमारा आहार चार रोटियाँ हैं। पर उस परमे मिठाई बनी हो तो हम उससे दुगुना-निगुना दूसरे लेते हैं। अन्तरात्मा ऐसा बरने से मना फरती है। पर दम दूसरे ही जाते हैं, यह हुई ‘आत्म-हन्या’। इमका बारण है मिठाईका लोम। एय लिए भगवान् येदने कहा कि “त्यजेत भुजीयः” तुम दिली के दिस्तेका अन्न खा रहे हो, त्याग करो। अब हम इसी दूसरे ही बन्नु पर अगाखोय तरीके से अधिकार जमाना चाहने हैं तब अन्तरात्मा (ज्ञानी) कहती है कि ऐसा मत करो, यह अन्याय है-पाप है। पर हम यिष्यादुर होने के बारण अन्तरात्मा ही कहा नहीं मानते। यह दूसरी आत्मदृत्या है। इस देविये के लिए येदने आका ही कि “मा गृष्ण वस्य स्वद् धनम्” यहाँ ‘धन’ राज्य का अर्थ पस्त है; अर्थात् दिली की बन्नु पर अधिकार मत जमाओ। जब हम ये कोई

भूल द्वाती है तो अन्तरात्मा पदले से ही हमें साधान बरता रहता है । पर हम उसकी एक न मानकर अकर्तव्य करही बैठते हैं । यदि शास्त्र हमें ‘अत्त्वद्विषयारे’ यह हाले तो रुप नहा होना चाहिए । प्रयुत उपकार मानता चाहिए । आगे के लिए अन्तरात्मा वी आवान मुननी चाहिए ।

अनेजदेकं मनसो जयोयो नैनदू देवा आप्नुवन् पूर्वमर्यन् ।
तद्वायतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिम्नपो मातरिष्यादधाति ॥४॥

धर्य—वह आत्मतत्त्व एक ही एक, बिलबुल चलन-बलन न करनेवाला किन्तु मन से भी अधिक देगावान् है । देव उसे पक्षह नहा सकते वल्ला उसने ही दबो को, बभी से पक्षह रखा है । दूसरे दौहने दालों को वह खट-हटा ही पर्छ छाट जाता है । प्रकृति माता वी गोद में, खेलनेवाला प्राण उसीकी सत्ता पर इलचल बरता रहता है ।

शिष्य—‘अनेजदकम् यह किम्बा वसा है ?

गुरु—यह वर्णन तीसरे मन में आये हुए ‘आत्म-तत्त्व’ का, अथवा, महले मन्त्रमें आये हुए ‘ईशतत्त्व’ का है । ईश और आत्म में तत्त्वत बुद्ध भेद नहीं । यह बात १६ वें मन्त्र में बताई जायगी । यह तत्त्व वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं । ब्रह्म न स्त्री है और न पुरुष ।

इसीलिए इस मन में उसका नपुसक लिंग शब्दोंसे निरूपण नया है ।

शिष्य—वह बिलबुल चलन-बलन नहा करता और मनस भी अधिक देगावान् है यह वैसे ? तर्कशास्त्र वी हाइसे स्थित और रात वा एक ही स्थान पर होना सब्दा असम्भव है । तज और अन्धकार की एवज मिथ्यति बैसे ?

गुरु—यह बिलबुल ठीक है तर्कशास्त्र वी यहा तक गति नहा । इसाला तर्ककी भूमिश में आगे चलना द्वागा । अर्थात् वितक से बाद लोना होगा । जहाँ तर नहीं पहुँच सकती वहा ‘वितक’ पहुँचनी है । तर्क क्या बस्तु है ? इन्द्रिय-संहृदा चमत्कार-पूरण युक्त हीन । ये इन्द्रियें स्वय अपना ही ज्ञान नहा दरा सबदा । कानसे बाज का, त्वचा से बचा का, आँख से आँख का, रसना से रसना का और

नासिका से नासिका का ज्ञान नहीं होता । फिर कान से त्वचा—आख—रसना—नासिका का, त्वचा से आख—रसना—नासिका—ज्ञान का अख से रसना नासिका—कान—त्वचा का और नासिका में कान—त्वचा—आख—रसना का ज्ञान कर्ते हो सकता है ।

शिष्य—यह सौ समझ में आ गया कि एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय का ज्ञान नहीं करा सकती । पर ‘आख को आख नहीं देख सकती’ यह कैसे ? मैं आपकी आख देख रहा हूँ ।

गुरु—नहीं देटा । तुम मेरी आख नहीं देख रहे, मैं देख रहे हो । ये सभी शानेन्द्रियें हैं । इनका प्रत्यक्ष नहीं होता । एक एक इन्द्रिय अपने अपने शुणका प्रत्यक्ष करती है, शुणीका नहीं । इन शानेन्द्रियों की सत्तासे कर्मेन्द्रियों का काम चलती है और ज्ञानेन्द्रियों मनकी सत्तासे काम चलती है । मन प्राणकी सत्तासे कम चलता है और प्राण उस आत्म या परमात्म तत्त्वकी सत्ताथे काम करता है । इनके सभी आत्म-तत्त्व की तुलना कभी नहीं हो सकती । इसीलिए ‘मनसो जवीयः’ से मनको, ‘नैनदू देवाः’ से हानेन्द्रियों को, ‘अन्यान् अत्येति’ से कर्मेन्द्रियोंको और ‘तस्मिन्नपो मतरिधा दधाति’ से प्राणको इस तत्त्वकी तुलना के अद्येत्य ठहराया गया है ।

बहिर्भूत इन्द्रिये उसका पता नहीं लग सकती । अतः इन्हें अन्तर्मुख चरना होगा । इन्द्रियों सुहिन मनका अन्तर्मुख होना ही ‘विनक्त’ है । इसका दूसरा नाम चित्तगृह्णिनिरोपदेश सुम्प्रशात् योग है । (योगसूत्र १११०) यह योग-शक्ति भक्ति से प्राप्त होती है और भक्ति विरक्ति नहीं । स्वार्थका परित्याग ही विरक्ति है और उस एक ही बन जाना ही भक्ति है ।

शिष्य—इस मंत्र के प्रत्येक पदका अर्थ क्योंजिर ?

गुरु—‘एकम्’=वह एक ही है, ‘अनेतत्’=बिलकुल द्वितीया—तुलना नहीं, तो भी ‘मनसो जवीयः’=मन से भी अधिक वेगवान् है । मन के ज्ञान = देख ही मिनि (माप) नहीं । वह तीनों चाल,

दसो दिशाएँ, अतर् बाय सुष्टि, असुष्टि और प्रतिसुष्टि में उसकी गति है। जब ऐसे ऐसे अनेतों मन उस ईशतत्त्वके एक क्षेत्र में ही विलीन हो जाते हैं तो उसके महान् वेगका वर्णन कैसे हो सकता है?। 'मैनत् देवा आन्तुवन्' = देव (इन्द्रिये) इसे पकड़ नहीं सकते। क्यों कि 'पूर्वं भर्तुत्' = वह वहां पहले ही पहुँचा हुआ है। स्मरण रहे-ब्रह्मादकी दिव्य शक्तियों का नाम देव है। यह पिंड ब्रह्मादका ही प्रतिविव है। इसमें जो शानेन्द्रिये हैं, वही 'देव' नाम से कही गई है। 'इन्द्रिय' शब्दका अर्थ ही 'इन्द्र-शक्ति' है। इन्द्र= 'इद द्रष्टा' (ऐ ११३।१४) ब्रह्माद में जो परमात्मा है, वही पिंड में अन्तरात्मा है। ब्रह्मां में जो देव हैं वही पिंड में इन्द्रिये हैं। 'तद् तिष्ठत् धावत अन्यान् अत्येति' = वह यह—खदा ही दूसरे दीनेवालोंके पीछे होकर जाता है। जहां जहा भी दीनेवाले जाते हैं वहा वहा वह पहले से ही विद्यमान होता है। पक्षी वितना भी दीड़े शाकाश उससे पहले ही वहां होगा। शाकाश कहा दौड़े? वह 'तिष्ठत्' = जहा ही रहेगा। पर वह तो आवश्यक वा भी अन्तर्यामी है। मातरिश्चा तस्मिन् अपः दधाति= प्रहृतिमाताकी गोद में खेलनेवाल प्राण तस्मिन् = आत्म सत्ता पर ही हलचल करता है। अर्थात् सर्वत्र गति—सचार करनेवालः प्राण ही प्रहृत के अन्तर्गत होमर सभी प्राणियों की तथा सूर्य—चन्द्र आदि देवोंकी भी गतिका कारण माना गया है। वह भी आत्माकी सत्ताके बिना बुद्ध नहीं बर सकता। 'वेजो पनिपद्', के प्रथम श्लोक में इस बातका विस्तार—पूर्वक विवेचन किया है।

रिप्प—'अप' शब्द वा क्या अर्थ है?

गुरु—यदि 'अप' को 'अप' शब्द का घटुवचन मानें तो इसका अर्थ 'जल' होगा और यदि 'अपस' शब्द वा एकवचन मानें तो इस का अर्थ 'कर्म' होगा। वास्तव में ये दोनों शब्द ग्रन्थके गाचीन 'अप' धातु से बने हैं। इसलिए यहा वेद के स्वरों के अनुसार 'अप' को घटुवचन मान कर और दानों कल्पनाओं को मिलाकर

‘कर्म-प्रवाह’ हो इसका अर्थ होगा । ‘अपो दधाति’=‘कर्म-प्रवाह’ का निर्माण करता है—आदेलन करता है ।

श्री सातवले श्रजी इसका अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं कि दूसरे मन्त्रमें जो सौ-जर्ख तक जीने को कहा है । यह शरीर छूटने पर अन्तिम किये हुए कर्म निकल हो जायेंगे ? । इस शब्द का यह समाधान है कि ‘मातरिष्वा’=माता के उदर में रहनेवाला जीव, जिसका पदला शरीर छूट चुका है और दूसरा बन रहा है, वह ‘तस्मिन् अप दधाति’=उस नये के आधार में अपने कर्म धारण करता है । इस मध्यभाग से पूर्वजन्म की कल्पना अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है । अथवा ‘तस्मिन् अप मातरिष्वा दधाति’—इस प्रदाको कर्म समर्पित करते हुए जो जीव कर्म करता है (वह पापमें बद्ध नहा होता) । न कर्म लिप्यते नरे ।

“ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यने न स पापेन पद्मपत्र मिवान्मसा ॥ ” गीता ४।१०

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्विन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वस्यास्य वाहातः । ५।

अर्थ—वह दूल-चल करता भी है और वह वह दूल-चल नहीं भी करता । वह दूर भी है और वह पाप भी । वह इन सबके भीतर भी है और वह इन सबके बाहर भी ।

शिष्य—इन भूतों में दम तस्व की सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन हुआ है ।

उसके लिए ‘मायिक’ शरीर को अवश्यकता ही नहीं । यदि वह बिना ही शरीरके चल नहीं सकता तो सर्वशक्तिमान् ही बैसा । दम-निराद में ‘अगालिगादो जवनो ग्रहोता’ (खेता० ३।११) आदि कहा है और रामायण में— “ बिनु पद चलइ मुनइ बिनु काना ।

कर बिनु करम करइ विधि नाना । ”

आदि से उपर्युक्त अनुवाद किया है । क्यों ठंडक है गुणदेव ?

गुण—ऐसा मन लेने में भी दुख हानि प्रतीत नहीं होती । यद्यपि

“ वह दूलबल करता भी है और वह हूलबल नहीं भी करता ? ” से उसकी सर्वशक्तिमता ही दिखाई देती है। तो भी इसका अर्थ ‘ यहाँ “स्थिर और चर दोनों वही है ” इस प्रकार व्याप्तिसूचक करना चाहिए। यह अर्थ गीतके निम्न लिखित समानार्थक श्लोक से और भी अधिक सट दो जाता है—

“ वहिर् अन्तश्च च भूतानाम् अचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वाद् तद् अविशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १३-१५ ॥

दूरता और निष्ठता दो प्रकार की होती है। एक दूरकृत और दूसरी कालकृत। सभी माणाओं में ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। जब हम कहते हैं कि अमुक गाव से अमुक गाव दूर है, तब यह दैशकृत दूरता होती है, और जब हम कहते हैं कि अभी दिवाली बहुत दूर है तब यह कालकृत दूरता वही जायगी। इसी प्रकार निष्ठता भी समझ लेनी चाहिए। निष्ठता और दूरता दोनों ही अपरिमेय हैं—इनका माप ही नहीं हो सकता। जिस व्याप्ति में इन दोनोंको अपरिमेयता भी बिलीन हो जाती है उस व्याप्ति को बहना ही क्या। एवं अंदरका देखनेवाला (दृष्टा) और बाहर दिखनेवाला (दृश्य) इन दोनों रूपोंमें वही परमात्म-तत्त्व सज्ज हुआ है। जब भीतर-बाहर, पास-दूर, चर-अचर रूपसे परमात्मा ही भरा हुआ है, तब ‘ यह मेरा, यह पराया, ’ यह अंतरंग यह बहिरंग, ’ आदि भेद किस लिए ? अत इस (मंत्र ४-५ मिला कर) ईश्वरकी १ एकता, २ निष्कम्पता, ३ वेगवत्ता, ४ सर्वाधारता, ५ चराचरमयता ३ दशकाल-व्यापिता, ७ द्रष्टृ-दृश्य-स्वरूपता का ध्यान करें, गान करें और अनुभव करें।

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

अर्थ—जो आत्मा में ही समस्त भूत और समस्त भूतों में आत्माको निरन्तर देखता है, वह फिर विषुसे ऊबता नहीं।

शिष्य—इसका समानार्थक श्लोक शीता में भी आया है—

“ सर्वभूतस्यमात्मानं, सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईस्ते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदर्शनः । ” (६। १६)

‘आत्मा में ही समस्त भूत और समस्त भूतों में आत्माको देखनेवाला कहता नहीं’ यह कौमे ?

गुरु—यह उपनिषद् गीताकी जननी है। यह बात श्यासामय बता दी जायगी। अब सुनो उच्चने की बात। उच्चनेका अर्थ है अद्वलाना—व्यापुल होना। हम व्यापुल क्यों होते हैं? इसीलिए कि अमुक वस्तु मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा क्यों होता है स्वार्थके कारण। स्वार्थ क्यों होता है? रागसे। राग क्यों होना है? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? उस वस्तुको अपने से मिल जानना। जब हम ‘आत्मा में सब भूत’ ऐसा कहते हैं तो विशुद्ध ‘आत्मार्थ’ सिद्ध हो जाता है और जब हम ‘सब भूतोंमें आत्मा’ ऐसा कहते हैं तो व्यापक ‘परार्थ’ सिद्ध हो जाता है। दोनों ही प्रकार से हीन और संबुद्धित स्वार्थका उच्छ्वेद हो जाता है। स्वार्थका उच्छ्वेद होने पर ‘आत्मौ-परम्पर्य’का जन्म होता है।

‘आत्मौपरम्परेन सर्वत्र, सर्वं पद्यति योऽर्जुन ।

सुखं चा यदि चा दुःखं, स योगी परमो भूतः ॥ गी. ६।३२

शिष्य—इत्याया यह बात इसी दूसरी शृण्यसे मुनः समझैए?

गुरु—विचारकी दृष्टिसे ‘आत्मा में गमस्त भूत’ यह ‘संश्लेषण’ है और समस्त भूतों में आत्मा। यह ‘विश्लेषण’ है।

“ यदा भूतपृथग्भाव मेष्टम्य मनुपद्यति ।

तत् पृथ च विम्नारं, ग्रह संपद्यते तदा ॥ (गीता १३-२०)

अर्थ—विष चणु पुण्य मन्त्र भूतों को एकमें ही म्यित देनाता है और उसी एक में मे सब भूतोंवाय विम्नार देनाता है उसी दणु वह ‘पृथ’ बन जाता है (देर नहा नगनी)।

उपासना की दृष्टि से ‘आत्मा में सब भूत’ यह ‘विस-

ज्ञेन' है और 'सब भूतों में आत्मा' यह 'आवाहन' है। पहले आवाहन विद्या जाता है और बाद में विसर्जन। शुष्टि-शास्त्रकी भाषा में 'आवाहन' को 'दत्तात्त' और 'विसर्जन' को 'प्रलय' कहते।

आचारकी इन्द्रियों 'आत्मा' में सब भूत' यह विशुद्ध 'आत्मार्थ' है और 'सब भूतों में आत्मा' यह व्यापक 'परार्थ' है। शिष्य—'सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव' में 'एव' से क्या सूचित विद्या है?

गुरु—एवकार से यह सूचित किया है कि विशेषणसे संभेदणका, आवाहन से विसर्जन का और परार्थ से आत्मार्थका अधिक महत्व है। इसलिए विशेषणसे संभेदण में, आवाहनका विसर्जन में और परार्थ में पर्यावरण परना चाहिए।

शिष्य—'आत्मन्' शब्दकी व्याख्या युत्पत्ति है?

गुरु—पूर्वे आचार्यों ने 'आत्मन्' शब्दकी युत्पत्ति चार प्रकार से की है।

यथा—“यदाज्ञोति यदादत्ते, यच्चात्ति विषयानिद्।

दत्त्यास्य संततो भावः, तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥”

'आत्' व्याप्ती, 'आत्मा' आदाने, 'अट्' भक्षण, 'अत्' सतत्यगमने—इस प्रकार ये चार युत्पत्तियाँ हैं।

शिष्य—व्याख्या कोई आधुनिक आचार्य ऐसा नहीं मानता?

गुरु—हाँ, आचार्य विनोदाजी भावे ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि “मुझे ये सभी युत्पत्तियाँ काल्पनिक नहीं हैं। इनमें से अतीम युत्पत्ति वास्तविका के युद्ध निकट वही जा सकती है। वास्तव में मेरे मतसे 'आत्मा' शब्द 'आत्' पतु का रूप है। 'आत्' पूर्वपैदक पतु है। इसका स्वरूप में लोग हो गया है। पर शानश्वरीकी मराठी में उयो—वा—त्यो और तामिळ आदि भाषाओं में यह घातु अपन्नीरा रूप में प्रगट हुआ है। 'आत्' का भूम—कृदन्त शानश्वरी की भाषा में 'आत्मा' होता है। 'आत्' का अर्थ मूलत 'अस्' और 'भू' के बीचसे है। यद्यपि अप्य

भेद का आगे लेप हो गया है, तो भी विचार दृष्टि से वह महत्व का है। 'असू' याने केवल होना'-निर्गुण 'भू' याने 'विविध' भाव-युक्त होना'-सगुण। 'आत्' याने 'हो सकनेवाला होना' बैचकी दिधति, सगुण-गम्भीर निर्गुण। 'आत्मन्' का साथी 'भूमन्', एक परमात्म-बाचक शब्द उपनिषदों में आता है। दोनों का स्थूल-भूर से एक ही अर्थ है। बारीही से देखें तो 'भूमन्' विशेषण सगुण है 'भू' धातु ने आया है। इसे ध्यान में रखने से यह सूरम भेद स्पष्ट हो जाता है। 'भूमन्' शब्दकी व्युत्तति 'बहु + इमन्' इस तरह पाणिनिमें घटाई है। इसका कारण, यह पूर्व वैदिक धातु 'आत्' पाणिनिमें, संभव है, ज्ञात न हो। ज्ञात होता हो उन्हें 'आत् + मन्=आत्मन्', तथैव 'भू + मन्=भूमन्' यह सूझता। इसके अभाव में उन्हें 'अणिमन्' 'गरिमन्' आदि वर्ण में 'भूमन्' को छिठानेकी व्यवस्था करनी पड़ी है। संभवतः उपनिषदों में भूमन् शब्द जहाँ आया है; वहाँ वह अन्य के विरोधी के रूपमें उपस्थित किया गया है और इसी कारण पाणिनिमें ऐसा बरबेशी आवश्यकता प्रतीत हुई हो। परन्तु 'भूमन्' 'भू' धातु से लगाने में, विश्वस्त परमात्माका बाचक होता है। फिर विश्वस्त में बहुत आ ही जाता है। कि बहुना, 'बहु' शब्द सूर में 'भू' धातु का दी रूप है। इसकी ओर ध्यान देने पर तनिक भू बठिनादं नहीं रहती। परन्तु ग्रन्थन्-निर्गुण, आत्मन्-सगुण-निर्गुण, भूमन्-सगुण, इस तरह का भेद विशेषणके लिए किया जाय, तो भी अट में उग बरबेशीभूलाल 'ईशायास्यमिदं सर्वम्' इन्होंना ही इटना है; पढ़ी इषुके आगे के मत्र ना और पारे ईशायास्य का गर है।"

एव्य—'न तिरुगुप्तस्ते' का क्या भाव है?

उह—नुगुणा नाम दे बरबेशी। जब इस विसीमे उब जाते हैं तब इस उपरी निन्दा दरने लगते हैं कि उषा निरस्तार दूर बैश्वते हैं

अथवा उससे धूला आदिको अर्थात् करते हैं। परन्तु विजुगुप्ता तो इससे भी सूक्ष्मतम् गृहिता नाम है 'गुप्त' धातुका अर्थ है, रक्षाकरना 'सन्' का अर्थ है इच्छा, और 'वि' का अर्थ है मिलकुल। इसका अन्तराय हुआ कि 'स्वयंको अलग रखनेकी विप्रानेव' श्रृंति । ततो न विजुगुप्तते—फिर वह अपनेको किसीसे दूर या अलग बिलकुल नहीं रखता। क्योंकि "सब भूताँ में मैं और मुझ में सब भूत" ऐसा विश्वालतम् मत्—हृदय उमे मिल जाता है। क्या माँ अपनी सतान से ऊबती है? माँ क्यों खाती है? आने वरके की पुष्टि के लिए। बच्चेकी भूत माँ को लगती है न कि बच्चेको। बीमार बच्चा होता है और उसका दर्द होता है माता के हृदय में। क्यों कि माँ बच्चे में अपनेको देख रही है और अपने में बच्चे को। यहाँ ऊबने—वाबनेका प्रश्न ही वैसा। ऊबा जाता है विसी दूसरे स यहा बाण द्वैत रहने पर भी हृदयमें अद्वैत हो गया है। राम को 'बनवास' मिला, जगलम रातो भर जागते रहे लक्षण। लक्षण के शक्ति लगो, गहरी उत्तर गई—धाव हो गया। पर उसकी पीढ़ा हुई राम को 'वेदना राघवेन्द्रस्य, केवलं व्राणिनो वयम्' (लाठी पक्की है बैल पर उसकी रेखाएँ उभर आती हैं ज्ञानेश्वरके तन पर। गरीबों क पेट में अज्ञके दान नहा जात, पर सूखते जाते हैं विनोबाजी। बीमार पहले है विनोबाजी, उनके स्वास्थ्यके लिए प्रार्थना की जा रही है शर शर, इसका नाम है मातृहृदय जो भक्तों के यहा सदैव रहता है। गीता कहती है कि—'यरमाशोद्धिजते लोको, लोकान्नोद्धिजते च य।' (१२-१५) विससे लाग नहा ऊबते और जो लाग से नहा ऊबता वह भगवन्का प्यारा भक्त है।

'ततो न विजुगुप्तते' के स्थान पर 'ततो न विचिकित्सति' एक पाठान्तर है। उसका अर्थ है—फिर उसे विसी प्रकारका सशब्द नहीं रहता।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाऽभूद्विजानतः ।

तथ को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसकी हस्ति से आत्मा ही सर्वभूत हो रहा है। उस निरन्तर एकत्व देखनेवाले, विज्ञानी पुरुषको, मोह कहाँ और शोक कहाँ?

रिक्ष्य—'आत्मा ही सर्वभूत हो रहा है' यह तो आपने कहा। पर 'सब भूत आत्मा हो गये' ऐसा दूसरे कुछ लोग कहते हैं। इन दोनों में कुछ अन्तर है?

गुरु—'आत्मा का सब भूत होजाना या सब भूतोंका आत्मरूप हो जाना' प्रति तो एक-मी ही है। परन्तु पिछले मंत्र में आत्मा की व्यापकता बताते समय 'आत्मा में सब भूत और सब भूतों में आत्मा' ऐसा आधार-आधेवभाव दिखाई दे रहा है। इस वाक्यके पूर्वार्थको 'संस्कृतेषण' और उनरायेको 'विश्वलेपण' कहा है। फिर 'एव' कार से संस्कृतेषणकी महिमा भी दिखा दी गई। जब हम 'मे' के स्थान पर 'ही' रख कर दोनों की एकता कर देते हैं। तब 'आत्मा सब भूत हो गया या सब भूत आत्मा हो गये' ऐसा कहेंगे। पहला 'संस्कृतेषण' है और दूसरा 'विश्वलेपण'। 'संस्कृतेषण' का आधारिति दृष्टि से आधिक महत्व होने के कारण यहो 'संस्कृतेषण' हो (आत्मा ही सब भूत हो गया) लेना ठीक है।

दूसरे—व्याकरणी हाँटसे भी यही अर्थ सुनिचयक है। व्याकरण कि 'अभूत' किया एकवचनान्त है। इसका कहाँ आत्मा ही है भूत नहीं। माना हि यह आत्मा और भूतों में भेद नहीं रहा, तो मी 'सब भूत आत्मा हो गये' ऐसा नहीं योन सकते। क्योंकि व्याकरण नियम है—

"प्रहृते विश्वते धांपि, विकदा प्रतिपादने ।

गृहानि प्रहृतेः संस्कारम्, आस्यातं विश्वते नेतु ॥ "

अर्थात्—जब प्रहृते और विश्वते एक साथ वर्णन किया जाता है; तब आस्यात (विकास) प्रहृति ही उल्लिख है अनुग्राह जाता है

विकृति की संख्या के अनुसार नहा (प्रकृति एक हो तो एकवचन, दो हों तो द्विवचन और बहुत हों तो बहुवचन) जैसे—‘मृदू घटा भवन्ति’ अर्थात्—मिश्री घड़े होती है। यहा ‘भूत्’ प्रकृति है और ‘धटा.’ विकृति। यदि ‘घटोंके’ प्रकृति मानोगे और मिश्री को विकृति, तो ‘घटा मृदू भवन्ति’ अर्थात् ‘घड़े मिश्री होते हैं’ ऐसा बोला जायगा। यहा भी ‘आत्मा भूतानि अभूत्’ है ‘भूतानि आत्मा अभवन्’ नहीं। अत उपर दिया हुआ अर्थ ही युक्तियुक्त है।

शिष्य—‘आत्मा मे समस्त भूत दखना’ और ‘आत्माका समस्त भूत हो जाना’ में कुछ भेद तो नहीं दिखाई दता। फिर इस मन्त्रकी आवश्यकता ही क्या पड़ी?

गुरु—वास्तव में ये दोनों हैं तो एक ही। पर यह आर्शका हो सकती है कि माताका हृदय ऊबता तो नहा, पर उसे भोह तो हो ही सकता है। यह आर्शका दूर करन के लिए ही इस मन्त्रकी आवश्यकता पड़ी। अपने आप पर प्रेम होता है और दूसरे पर भोह। यहा तो ‘हैत’ रहा ही नहा—एकता हो गई। हुआ तो प्रेम ही होगा भोह नहा।

सूक्ष्मदृष्टि से विचारें तो ऐसा कुच भय ही नहीं। क्योंकि छठा मन भक्ति-(प्रेम)-परक है, उसमें ओतप्रोतता की भाषा का प्रयोग हुआ है और यह मन ज्ञान-परक है, अतः इसमें एकता की भाषाका प्रयोग हुआ है। है दोनों एक ही चीज़। जहाँ ओतप्रोतता सकुचित होती है, वहा ही भोह हो सकता है। जैसे—माकी ओतप्रोतता अपने बच्चों तक ही सीमित रहती है, वह असीम (विश्वव्यापी) नहीं होती। विश्वव्यापी ओतप्रोतता में यह दोष नहा आता। इसलिए छठा मन भी निर्भय है और यह तो है ही। व्यापकतम ओतप्रोतता का नाम ही निर्द्वन्द्व एकता है।

शिष्य—‘आत्मा एव सर्वाणि भूतानि’ और ‘ईश वारय मिद सर्वम्’ में क्या अन्तर है?

गुरु—मुच्छ नहीं। ‘आत्मा एव सर्वाणि भूतानि’ यह आत्म-ज्ञानकी
भाषा है और ‘ईशावास्य मिदं सर्वम्’ यह भक्तिकी भाषा। अन्तर
ज्ञानका हो गो चम उतना ही है।

रिष्य—‘ज्ञान और विज्ञान’ में क्या अन्तर है?

गुरु—युद्ध से जान लेना ज्ञान है और जीवन में उतार लेना विज्ञान।
ज्ञानके बाद उस ज्ञानकी आचरण से, कृतेसे, आत्मकान् वर लेने
पर वही विज्ञान हो जाता है।

“योद्धा (ज्ञाता) भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति”

रिष्य—पिछले तथा इस मंत्र में क्रमशः ‘अनुग्रहयति’ और ‘अनु-
पदयनः’ कहा है। इसका क्या तात्पर्य है?

गुरु—‘अनु’ का अर्थ है निरन्तर-पतत। कभी कभी साधकको विज्ञानीकी
चरमह—जैसा चण्डिक दर्शन हो जाता है। वह ‘प्रतिभ’ दर्शन है।
उमीमें ही साधकको संतोष मानकर यैठे नहीं रहना चाहिए। वह तो
आशासन मात्र है। जबतक ‘अनुदर्शन’=सूर्यके समान निरन्तर दर्शन,
नहीं हो जाता तबतक संमारका दय होनेवा नहीं। इसलिए
‘अनुदर्शन’ तक अन्यास चाल ही रहना चाहिए।

“शानेन तु नदशानं येषां नाशित मात्मनः।

सेपाम आदिन्यवत्, शानं प्रकाशयति तत् परम् (गी. ४।१६)

अर्थात्—जिनका अशान शानसे नए हो जुड़ा है, उन्हें वह शान
सूर्यके समान प्रकाश देता रहता है।

‘प्रकृत्य भनुपदयनः’ एकता का यह निरन्तर दर्शन तबतक
कभी नहीं हो सकता, जबतक अनेकताका दर्शन हो रहा है। यदों छि
एकता और अनेकताका पारस्परिक विरोध है। जबतक यह विरोध
रहेगा तबतक समाप्ति और स्फुटानका ब्रह्म चलता ही रहेगा। ऐसी
दर्शन में योद्ध और शोध होने ही रहेंगे। अपने स्वप्नको, भूल कर
दियी दूसरी बरतुओं अपना ब्रह्म लेना ही योद्ध है और माने हुए रहा

‘इट पदार्थका वियोग होने पर जो मानसिक दशा होती है; वही शोक है। मोह और शोक दोनों समें भाई हैं। सद्गुचित ‘आत्मीयता’ से माहौ पैदा होता है और वही मोह देह-वियोग आदि अवधरों पर शोक का कारण बन जाता है। परन्तु व्यापक आत्मीयता देहबी गठरी उठाते हुए नहीं हो सकती। इसलिए इस गठरीको निरारे रखनेर ही व्यापक आत्मीयता का सामना करना चाहिए। यही बात आगे के मन में स्पष्ट की जायगी।

शिष्य—इस मनके मोह और शोक शब्द में तो गीतावी आख्यायिका ही आँखोंके सामने खड़ी हो जाती है। अर्जुन ‘शोक-सविष्ठ-मानसः’ बन गया है। क्यों कि वह ‘भर्म-समूढ़-चेता’ है।

गुरु—हाँ, यह तो पहले ही बता दिया गया है कि यह उपनिषद् गीता की जननी है।

**स पर्यगात् शुक्रमकायमव्याप् अस्नायिरं शुद्धमपापविद्धम्।
कविर् मनीषी परिम्: स्वयम्भूर् यायात्यत्यतोऽथान्
व्यदधात् छायतोभ्यः समाभ्यः ॥८॥**

अर्थ—यह उस तेजस्वी, दहराहित, इसलिए प्रण आदि देह-दोपासे और स्नायु-आदि दह-गुणोंसे सर्वथा अलिप्त, शुद्ध और पाप-वेघमुक्त, ऐसे आत्मतत्त्वको चारों ओर से धेरकर बैठ गया। वह बवि शर्यत्, श्रवन्तदशी, वशी, व्यापक और स्वतन्त्र हो गया। उसने शाश्वतकाल तक इबने बाले, सर्व अर्थ यदावत् साध लिये।

शिष्य—गुरुदेव, यह आत्माका बर्णन है न।

गुरु—नहीं, यह आत्माका बर्णन नहीं, ‘आत्मज्ञ’ का बर्णन है। ‘स’ कर्ता, ‘शुक्रम्’ कर्म, और ‘पर्यगात्’ विद्यापद है। दूसरी बात यह है कि विल्लुते दो मन्त्रोंमें ‘आत्मज्ञ’ का बर्णन है; उसके साथ इसकी एक वाक्यता भी हो जाती है।

शिष्य—कृपया इन विशेषणों का भावार्थ सुनाइए?

गुरु—‘अपापविद्धम्’ का भाव है कि आत्मा पर पाप का धेव नहीं

चलना। इन्तु ईन्द्रियों आदि पर ही चलना है। इसका विवरण वृहदारण्यक की एक आख्यायिका में किया गया है (देखो, वृ० १३ मन २७) वृहदारण्यक उपनिषद् ईशावास्य का एक भाष्य ही है। 'शुभम् अकायम्' आदि शब्दों में चेत्र के चेत्रज्ञ का स्वरूप प्रदर्शित किया है। म्यान से तलबार खोचने को तरह देहमें आवेद्यत आत्म-तत्त्व को सूझावूद्धि और धैर्यसे खोच लेने पर उमड़ अमर तेज प्रकट होना है। (कठ० ६। १७)

आमने पुरुषों यहाँ 'कवि' की अन्वर्थ मज्जा दी है। कवि अर्थात् कान्तदर्शी (निरुक्)। कान्तदर्शी=पारदर्शी=इहका परदा हटाकर जो उस पर देख सकता हो। ऐसे पारदर्शी कवियों में 'आनन्दज्ञानी' सिरमौर है, "पदवी कवीनाम्" (ठुगवेद) मनीषी 'मनस' ईप्टे इति मनीषी वह जो मन पर सत्ता चला सकता है। ईशावास्य ईश्वरकी उपासना सिखानेवाला उपनिषद् है। ईश्वर के उपासक जो कम-मे—कम अपने चेत्र में ईश्वर ही बनना चाहिए। इस भंगमें सुफकये चेत्र—चेत्रज्ञविवेकज्ञ भी यही परिणाम अपेक्षित है।

कवि और मनीषी परस्पर—पूरुष विशेषण है। दर्शन—शक्ति और निरोध—शक्ति दोनों का योग होना चाहिए। उसी की प्रक्रिया अगले दो विक्रोमे (मं. ६ से १४) प्रतिपादित की है। गतिने इसोंके लिए शुद्धि और शृति को मिलाकर एक उत्तुक साधन ही कल्पना की है। एक पतवार, दूसरा छाँड़ा दोनों मिलाकर तरने का साधन प्रस्तुत होता है। (देखो मंथ १३)

'परिभू' का 'सदोपरि' या 'सर्वानिकमकारो' अर्थ किया गया है। परन्तु यह अर्थ सौकिठ संस्कृत में होता है। वैदिक संस्कृत के अनुमार 'परिभू=चारों ओर से लगेउकर बैठा हुआ, व्यपद्'-ऐसा अर्थ होता है।

परिभू और स्वयम् परस्पर—पूरुष विशेषण है। व्याख्याकी भाषा में 'सर्वपेत्ता' (सर्वमेप्राहृष्ट शुद्धि) और 'अनपेत्ता' (अन्य

मिरपेश स्वतन्त्र-रूपि) दोनों का योग होना चाहिए। पहली आत्माकी व्यापकता में से और दूसरी अत्माकी स्वयम्पूर्णता में से पैदा होती है।

‘याथात्भ्यतः’ शब्द, विवरण-स्वरूप दिया इदेता है। उसे क्षेत्र देने से कुन्द टीक हो जायगा। (फिर अनुवाद में से ‘यथात्’ शब्द निकाल देना होगा) और अन्तके दो चरणों को इस तरह पढ़ना होगा—

“कविर् मनीषी परिम् स्वयम्भूर्।

अर्थात् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥”

अर्थात्—व्यदधात्=साध लिया, सम्पादन वर चुका। आत्मश पुष्ट को कुछ भी सम्पादन वरना दोष नहीं रहता, शाश्वत काल के लिए पर्याप्त सामग्री उसने कुड़ कर रखती है, यह अर्थ होगा। ‘नानवदस्त मध्यासव्यम्’(गी. ३। २२।)

दहतीत होकर जिसने शाश्वत अर्थ-परमार्थ-साध लिया उस में अर्थ-लोभ बढ़ाये होगा? इसलिए “मागृघ कस्य स्विदू धनम्” यह आज्ञा यहा सहज ही कर्त्तव्य और उन्नतिलिख हो गई। अर्थात् कृत्य होकर कुठन हो गई।

मग (६-८) के रिक्त में आत्मज पुष्ट का गुणवर्णन इस तरह बर्णित किया गया है—

१. श्रोतप्रोत विश्वप्रेम।

२. किसी व्यक्ति से भी और किसी वस्तु से भी अदृचि नहीं, उद्गेग नहीं।

३. विश्वात्म-ऐक्यदर्शन।

४. नोह नहीं, रोक नहीं।

५. विदेह-स्थिति।

६. पारदर्शिता, वशिता, व्यापकता, स्वर्वन्दन।

७. शाश्वत अर्थलाभ।

यदि देहको फाल्वर आत्माको बाहर खोने निशातना है तो उसके लिए साधन तीक्ष्ण और सूक्ष्म चाहिए। आगे के द्वह मंत्रों में उन साधनों का वर्णन है।

आत्मज्ञ पुरुषके वर्णन में प्रतिभावान् कविके भी लक्षण यहाँ प्रसंगवशतः, पर सम्थक् रूपसे दर्शाये हैं। जैसे—कवि (१) मनका स्वामी, (२) विश्वप्रेमसे भरा हुआ, (३) आत्मनिष्ठ, (४) यथार्थमापी और (५) शादवत कालपर इष्टि रखने वाला होता है।

मनन के लिए निम्न-लिखित अर्थ सुमाता है—

१. मनका स्वामित्व=ब्रह्मचर्य, २. विश्वप्रेम=अहिंसा, ३. आत्मनिष्ठ=अस्तेय, ४. यथार्थमापित्व=सत्त्व, ५. शादवतकाल पर इष्टि=अपारप्रद। यिष्य—आपने तो इस मन में आपनी ओर से बुद्ध नहीं कहा, उच्च तो कहिए!

गुर—विनोदाजीने सब बुद्ध छह ढाला, अब मैं क्या कहूँ। यदि तुक कहना ही अत्याकरण है तो सुनो। शास्त्र में इस सुकृत की संहा “यम” है।

“अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ग्रहचर्य-अपरिग्रहः यमः”
(योगदर्शन २। ३०)

अन्यं तमः प्रविद्यान्त ये अविद्यामुपासने ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाऽरताः ॥१॥

अर्थ—जो अविद्यामें हृव गये, वे पौर अन्यकारमें चले गये। जो विद्यामें रम गये, वे नजो टमसे भी पौर अन्यकार में चले गये। यिष्य—अविद्या और विद्या राम्बद्धा क्या अर्थ है?

गुर—इन शब्दोंके अर्थ के सबन्ध में कुभी गाय्य-झारोंका भननेद है।

यदि मैं सभी अर्थ यहाँ दे दिये जायें तो निश्चय के स्थान पर संदेह दौ बढ़ेगा। इसलिए धैविनोदाजीकृत अर्थ सुमाता है। विनोदाजीकृत कहना है कि—अविद्या और विद्या ये दोनों एक ही वस्तु के निष्ठ (निष्टिव) और प्रृण (पौजिटिव) अंग हैं। इसके अनुसार १

इनके पान भी रथारहवे मत्र में निरूप और प्रदूष स्वरूप के दिखाये रखे हैं। आरिदा याने इट अर्थ में अनाधिकृत अनत ज्ञान प्राप्ति न करना। विद्या याने इट अर्थ में अधिकृत विशिष्ट ज्ञान लाभ करना। इन अर्थोंमें ये शान्द ईशावास्य के पारिभागिक हैं।

शिष्य—निरूप (निरोद्ध) और प्रगति (पाजिटिव) अग का यथा मतलब है?

गुरु—जब किसी का फोटो खायते हैं, उसका जो पहला काला अस्टर पोटो है वह उसका निरोद्धिक अग है और जो साफ स्टर पोटो है वह उसका पाजिटिव अग है। एक ही फोटो के ये दो अग हैं। इसी प्रकार एक ही बस्तु के अविद्या और विद्या ये निरूप और प्रगति हो अग हैं।

शिष्य—‘अविद्या याने इट अर्थ में अनाधिकृत अनत ज्ञान प्राप्ति न करना’ इसे स्वाक्षर कीजिए?

गुरु—मानलो, तुम्हारा इट अर्थ ‘आत्म-साच्च त्वार’ या ‘ईश्वर-प्राप्ति’ है, जो ज्ञान तुम्हारे इष्ट अर्थ में सहायक नहीं और तुम्हारे अधिकार से बहर चा है-अर्थ है। उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उसे न प्रप्त करना ही अविद्या है, जो बहुत अवश्यक है। तुमने कितने ऐसे अदभी अवश्य देख इसे कि किनी विषय की ओर-सी चर्चा चलाने पर संसार भर का ज्ञान बपर देखे हो। मेरे इह यन्त्रु है उनके-भागवत-गीता आदि इन्य आद्योपान्त वर्णय है, तुम किसी अप्पाय या क्षेत्र का नाम नो कह बता दो। नीधा पाठ करना तो उनके लिए सापारु बन है। यह तो उनका नियमणा पड़ा है। दर अनेकह उनके ‘कात्यार्दर्शन’ या ‘ईश्वर दर्शन’ नहीं हुआ। तुम्हारा के सीपे और उनके पाठ करने से आत्म-दर्शन का ईश्वरदर्शन क्या योग्यन्य? हाँ, अवस्थ-पद्धतेके पठ करने से यह पाठ क्षम्भा अवश्य है। दर ही तो ‘ज्ञानं भारः विद्यां विना’ ही। इसे कुदि पर भार लट्ठ दे, प्रणराज्ञा

ऋग्वेद के मत्रों से जाना जाता है कि इन्हने दधीचि को 'मधुविदा' दी थी। वह विद्या दधीचिने अधिनी उमारों को दी। परन्तु ऋग्वेद में इस मधुविदा का निरूप कहा भी नहा आता। ऋग्वेद में अधिनी उमारों के वर्णनमें दधीचि मुले का नाम अवश्य आता है। पर वह भी एक दृष्टा कृपि के रूपमें नहा। अनुर्वेद के चालीस अध्याय है। उनके अन्तिम पाँच अध्यायों के कृपिका नाम 'दग्ध अथर्वण' है और उनमें ३६वाँ अध्याय "ऋचं वाचं प्रपदे" रागत पाठ है। उसके बादके तीन अध्यायों में 'प्रवर्ग-विदा' का वर्णन है। अंतिम अध्याय 'उर्शावस्य' है, इसे ही 'मधुविदा' समझता चाहिए। इस बत की हस्तभा यजुर्वेद की टीका शानपथ-व्राद्वाणके अन्तिम बाड में हो जाता है, जिसके उत्तरार्प हृष्में वृद्धारण्यक उपनिषद् में ईरावास्यके मनों का सारस्पत्र से विवरण किया गया है।

ऐसा प्रचार साधन-चतुर्य-सम्पूर्ण व्यक्ति को ही नेदात-प्रवर्णने चेदात-सिदात का दर्शन होता है। उसी प्रकार 'मधुविदा' जानने वाले को भी 'प्रवर्गविदा' प्राप्त करनी अत्यावश्यक है। दधीचिने भी सिर जोड़ने की कला। अधिनीउमार इस विदा के प्राप्त करने से ही यज्ञके भागी बन सके। इसका रहस्य यह है कि यज्ञ के दो भाग हैं, कर्म और ज्ञान। मनुष्य हृदय की भावना के अनुसार कर्म करता कर्म का रहस्य नहीं जानता। इसलिए उमके कर्म में बत नहीं आता। प्रवर्गविदा=मस्तक और पक्षो जोड़ना, अथर्व शनपूर्वक कर्म करना। अथर्वदमें इसका हस्त निर्देश किया है—

"मूर्धांन मस्य संसीत्य, अथर्वं हृदयं च यत्।
मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रस्त्रयत्, परमानोऽधि शीर्णत् ॥"

(प. व. १०१२१२६)
इदं कृपि उनके मस्तक और हृदय को सी छरके प्रणाति को

पिर के ऊपर मस्तक तक प्रेरित भरता है। कर्म के रहस्य को जानना ही मधुविद्या है—आत्मविद्या है—ब्रह्मविद्या है। याहूवल्यम् भैत्रेयी के प्रति जो अमृत-सर्वप्रिय आत्मा का उपदेश करते हैं, उसका इस प्रकारण के साथ पूरा पूरा सम्बन्ध है।

याहूवल्यम् गार्णी से कहते हैं कि ‘हे गार्णि! तू अतिप्रथम मत कर, कहीं तेरा मस्तक न गिर जाय’। अर्थात् दर्श और हन, बुद्धि और हृदय का सहकार अत्यन्त अवश्यक है। इसलिए कहा जो बेवत अविद्या (हृदय की भावना) में हृदय गये, वे येर अंधकार में चले गये। जो विद्या (बुद्धिमत्ता) में रम गये, वे मनो उम्मेसे भी धेर अन्धकार में चले गये। उदाहरण के रूप में उन अंधग्राहकों को से सबते हैं, जो अपने धर्म को न मननेवालों की ओर भी निकाल लेते हैं। दूसरे उम हृदय-हीन व्यक्ति की तो जिसने परमणु बम तीव्रपर चिना है, जिसके कारण सुव-ऐ-एव दरा चैन की साँस नहीं ले रहे। यदि कोई सहदय व्यक्ति उसे बनता तो उस से ‘सर्वे पुश्टिलिङ् भन्तु, सर्वे सन्तु निरामया’ ही होता। रिष्य—अथ मैं समझा हि जैमे चित्रली के सदृश मैं दो तारे रहतो हैं, एक निरोषित, दूसरी पौजितिर। यदि दोनों मैं से छिपी एक के साथ स्थितरा सर्वं किमा जाय तो प्राप्ता नहा होता। ऐसे ही बेवत अविद्या या बेवत चिन्द्र से प्रकाश (अत्मदर्शन) होनेवाला नहा। इति दोनों की ही परम व वद्यवद्यता है। अविद्या चित्रेयजी के कथनानुसार ये एक ही वातु के विरूप और प्रदृश दो चंग हैं।

आप तो बहते हैं कि यह उपदेश सर्व-साधरण के निरुद्दे। पर सर्व-साधरण के मास्तक में यह बहु बैमे छिर्दि जा सकती है। जिन शब्दों के अर्थ के रिश्य में यह-यह विद्वान् भी यह में गह गये। उस विश्य में सर्व-साधरण जैसे ही गत दैसे हैं। राष्ट्री है?

गुरु—गुणो, सर्वार्दि एक ही प्रकार हे देते हैं। ये सब अदुभद्दी हैं

ऋग्वेद के मन्त्रों से जाना जाता है कि इन्द्रने दधीचि को 'मनुविद्या' दी थी। वह विद्या दधीचिने अधिकारी कुमारों को दी। परन्तु ऋग्वेद में इस मनुविद्या का निर्देश कहा भी नहीं आता। ऋग्वेदमें अधिकारी कुमारों के वर्णनमें दधीचि मुनि का नाम अवश्य आता है। पर वह भी एक द्रष्टा रूपि के रूपमें नहीं। अनुर्वेद के चालीस अध्याय हैं। उनके अन्तिम पाँच अध्यायों के ऋग्विज्ञा नाम 'दध्यै अथर्वण' है और उनमें ३५वाँ अध्याय "ऋत्वं वाचं प्रपद्ये" शान्तपाठ है। उसके बादके तीन अध्यायों में 'प्रवर्ग्य-विद्या' का वर्णन है। अन्तिम अध्याय 'ईशावास्य' है, इसे ही 'मनुविद्या' समझना चाहिए। इस वात की स्थिता यजुर्वेद वीटीका शतपथ-ब्राह्मणके अन्तिम बाड़ से हो जाता है, जिसक उत्तरार्ध रूपमें वृद्धारण्यक उपनिषद् में ईशावास्यके मन्त्रों का सारहस्त्रसे विवेचन किया गया है।

जिस प्रकार साधन-चतुष्टय-सम्बन्ध व्यक्ति को ही नेदात-श्रवणसे नेदात-सिद्धात का दर्शन होता है। उसी प्रकार 'मनुविद्या' जानने वाले को भी 'प्रवर्ग्यविद्या' प्राप्त नहीं अत्यावश्यक है। दधीचिने भी मनुविद्या के साथ प्रवर्ग्यविद्या सीखी थी। प्रवर्ग्यविद्या का अर्थ है सिर जोड़ने की कला। अधिकारीकुमार इस विद्या के प्राप्त बनने से ही अपने भागी बन सके। इसका रहस्य मह है कि यह के दो भाग हैं, एक और ज्ञान। मनुष्य हृदय की भावना के अनुसर कर्म करता है। पर वह मानवक में इहतु युद्ध की सहायता नहीं लेता, अर्थात् कर्म का रहस्य नहीं जानता। इसलए उपके कर्म में बल नहीं आता। प्रवर्ग्यविद्या-मस्तक और धड़कों जो इन, अर्थात् ज्ञानमूर्ख कर्म बरना। अथर्ववेदमें इसका स्पष्ट निर्देश किया है—

"मूर्धान मस्य संसीन्य, अथगां हृदयं च यत्।
मस्तकादूर्ध्वः प्रत्यत्, पवमानोऽधिशीर्पत. ॥"

(अ. व. १०।१२५)

अपर्यं कृषि उनके मस्तक और हृदय को सी करके प्राणमूर्ख की

सिर के ऊपर मस्तक तक प्रेरित करता है। कर्म के रहस्य को जानना ही मधुविद्या है—आत्मविद्या है—प्रद्विद्या है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के प्रति जो अमृत-सर्वप्रिय आत्मा का उपदेश करते हैं, उसका इस प्रकारण के साथ पूरा पूरा सम्बन्ध है।

याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि 'हे गार्गी! तू अतिप्रक्र मत कर, कहाँ तेश मलक न गिर जाय'। अर्थात् कर्म और हन, बुद्धि और हृदय का सहकार अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए कहा जो केवल अविद्या (हृदय की भावना) में हृदय गये, वे पर अंधकार में चले गये। जो विद्या (बुद्धिमत्ता) में रम गये, वे मनो उपर से भी घोर अन्धकार में चले गये। उदाहरण के लिए मे उन अंधभदारुओं को ले सकते हैं, जो अपने धर्म को न माननेवालों की आत्में भी निवाल लेते हैं। दूसरे उम हृदय-दीन व्यक्ति की लो जिसने परमाणु बम तैयार किया है, जिसके कारण यज्व-ऐ-सब दरा चैन की सांस नहीं हो रहे। यदि कोई सहृदय व्यक्ति उसे बनाता तो उस से 'सर्वे कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया' ही होता। शिष्य—अब मैं समझा कि जैमे विजली के लट्टू में दो तारे रहती हैं, एक निगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। यदि दोनों में से किसी एक के साथ स्थिवरा स्थिव दिया जाय तो प्रकाश नहीं होता। वैसे ही केवल अविद्या या केवल विद्या से प्रकाश (अरमदर्शन) होनेका नहा। इसलिए दोनों की ही परम अवश्यकता है; अथवा विनोबाजी के कथनानुसार ये एक ही वस्तु के विवित और प्रश्न दो छंग हैं।

अप तो कहते हैं कि यह उपदरा सर्व-साधरण के लिए है। पर सर्व-साधरण के मस्तिष्क में यह बस वैमे ठार्ड ज़ा सकती है। जिन शब्दों के अर्थ के विषय में यहे-इहे विद्वान् भी चक्र में गढ़ गये। उप विषय में सर्व-साधरण ज्ञों की गाँत वैसे हो सकती है?

गुह—गुनो, उचार्ड एक ही प्रकारकी होली है। ये सब अनुभवकी बातें

है; पुस्तक-कीटों की नहीं। महात्मा कबीरजी छिस कौलेज में पढ़े थे ? सुना है श्रीरामकृष्ण परमहस्यजी भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी थे जिसके विद्यार्थी महात्मा कबीरजी। मुझे भी एक ऐसे ही महापुरुषके समीप बैठनेका सौभग्य मिला है जो सस्कृतका उच्चारण तक भी नहीं कर सकते थे, अर्थ सी बात तो दूर रही। उन्होंने मुझमे कहा 'यदों निगम ! पुस्तकें दिमागदे धुमती हैं या दिमागमें से बाहर आती है ?' मैंने कहा-धुमती नहीं बाहर आती हैं। वे बोले-सुन, 'प्रट्टन की पुस्तक पढानर,' पुस्तकें तो उनके लिए है जिनको एकन्त चिन्तन का अवसर नहीं मिलता।'

अस्तु-आओ, विद्या और अविद्याका जरा स्थूल रूपमें भी दर्शन करें। "अविद्यावले अन्धकार में पढ़ते हैं और विद्यावले महा अन्धकारमें"। देखो, वोई व्यक्ति पढ़-हिला नहीं, यदि वह भूल करदे तो इम टमे चमाके योग्य समझते हैं। परन्तु यदि पढ़ा-लिला व्यक्ति वही भूल करदे तो चमा के योग्य नहीं। किसी स्थान पर लिला है कि 'यहाँ पेशाव करना मना है' विसीमे भगा ही गई। वह कहता है कि 'जी! मैं पढ़ा-लिला नहीं हूँ, जाना करें'। पर ऐसा बदूर पढ़ा-लिला तो नह। छूट सकता। अर्द्धान् भूल करे तो अन्धकार ही कहा जायगा। पर यदि विद्वान् होकर भी भूल करे तो घर अन्धकार नहीं तो और क्या है। सोये हुए वो तो जायाजा जा सकता है, पर मचने हुए (जो जन-जून कर मेनेशा दोंग कर रहा हो) वो नहीं। पान्न, पशु आदि प्राणी भरे यज्ञमें मल-त्याग आदि विद्याओं कर रहे हैं, पर तुम मो एट बार करके हो दरों ? तुम भी शुद्धदेव या गर्व-द्वा हय दनादर यात्रा तक तो दैहर आओ। इमन्तर दिद्दाले वा उत्पन भी भूय और पतन भी भूय हो रहा है।

अन्यदेवाहुर् विद्यया अन्यदाहुरविद्यया।

इति शुश्रम धीराणां ये नस् तद् विचरक्षिते ॥१०॥

अर्थ—आत्मतत्त्व को विद्या से भी भिज कहा है और अविद्या से भी भिज रहा है। जिन्होंने हमको उसका दर्शन कराया है, उन धैर पुरुषों से हमने ऐसा कुना है।

शिष्य—यहाँ 'विद्या' का 'विद्यायाः' अर्थ कैसे बत डाला?

गुरु—यहाँ सूतीया विषयि पञ्चमीके अर्थ में आई है। यह बात मन्त्र १३ से खण्ड में आजायगी। इस प्रकार तृतीया पञ्चमीके अर्थ में हो सकती है। वैदों में इस तरह वा उसका अनेक बार प्रयोग आता है। इसके अतिरिक्त इसी स्वरूप वर यजुर्वेद के भार्यादिन पाठ में 'विद्यायाः' और 'अविद्याया' ऐसे संधि ही पाठ आये हैं। उन्हे छन्द के मुभाने दे लिए उपलिपियों ने बदला भर दिया है।

शिष्य—"आत्मतत्त्व" विद्या और अविद्या से भिज कहा है" यह कैसे?

गुरु—श्वेताख्यतर (५।१) में भी लिखा है कि "विद्याविद्ये ईशते यस्तु स्तोऽन्यः" अर्थात् विद्या और अविद्या-इन दोनों का चालक दोना से न्यारा है।

इस भन में तथा तेरहवें मन्त्र में आत्मतत्त्व को—प्रद्रष्टव्य को—'तत्' कहा है। 'तत् त्वम् अस्ति' महावाक्य का प्रथम पद यही है। तद्=परली वस्तु, जो सभी द्वंद्वों से परे है। उसे ही जानना है, उसे ही प्रप्त करना है और उसी में 'त्व' का लय करना है। यह जानने और न जानने से परे है। 'येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विज्ञानीयात् विज्ञातारम् अरे! केन विजानीयात्' अर्थात्—जिस आत्मा से इस समस्ते जगत् को जानते हैं। उस अमा को इस साधन से जानें।

बात भी टीक है—तत् जन-ज्ञाता—ज्ञेय यह निषुटी एक ही वन गई तब द्वौने विस्तो जाने। अब 'यह, वह, मैं' (यह=सप्तर, वह परमात्मा, मैं=शारीरभिमानी जीव) रहा ही कहा? सूर्य-धूर्ण-किरण क्या अलग-अलग है? (यह=सूर्य, वह=धूर्ण, मैं=किरण) सर्व को देखनेके लिए भी यथा दीपक की आवश्यकता है?

शिष्य—यहाँ लक्षण से 'अविद्या' शब्दका 'तप' अर्थ मानलें तो क्या दानि है?

गुर—जहा वाच्यार्थ का अथ होता है, वही लक्षण मानी जाती है। यहाँ तो सुख्यार्थ (वच्यार्थ) का अथ ही नहीं होता। अतः लक्षण नामना ठीक नहा।

शिष्य—'अविद्या' का अर्थ यदि कर्म (जो बुद्ध लोगोंने किया भी है) मन लिया जाय तो क्या दानि?

गुर—मन दूसरे और तीसरे दो एक साथ पढ़ने से हम भली-भांति समझ सकते हैं कि ईशावस्य में कर्म को गाढ़ अन्धकार कहने की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अविद्या का यथाध्युत कर्म अर्थ तो बिलकुल है ही नहीं।

शिष्य—अच्छा, तो विद्या का अर्थ आत्मज्ञान तो मानिए?

गुर—मार्द! जैसे हिमी कहिने “अनुग्रामस्य लोभेन्, भूप कृपे निपातितः” कर ड़ाला है। वैसे ही हम भी “समुच्चयस्य लोभेन ज्ञानं तमसि पात्यते” कर डानेंगे। अर्थात्-ज्ञान और कर्म के समुच्चय के सोभसे यदि विद्याका अर्थ आत्मज्ञान मान भी ले नो विद्याको गाढ़ अन्धकार कहा है। आत्मज्ञानको भी गाढ़ अन्धकार मानना ही होगा। वह भी मानो अविद्या से अधिष्ठित भी कल्पन शक्तिभी खाली जाय। पर यह बात ज्ञान में ही नहीं भाती। वस्तुतः सौधा अन्धयार्थ तो यही बतलात है कि ये मन आत्मज्ञान की सबोच महिमा व्यक्त करने के ही लिए हैं।

अन्य नमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते।

ननो भूय इव ते य उ संमूस्यारूपा ॥१२॥

अर्थ—जो निरोप में दूष गये हैं गाढ़ अन्धकार में पैठे, जो विद्यास में रम रहे हैं मनो उससे भी धेर अन्धकार में पैठे,

शिष्य—आपने असंभूति का 'निरोप' और संभूति का 'विद्याग' अर्थ वैसे कर दाला?

गुर—इसके पहले के तीन श्लोकोंमें वृद्धि-शोधन हुआ है। अब यहाँसे हृदय-शोधन त, आरंभ होता है; असद्-वृत्तियों का निरोध और सद् वृत्तियोंका विकास ये दोनों एक ही हृदय-शोधन के निरूप और प्रणाल हैं। इसके अनुसार उनके फल भी निरूप और प्रणाल स्पष्ट में दिखाये गये हैं।

रिष्य—एवं दूसरे किसीने तो ये अर्थ नहीं किये। अपने विष आधार पर ऐसे अर्थ फ़रते हैं?

गुर—मेरे अद्योतक आधार तो श्रीविनोबाजी की उत्ति है और उनके अर्थोंका आधार है वैदिक-साहित्य। वे ललखते हैं कि ‘समूलि’ और ‘असंभूति’ शब्दों के अर्थ के विषय में एक मति नहीं और आगे भी होगी, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यहाँ के अर्थ निश्चयके संबंध में इतना ही कहना है कि उस करते समय यथासम्बव वैदिक साहित्यकी गवा ही ली गई है।”

रिष्य—‘निरोध’ में गाढ़ अन्धकार कैसे है? और ‘विष स’ में उससे भी घोर अन्धकार कैसे?

गुर—जब हम अनुभ वृत्तियों का निषेधलग्नेणा निरोध करने लग जाते हैं तो वे अनुभ रूपतया हमारे अन्त करण में अपना घर करते हैं तो वे अनुभ रूपतया हमारे अन्त करण में अपना घर करते हैं लग जानी है। ज्यों उसा हम अपनी अर से उन्ह घर में नग लग जाते हैं त्यों त्यों वे हम पर अपना पूरा प्रभाव डालने लग जाती हैं। अन्त में हमारी हार हो जाती है, हम तदूष्य बन जाते हैं। कस लृण्य बन गया और रावण राम, यह है निषेधलग्न निरोधका कस लृण्य बन गया और रावण राम, यह है निषेधलग्न निरोधका परिणाम। मुराई करने से मुराई का चितन करना अधिक उपर है और परिणाम। मुराई करने से मुराई का चितन करना अधिक भना है। देखो, जो भलाई करने से भलाई का चितन करना मुरा भनते थे, वही अब लोग लरही की ली का भी स्पर्श करना मुरा भनते थे, वही अब नमहे की ली का भी स्पर्श करने में संकेत नहीं करते। कारण नमहे की ली का भी स्पर्श करने में संकेत नहीं करते। कारण कि वे लोग निषेधलग्न निरोध के नाम पर उसका जप ही करते हैं। भिन्नओं की सल्यासे गिरुणियों की सल्या अधिक होगी। रहे। भिन्नओं की सल्यासे गिरुणियों की सल्या अधिक होगी।

चेदा । जबतक किसी पस्तु श्री हमारे दृश्य में कीमत है तबतक निषेधात्मक घानों से पुछ नहीं बन सकता : इगलिए उस वस्तु श्री कीमत कम भर दाती । कीमत कम भर दातने का ही नाम धैराय दै : तुम्हे भाग के मूल्य का इन नहीं । क्योंकि तेरे दृश्य में उसकी कीमत नहीं ।

अब नो विज्ञाम की चात—इम अपनी ओरते आने गुणों का विकास करते चले जा रहे हैं । वह विज्ञाम हमारे खाने-पीने-पहरने-उठने देठने आदि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है । इम अपने पूर्वजों से आपने को विकासशील मानते हैं । क्योंकि वे दे-चारे खाना-पीना-पहरना आदि नहीं जानते थे । देखना नो यह है कि कहीं इम विकास के नाम पर विषयों के दास तो नहीं बन रहे । जूता हमारा दास है न कि हम जूते के दास । पिर दिन में थीस थार जूते की रोका क्यों ? कपड़ा तन ढकने के लिए आवश्यक है, पर उसके छिजायनों पर इतना जोर क्यों ? खाना शरीर टिकानेके लिए है, जिससे हम अपना जीवन संरक्षित कर सकें । पर आज तो जीवन ही राने के लिए बना हुआ दिखाई देता है । मैं साफ रहने का निषेध नहीं कर रहा, मैं तो दासता को ओर ध्यान खींच रहा हूँ । हम परतन्त्र बने जा रहे हैं स्वतन्त्रता के नाम पर । केवल तन की सफाई से काम नहीं चलेगा, इसके साथ-साथ बचन और मनकी भी सफाई चाहिए । हमारा यह गुण-विकास एक प्रशारकी विलासिता ही है जो समस्त दुःखों की जड़ है । आद रखो-भोगते राजियोंका विनाश होता है और योगसे विकास । हम कर क्या रहे हैं ? अविचार-हथी भूमि में राग का बीज बोकर विषय-चिननका जल डाल रहे हैं, जिससे यह विलासिताहा दृढ़ा पैदा हो गया है, इसके फल है मुह और दुःख । यदि दुःख नहीं चाहते तो विचार की भूमि में धैराय का बीज बोकर त्याग का वृक्ष लगाओ, जिसका फल होगा आनन्द । अब मुझो श्रीविनोबाजीकी धारणी—

“विद्यायक विकासटिटि के अमाव में ऐबल निरोधसप निरोधस
संधना सुद हम पर ही उलट पहती है। अशुभ गतियों के निरोध
का नाम लेते-लेते वे शृंतियाँ ही उठ होने लगती हैं। यह है
निरोधवे अन्दर या गढ़ अनधकार। दूसरों थोर निरोध-शृंण्य ऐबल
विशास की कल्पनासे मानो इसमे भी घोर अयेरा पैदा होने की
समाधना रहती है। गुण-विकासके नाममे मनुष्य अनजान में अनेक
प्रश्नरके विषय-पाशों से ज़क़ि लिया जाता है। दोनों श्रेष्ठ के अन-
कारका यह ऐबल एक नमूना दिखाया है। आत्मज्ञान-विहीन ऐश्वतिक
बीदूक साधना की भाँति आत्मज्ञान-विहीन ऐश्वतिक हार्दिक साधना
में भी वई ग्रकारका अधकार सूब भरा होता है। वह जिसका हो वही
‘खोन से। उस सबसे वचने के लिय आत्मज्ञान चरहिए।’

शिष्य—प० सातवलेकर जीने तो ‘असभूति’ वा अर्थ व्यक्तिगत उज्जनि
और ‘सभूति’ वा अर्थ सघसत्ता मिया है। आपके किये हुए अर्थ
तथा सातवलेकरजीहत अर्थ में से कौनसा अर्थ ठीक है ?
मुझ—देखो ही ठीक है।

शिष्य—सत्य एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकारका नहा।

गुरु—मैं भी मानता हूँ कि सत्य एक ही प्रकारका होता है। पर उस
सत्य को देखनवाली हटि वई प्रकारकी हो सकती है। ससार एक
ही प्रकार का है कोई हसे मुख्यमय देखना है और कोई दुखमय।
पर ससार न मुख्यमय है और न दुखमय, लैसा है वैसा ही है।
नच्चे वो दाढ़ में मा मा है, पति की हटि में पत्नी और पिता की
हटि में पुत्री, इस प्रकार हटि-मेद होने पर भी वस्तुमेद नहीं। यहाँ
भी हटिमेद है, अर्व-मेद नहीं। जो अर्व-मेद प्रतीत हो रहा है।
यह आगे विचार की कमी है।

विचार करो, जो सध-सहकार के बिना व्यक्तिगत उज्जति करते हैं।
वे थोर अन्धकार में जते हैं। उदाहरण के हप में ग्रामणों को लो,
जब इहाँने सधवी उज्जति के साथ-साथ आगे उज्जति की तर वे

खर्च करके नदियों पर बताये गये पुल इसकी हठि में बच्चों का बनाया हुआ एह बालुका धरोदा है। यह है उससे भी ओर अंधकार में शुक्र जाना।

शिष्य—श्रीविनोदाजी का हठिभेद समझाइए ?

गुरु—श्रीविनोदाजी सातवलेकरजी वी सम्मूति और असंभूति में न शुष्कर अनुभूति में गहरे जा शुसे। वे वहाँ बैठे-बैठे ब्रह्माण्ड पर से अपनी हठि हटा कर पिंड पर हठि ढाल रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि हम सददृष्टियों का पच्छ लेकर असदृष्टियों को दुलारते रहेंगे तो हम स्वयं भी असदू बन जायेंगे और यदि हम युण-विकास के नाम पर आगे निकल जायेंगे तो विद्यों के जाल में फँस जायेंगे। इससे बचने के लिए आत्मज्ञान की परम आवश्यकता है। ब्रह्माण्ड और पिंड की एक ही प्रकार की रचना है। सातवलेकरजी की हठि के सामने ब्रह्माहका छोटामर्द जगत् है और विनोदाजी की हठि के सामने जगत् का छोटाभाई शरीर है। वस, इतना ही हठिभेद है। अपनी हठि के भेद के कारण—एकने असंभूति (संघसत्ता) और संभूति (अक्षिस्वातंत्र्य) तथा दूसरेने असंभूति (निरोध) और संभूति (विकास) अर्थ किया है।

शिष्य—कुछ लोग इन मंत्रों का अर्थ द्वैत-परक करते हैं और कुछ लोग अद्वैत-परक। वस्तुतः ठीक कौनसा अर्थ है ?

गुरु—आत्मा द्वैत भी है और अद्वैत भी। आत्मा की चार आवस्थाएँ होती हैं; दो में द्वैत का अनुभव होता है और दो में अद्वैत का। जाग्रत् और स्वप्न में द्वैत का अनुभव होता है एवं सुउपि और समाधि, सुउपि निविकल्प-समाधि और तुम्हाँ अज्ञेय-स्थिति है। यही बात समाधि, सुउपि निविकल्प-समाधि और तुम्हाँ अज्ञेय-स्थिति है। यही बात कार की चार मात्राओं में क्रमशः सूचित की गई है अ (जाग्रति) र (स्वप्न) म (सुउपि) * (दुर्मा)।

वस्तुतः 'यस्मिन् सर्वाणि भूतानि' इस सातवें मंत्र को छोड़कर

याकौ सभी मंत्र द्वैत का प्रतिपादन करते हैं।

अन्यदेवाहु संभवाद् अन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रम धोरणां ये नस्तद् विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

अर्थ—आत्मतत्त्व को विकास से भी भिन्न कहा है और निरोध से भी भिन्न कहा है। जिन्होंने हमको उसका दर्शन कराया है, उन धौर मुद्राओं से हमने ऐसा सुना है।

शिष्य—यहाँ 'संभूति और' 'असंभूति' शब्द न देखर 'संभव' और असंभव शब्द क्यों दिये हैं?

गुरु—चन्द ठीक बैठ जाय इसलिए।

शिष्य—आत्मतत्त्व, निरोध और विकास से परे कैसे हैं?

गुरु—आत्मतत्त्व यदि सुझते भिन्न हो सो मैं उस का निरोध और विकास कर सकता हूँ। पर वह तो मेरा स्वरूप ही है। मैं अपना निरोध कैसे करूँ? और विकास कैसे करूँ? इसलिए वह निरोध और विकास से परे की वस्तु है।

शिष्य—'निरोध' से आत्मज्ञान भिन्न है यह तो समझ में आ जाता है। पर 'विकास' से भी भिन्न है यह समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है?

गुरु—'विकास' को परम सीमा ही आत्मज्ञान है' यह कल्पना हृद होजाने के कारण—हमारी कर्णपीठियाँ इस की अभ्यस्त हो जाने के कारण—हमारी समझ में नहीं आता। यह बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए। इसीलिए 'अन्यदेवाहु संभवात्' में 'एव' का प्रयोग हुआ है। इस बात पर जोर दिया गया है।

शिष्य—दो प्रकार की धौरिक साधना से तथा दो प्रकार की हार्दिक साधना से भी आत्मज्ञान भिन्न वस्तु है। यह बात तो किसीने नहीं कही?

गुरु—यह बात उपनिषद् ही कह सकती है। पर उपनिषद् ने भी पूर्व गुरुओं का इवाला दिया है। 'विजु गुरु दोह कि ज्ञान' यही इसका सार निकलता है।

शिष्य—किसी भी मन ने 'गुरु' शब्दका उल्लेख नहीं हुआ। पर आपने 'विनु गुरु होइ दि हान' कहा से भाव निर्णय दाला?

गुरु—इस कथ में तथा पहले के दसवें मन में 'धीर' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'धीर' शब्द के दो अर्थ होते हैं: एक 'युद्धिमान्' दूसरा 'धृतिमान्'। 'धी' नाम युद्धिक है, शिष्य=युद्धम् इरयति=प्रेरयति, इति धीर (युद्धिमान्)। 'इ' भावु से दनावें तो भरति=धारयति इति धीर = 'धृतिमान्' अर्थ होगा। दसवें मन में चुदि शोधन का प्रसंग है। इसलिए वहाँ मुख्यतया 'युद्धिमान्' अर्थ लिया गया है और यहाँ हृदय शोधन का प्रसंग है, इसलिए यहाँ मुख्यतया 'धृतिमान्' अर्थ लिया है। दोनों अर्थ मिलाकर ही पूछ घोरता होती है। धीर अर्थात् गुरु।

शिष्य—'इति युधुम्' क्यों कहा?

गुरु—भ्रुति, समृति और कृति, यह है उपनिषदोंकी सचेष में ज्ञान प्रक्रिया। अर्थात्—पहले युद्धमुख से भ्रवण दरना, पर उसका चितन-पूर्वक धारवार स्मरण करना, अनन्तर उसके अनुसार कृति करके उसे कस्टी पर कसना। यह यात 'उपनिषद्' शब्द का अर्थ करते समय हम दख ही लुके हैं।

शिष्य—'विचच्छिरे' का अर्थ 'व्याख्या बरके बतलया' या 'समझा दिया' ऐसा करते हैं। आपने इसका दर्शन कराया है अर्थ क्यों कर दिया?

गुरु—ये दोनों अर्थ भी ठीक ही हैं। पर 'विचच्छिरे' में 'चच्' धातु है और उसका 'चक्षु' से सम्बन्ध है। इसलिए 'दर्शन करा दिया' इतना उसका अर्थ अभिप्रेत है। शिष्य को ज्ञानका दर्शन करा देना गुरु की करामत है और उस ज्ञान को अनुभव में लाना करा देना गुरु की करामत। अनुभव में लाने पर ही ज्ञान सफल होता है।

शिष्य की करामत। अनुभव में लाने पर ही ज्ञान सफल होता है।

शिष्य—यह ज्ञान हृदय पर क्यों नहीं जमता?

गुह—इसलिए कि वहां कोई दूसरी चीज़ (अभिमान आदि) जमी होगी।

संभूति च विनाशं च यम् तद् वेदोभयः सह ।

विनाशेन मृत्युं तीत्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ ३४ ॥

अर्थ—विकास और निरोध, इन दोनों के साथ, जो उस आत्मतत्त्व को जानते हैं, वे उस आत्मतत्त्व के सहारे, निरोध से मृत्यु को पार करके, विकास से अमृत को पाते हैं।

शिष्य—इस गंत्र में ‘असंभूति’ शब्द न देकर ‘विनाश’ शब्द क्यों दिया गया ?

गुह—ऐसा करने का यह हेतु है कि दोषनियुक्ति के—निरोध के—दो भाग होते हैं (क) ज्येष्ठ दोष न चिपकने देना, (ख) पुराने चिपके हुए दोषों की निकाल कर फेंक देना। ‘असंभूति’ शब्द अच्छरार्थ से मुख्यतया पहला भाग सूचित भरता है। दूसरा भाग सूचित करने के लिए ‘विनाश’ शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु योगशास्त्रने निरोध शब्द में ही दोनों भागों का समविश कर दिया है।

शिष्य—क्या ‘असंभूति’ की तरह ‘अविद्या’ के भी दो भाग हैं ?

गुह—हाँ, जैसे ‘विनाश’ शब्दसे असंभूति के दो भाग सूचित होते हैं। वैसे ‘अविद्या’ के भी दो भाग सूचित समझने चाहिए। (क) व्यर्थ बोझ-का-बोझ शान श्राप न करना, और (ख) पुराना श्राप किया हुआ भूल जाना।

शिष्य—‘निरोध से मृत्यु को पार करके, अमृत को पाते हैं, कैसे ?

गुह—जब आत्मज्ञान की उत्कृष्टा होती है तब मनुष्य निरोध के बलसे विषय-वशीकार वैराग्य श्राप करता है। इतना होने पर यह कहा जा सकता है कि साधक मृत्यु की तर गया। आगे, विकास के बलसे ओत प्रोत विश्व प्रेम का अभ्यास करके अच्छय अमृत की निधि को प्राप कर लेता है। निरोध और विकास को इस प्रकार आत्मज्ञान के लिए सपा लेने से दोनों उपकारक तथा साधन हो जाते हैं। जैसा बता चुके हैं कि विद्या और अविद्याका समुच्चय नहीं तैना। उसी

प्रकार यहा भी निरोध और विकास का समुच्चय नहीं लेना। किन्तु दोनों दोषों से रहित तथा दोनों गुणों से सपना एक ही अव्यग (अविकल) और परिपूर्ण साधना लेनी है।

शिष्य—माध्यदिन पाठ में १२, १३, १४ सख्यावाले मंत्र पहले दिये हैं और ६, १०, ११ वाले बादमें—ऐसा क्यों? पहले बुद्धि-शोधन होना चाहिए या इदय-शोधन? इन दोनों में से अधिक महत्वशाली कौनसा है?

गुरु—ये प्रश्न केवल व्यर्थ का विवाद खड़ा करते हैं। साधक की जैसी मनोभूमि होगी वह वैसा करेगा। वास्तव में दोनों समान महत्व मनोभूमि होगी वह वैसा करेगा। वास्तव में दोनों समान महत्व विवेचन का उपन्यास करते समय पहले बुद्धि-शोधन और बाद में विवेचन का उपन्यास करने समय बुद्धि-शोधन और बाद में इदय-शोधन ऐसी रचना करना अधिक योग्य होगा। क्योंकि गीता ने भी साख्य-बुद्धि की नीव पर ही आगे योग-बुद्धि की रचना की है।

शिष्य—मंत्र २, ६, १२ में अधकार का निरैश दिया है। इन में पारस्परिक क्या भेद है?

गुरु—मंत्र ३ में विद्यागत अन्धकार—आत्मसत्त्व आमुरी आचरण

मंत्र ६ में बुद्धिगत अन्धकार—

(क) केवल अविद्या (स) केवल विद्या।

मन १२ में इदयगत अन्धकार—

(क) केवल निरोध (स) केवल विकास। इन में से नेतिक अन्धकार तो सर्वथा वर्जनीय है ही। बीदिक तथा हार्दिक अन्धकार संशोधनीय है। संशोधन करने पर वह (अन्धकार) साधनस्प दो सकता है।

शिष्य—संशोधन किसके द्वारा होगा?

गुरु—आत्मशान के द्वारा।

शिष्य—आत्मशान किसके द्वारा होगा?

गुरु—संशोधन के द्वारा।

शिष्य—यह तो बढ़ो बात हुई कि ताली टूंड में रह गई और ताला

लगा दिया गया। ताली कहती है कि ताला शुले तो मैं बाहर निकलूँ और ताला कहता है कि ताली बाहर निकले तो मैं शुलँ। गुरु—ठीक, विस्तु यही बात है। यही आकर यहें घड़ी ज्ञानी, बुद्धिमान्, कभी और योगी चक्र में पहुँचते हैं। वे दोनों शब्द इसी ही गेतुं खाने लगते हैं। उनकी आंखों के सामने अधिरा ही अधिरा लग जाता है। ऐसी अवस्था में ही प्रार्थनात्मक काम आता है। इसलिए आगे के भव्र में ईश्वरभक्ति का आवाहन किया गया है।

हिरण्मयेन पापेण सत्यस्यापिद्वितं मुच्यम् ।

तत् त्वं पूर्वपापृणु सत्य-धर्माय दण्डे ॥ १५ ॥

अर्थ—मुवर्णमय पात्र से, सत्यका मुंह ढका हुआ है। हे विश्वगोपक प्रभो! मुझ सत्यधर्म दण्डक के दर्शन के लिए उसे तू उपाह। शिष्य—जब आत्मा सत्यकाम, सत्यसंकल्प, सत्यस्वरूप और शिव-स्वरूप है तो सब को ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता?

गुरु—“त इमे सत्याः कामाः अनृतापिधानाः” (छा. ८-२-१)

आत्मा की सत्यकामता अनुत्से ढकी हुई है। यह ढक्कन दूर करने के लिए ही यह प्रार्थना है।

शिष्य—वह ढक्कन लग दैसे गया?

गुरु—वह अनुत्सर्प या असत्यरूप ढक्कन अपने नामे (असली) स्वरूप में मनुष्य को प्राय सीच नहा सकता। इसलिए वह कभी अनेक ‘रमणीय’ भांगो का और कभी प्रसंगवश ‘हित’ या लगनेवाले कर्तव्यों का यप धारण किया करता है। जिस से मनुष्य उसकी ओर खिच जाता है और सत्य ढेंड जाता है—आंखों से ओमल हो जाता है। यही है हिरण्मयपात्र (हिरण्मय+हित+रमणीय) या मुनहरा ढक्कन, (मुन-हरा=प्रवणमात्र से हरनेवाला-खीचनेवाला) ‘स्मरण रक्खो’—यह ‘हिरण्मय’ शब्द लाङ्छिक है। लक्षण से ही इसका रमणीय भोग और हितरूप कर्तव्य अर्थ लिया गया है। परन्तु, अङ्गरार्थ पर भी अवस्था ध्यान देना है। अङ्गरार्थ से यह

वित्तमोह का सूचक है (देखो मंत्र १ ‘मा गृधः कस्य त्विद् धनम्’)। वित्तमोह थे सत्यदर्शन का लोप होता है और मनुष्य प्रमाद में पड़ता है। “प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन भूदम्”

(कठ २-६)

शिष्य—मनुष्य को वित्तमोह क्यों होता है?

गुरु—इसलिए कि मनुष्य वित्त से पोषण की आरा रखता है। वस्तुतः गुरु—इसलिए कि मनुष्य वित्त से पोषण की आरा रखता है। और भूत से वित्त पोषक नहीं शोषक है। सत्य से पोषण होता है और भूत से शोषण होता है। “समूलो वै पप शुच्यति, यो अनृतम् अभिवदति” (पथ ६-१)

शिष्य—‘हिरण्मयपात्र’ का नाम गीता में क्यों नहीं आया?

गुरु—गीताने ‘हिरण्मयपात्र’ को ‘योगमाया’ नाम दिया है। योगमायाने ईश्वर को घेर रखा है, इसलिए उसका दर्शन लुप्त हो गया।

“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया-समावृत्तः” (गी. ३।३५)

“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया-समावृत्तः” (गी. ३।३५) ये उसकी माया का निराकरण भी उसके आश्रय से होता ‘मामेव ये अपद्यन्ते माया मेतां तरंति ते’ (गी. ३।१४) इसीलिए यह

प्रार्थना है। “असदो मा सद् गमय” (बृ. १।१।२८) सूचित हुआ।

शिष्य—यदि ईश्वर को भी मायाने घेर रखा है तो ईश्वर और जीव में

भेद हो क्या रहा?

गुरु—ईश्वर योगमायावाला है और जीव गुणमयीमायावाला है। योग-माया से र्याग, प्रेम, आनन्द होता है और गुणमयी माया से माया के लिए विवरक। गुणमयी माया=(अविद्या) बन्धन, राग-द्वेष, सुख-दुःख होते हैं। गुणमयी माया=(विद्या) निवर्तक। माया के अभाववाला ब्रह्म।

प्रवर्णक और योगमाया=(विद्या) निवर्तक। माया के अभाववाला ब्रह्म।

शिष्य—सत्य पर का मुनदरा ढक्कन दूर करने के लिए विश्वपोषक

परमेश्वर से प्रार्थना की है। क्या यह परमेश्वर सत्य से भिज है?

गुरु—सत्य से परमेश्वर भिज नहीं, वह सत्य ही है। सत्य का दर्शन

प्राप्त करने के लिए सत्य की ही प्रार्थना की है “सत्यं ज्ञानम्

अनंतं द्वाष्टु”।

शिष्य—ईश्वर को सत्य कहें या सत्य को ईश्वर कहें ?

गुरु—दोनों एक ही हैं। 'ईश्वर ही सत्य है' यह तत्त्वज्ञान की भाषा है और 'सत्य ही ईश्वर है' यह साधना की भाषा है। 'नारायण ही सत्य है' यह तत्त्वज्ञानी कहेगा और 'सत्य ही नारायण है' यह भक्त कहेगा। पर बात एक ही है।

शिष्य—आप ही एह ही बात बता रहे हैं। पर तत्त्वज्ञानी और भक्त में तो पारस्परिक जोड़-फोड़ चलती ही रहती है। 'देवाना प्रियः' 'शुच्छक्षानी' आदि शब्द इन लोगों की ही देव है। पर एह ही बात कैसे ?

गुरु—तुम मनुष्यों की बात कर रहे हो और मैं शान और भक्ति की बात कह रहा हूँ। शान और भक्ति में मुख्य महसूस नहीं, मनुष्यों में ही तो यह अलग बात। ओ भक्त नहीं वह शानों नहीं और जो शानी नहीं वह भक्त नहीं। भक्तिका करना तो पागलों का काम है; शानी या भक्तों का काम नहीं।

शानी की शुद्धि इतनी सूखम हो जाती है कि यह आत्मज्ञान के अतिरिक्त बाह्य वस्तुओं की तो बात ही क्या उन वस्तुओं का ज्ञान, भी सहन नहीं कर सकती। वह बाह्य ज्ञान उसे भारी प्रतीत होता है। पर यह बात भूल नहीं जानी चाहिए कि वह साकार के सहारे से ही निराकार में पहुँचा है। पहले सब वस्तुएँ निराकार ही होती हैं और बाद में साकार। अनन्तर साकार से निराकार में जाना होता है। कोई भी व्यक्ति साकार देह धारण करके एकदम निराकार में नहीं जा सकता। उसे निराकार में पहुँचने के लिए साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। नदी पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती ही है। पार हो जाने पर नौका छोड़ दी जाती है। यदि कोई नौका को भला-मुरा कहता है तो यह उस की कुलीनता का परिचायक है। अच्छा, अब श्री. विज्ञोबाजी के शब्दों में सुनो—

ईश्वर के अनंत गुण हैं। साधक अपनी अपनी हवि और आव-

इयकता के अनुसार उस के विशिष्ट गुण-रूप मानते हैं। साधकों की इन सब शाखाओं के स्थूल-रूप से दो वर्ग हो सकते हैं। एक तो निर्गुण शाखा, जो ईश्वर को 'सत्य' या सत्य के पर्यायरूप सज्जा से सबोधित करती है, और दूसरी सगुण शाखा, जिसे 'प्रेम' या प्रेम के पर्यायरूप सज्जा ए मधुर लगती है। दार्शनिक मुद्दाव के विचारक पहले वर्ग में आते हैं; उपासना पथों की गणना दूसरे वर्ग में होती है। उपनिषदोंने, स्वय दार्शनव मुद्दाव होने के कारण, व्याख्या करते समय 'सत्य ग्रह्य' इस तरह व्याख्या की है। पर उपासना के यिना दर्शन नहीं, यह भी उपनिषदों का सिद्धान्त है। अत उपासना के लिए, 'ग्रिय ग्रह्य' अर्थात् प्रेममय स्वरूप की उपसना करें, ऐसा भी उन्होंने बताया है (वृ. ४।१।३ तथा १।४।८)। करें, ऐसा भी उन्होंने बताया है (वृ. ४।१।३ तथा १।४।८)। सार्थक विचार करने पर 'सत्य' शब्द ही अत में टिक सकता है। क्योंकि सत्य निविकार है। प्रेम विकारयुक्त और निविकार है। इसीलिए विकारवान् मनुष्य को दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसीलिए विकारवान् मनुष्य को निविकारता की ओर ले जान के लिए ईश्वर का प्रेममय स्वरूप सेतु का काम देता है। इस के अनुसार उच्चता उपर्योग याज्ञवल्क्य का काम देता है। व्यापकद्वाष्ट से सत्य याज्ञ और प्रेम उस की प्राप्ति का साधन—यह है इस का नियोग।'

सत्य को 'पूर्व' अर्थात् विश्वपोषक की सज्जा देखर इस मन्त्रने सत्य और प्रेम के बीच का भद्र ही मिटा दिया। सारे समाज का सत्य और प्रेम के बीच का भद्र ही मिटा दिया। सत्य और प्रेमपूर्ण सेवारूपि मे पापण करने वाले शद को उपनिषदोंने 'पूर्व' प्रेमपूर्ण सेवारूपि मे पापण को आदर्शरूप भूमाता का कहा है, और ऐसी प्रेमपूर्ण सेवारूपि सेवारूपि की आदर्शरूप भूमाता का कहा है, और ऐसी 'पूर्व' सज्जा दी है—“इय है पूर्ण। चदाहरण देवर उसे भी 'पूर्व' सज्जा दी है—“इय है पूर्ण। इय हि इद सर्वं पुर्व्यति, यद् इद किं च” (वृ. १।४।१३) इय हि इद सर्वं पुर्व्यति, यद् इद किं च” (वृ. १।४।१३) सत्य और 'पूर्व' का अधिक विवरण आगत ही मन्त्र में आता है। सत्य और 'पूर्व' का सम्बन्ध करने की इस वृत्तिसे ही मन्त्र ६ और ७ य दो प्रेम का समन्वय करने की इस वृत्तिसे ही मन्त्र ६ और ७ य दो मन्त्र अलग अलग कहने पड़े हैं नहीं तो दिखी एक ही मन्त्र से वाम अलग अलग कहने पड़े हैं।

चल सकता था ।

शिष्य—‘तत् त्वम् अपाकृष्ण’ में ‘तत्’ शब्द से ‘दक्षन्’ लेना चाहिए या ‘सत्य का मुह’?

गुरु—दोनों ही ले सकते हो । फलित एक ही होगा । जैसे—‘तत् त्वम् अपाकृष्ण’=उस (दक्षन) को दूर कर अथवा उसे (सत्य के मुँहको) तू प्रगट कर ।

शिष्य—‘सत्यधर्माय दृष्टये’ का क्या अर्थ है?

गुरु—सत्यधर्म शब्द अपने पुराने रूप में (सत्यधर्मन्) क्षेत्र में चार-पाँच धार आया है और सभी जगह वह ‘बहुवीहि’ है । इसलिए यहाँ भी ‘बहुवीहि’ ही लेना चाहिए । जिसका अर्थ होगा “सत्य वी उपासना जिसका धर्म है वह”

‘धर्म’ शब्द के दो अर्थ हैं—नीतिधर्म और ईश्वर । धर्म=धारणा करनेवाला । नीतिधर्म समाज-देश का धारणा करता है और ईश्वर सभी लोक लोकान्तरों का धारणा करते हैं । “एष सर्वेश्वर, एष सेतु विधारणः एषां लोकानाम् असंभेदाय” यह सर्वेश्वर, लोक कहा फूट न जाये—इसलिए उन्हें रोक रखनेवाला यह बाँध है (व० ४। ४। २२) ।

इसी प्रचार ‘सत्य’ में भी सभी नीतिधर्मों का सार आ जाता है । क्योंकि सत्य ही सब नीतिधर्मोंका आधार है । वह सर्वत्र धर्म भी है । वह प्रथम है । वह ऋतिम है । वह परम है । वह पूर्ण है । जो उसके विषद् खड़ा होगा—वह असत्य, निरधार सिद्ध होगा । “यो वै स धर्मः सत्य ये तत्” (व० १। ४। १४)

सत्य ही दर्शन के लिए आत्मा बनता है ।

सत्य ही प्रार्थना के लिए ईश्वर बनता है ।

सत्य ही आचरण के लिए धर्म बनता है । इस मत्र में को प्रार्थना वैदिक-धर्म की सार्वभौम प्रार्थना है । इसी में से अगले तीन मंत्रों की प्रार्थना हमें संपादन करनी है ।

हुई प्रतीति का निर्देश है।

शिष्य—सारे मंत्र को ही प्रार्थना क्यों नहीं मान लिया जाता?

गुरु—यह ईश्वर का ध्यान है। ध्यान तभी परिपूर्ण कहा जाता है जब उसमें तीन बातें हों, अर्थात् प्रार्थना, दर्शन, और प्रतीति मिलकर ही ध्यान पूरा होता है।

शिष्य—जो हम लोग रोज़ ध्यान करते हैं क्या यह अधूरा ही ध्यान है?

गुरु—हाँ, है तो अधूरा ही। पर 'दर्शन' के स्थान पर 'भावना' और 'प्रतीति' के स्थान पर 'श्रीति' को रखकर ध्यान पूरा कर लिया जाता है। किन्तु धारा, ध्यान, ध्येय का एक ही जाना ही पूरा ध्यान है।

शिष्य—'ईश्वर ही एक निरीक्षक है' यह कैसे?

गुरु—'ऋूप' भाष्टु से 'ऋषि' शब्द बना है। जिसका अर्थ है निरीक्षण करना। अन्तर्यामी भगवान् ही एकमात्र निरीक्षण करने-माते हैं। इसलिए उनका नाम 'एकर्षिं' है। निरीक्षण ईश्वरी सत्ता का एक महान् श्रेणी है। यह निरीक्षण का अधिकार ईश्वर ही रखता है। परन्तु शिष्य के लिए गुरु ईश्वर तुल्य है, इसलिए उनका भी यह अधिकार माना जा सकता है। अतः गुरु को भी 'एकर्षिं' यह संज्ञा दी जा सकती है। उपासना के लिए ईश्वर को आकाशस्थ सूर्य की ओर गुरु को पृथ्वीस्थ अरिन की उपमा देकर 'एकर्षिं' सूर्य और अरिन इस प्रकार भी अर्थ होते हैं। इस मंत्रमें सूर्य की ओर ध्यान है। सुहक ३। २। १० में अरिन को ओर ध्यान है; संसृत में उच्छ घातुएं एक ओर तो सूर्यम् अर्थ में ज्ञानवाचक एवं दूसरी ओर स्थृत अर्थ में गतिवाचक होती है। इसके अनुसार 'ऋूप'=जाना, यह भी अर्थ होता है। दोनों अर्थ मिलाकर उनका उपयोग कीये मंत्र के 'अर्धत्' पद में किया गया है।

शिष्य—'मम=नियमनकर्ता' और सूर्य=प्रवर्तनकर्ता" यह कैसे?

गुरु—यम और सूर्य—ये अन्योन्य—पूरक दो कार्य हैं। भक्त का निरीक्षण

करके ही ईश्वर नहीं सकता, बल्कि आवश्यकतानुसार उसका नियमन और भी करता है और प्रेरणा भी देता है। अशुभ से नियमन और शुभ के लिए प्रेरणा। यम=नियमन करनेवाला, सूर्य=उत्तम प्रेरणा देनेवाला। (सु+ईर) सूर्य को ही सूक्ष्म रूप से सविता भी कहते हैं। गायत्री-मंत्र में इसीके वरणीय स्वरूप का ध्यान करके बुद्धि के लिए इससे उत्तम प्रेरणा की प्रार्थना की गई है।

शिष्य—‘प्राजापत्य’ का अर्थ ‘जैसे पुत्र का पालन किया जाता है वैये प्रजा का पालन करता है’ कैसे हो गया?

गुरु—ईश्वर का ‘राज्य’ राज्य नहीं होता। वह तो ‘प्राजापत्य’ होता है। यह ईश्वरी राज्य का स्वरूप दिखाया है। हे तो यह धर्मवाचक शब्द। परन्तु यहाँ धर्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है।

शिष्य—‘व्यूह-समूह’ का क्या अर्थ है?

गुरु—व्यूह=विश्लेषण, समूह=संखेषण। प्रत्येक दर्शन विश्लेषण और संखेषण के मेलसे ही पूरा होता है। विन्तु भौतिक चिन्तन में विश्लेषण के मेलसे ही पूरा होता है और आध्यात्मिक चिन्तन में संखेषण। (देखो मंत्र ६)।

शिष्य—यहा विश्लेषण और संखेषण कीसे हैं?

गुरु—“पोषण+निरीक्षण+नियमन+प्रवर्तन+पालन” यह है ईशतत्व का विश्लेषण। ‘परम कल्याण, यह है ईशतत्व का संश्लेषण।

शिष्य—मुझे तो यह “उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः” सा-ही प्रतीत होता है। यथा—उपद्रष्टा (निरीक्षण) अनुमन्ता (नियमन) भर्ता (पालन) भोक्ता (प्रवर्तन) महेश्वरः (पोषण)।

गुरु—सौम्य। इतना ही नहीं; तीन प्रकार की और छह प्रकार की शरणागति का भी इसी में अन्तर्भूत कर सकते हैं। स्मरण रहे शरणागति का भी इसी में अन्तर्भूत कर सकते हैं। इसके लिए क्षमरा: हठयोग-राजयोग-कर्मयोग-भक्त्योग-बना है। इसके लिए क्षमरा: हठयोग-राजयोग-कर्मयोग-भक्त्योग-बना है। परन्तु सर्वभेदु आत्म-प्रमाण-योग ‘सोदमस्मि’ है। ज्ञानयोग बनाये। परन्तु सर्वभेदु आत्म-प्रमाण-योग ‘सोदमस्मि’ है।

प्राण के लिए	हठयोग	पोषण
चित् „	राजयोग	निरक्षण
कर्म „	कर्मयोग	नियमन
भाव „	भक्तियोग	प्रवर्तन
ज्ञान „	ज्ञानयोग	पालन

शिष्य—‘तत् ते पद्यामि’ यह मानो द्वन्द के बाहर का है ?

गुरु—हाँ, इसीलिए यह बिलकुल धीमे स्वरमें, शीघ्र में ही बोलना है।

शिष्य—ईधर को ‘अशब्दम् अस्पर्शं अरूपम्’ (कठ ११३।१२)

आदिक से बैतल ‘अव्यक्त’ कहा गया है। फिर उसके रूप का दर्शन कैस हो सकता है ?

गुरु—‘अपिच संराघने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्’ (व सू ३।२१२)

एक अर्थ, श्रुति और सृष्टियों का निर्णय है कि ध्यानावस्था में अव्यक्त ईधर का भी दर्शन हो सकता है।” दूसरा अर्थ, ईधर पा रान्द्र सुनना, ईधर का रूप देसना, ईधर के स्पर्श का अनुभव करना आदि संगुण साक्षात्कार का कई भक्तोंने तन्मयता-आवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव किया है और वैतर्किक अनुग्रान से इसकी मंगति भी घैटती है।” (देखो, चौथे भग्न की व्याप्ति)

शिष्य—व्यापक ईधर एक ही स्थान पर आ सकता है ? यदि आ सकता है तो वह व्यापक ही कैसा ? वह घात गले के तले नहीं उतरती।

गुरु—गले के तले न उतारना हमारी कमी है, बात ही नहीं। रही उत व्यापक के एक स्थान पर आनेदी। इसमें भी कोई स्थिति नहीं दीखती। अर्थात् व्यापक है, फिर भी उसे एक स्थान पर लाने ही है। वह व्यापक ही व्यापक भी रहती ही है। यह व्यापक का आना चार प्रकार का होता है। गरम पानी में आग आती है, लोहे में आग आती है, विषटी में आग आती है और चूम्ले में भी आग

आती है। जैसे पानी में आगका आवेश है, लोहे में आगवा अवेश है, बिजली में आग की सृति है और चूल्हे में आग का आविर्भाव है। वैसे ही व्यापक ईश्वर का भी आना होता है। परशुराम आदि में ईश्वर का आवेश था, द्रौपदी के चौर में ईश्वर का प्रत्येक था, नृसिंह में ईश्वरकी सृति थी और महाराज दशरथ एवं नन्दबाबा के यहाँ ईश्वर का आविर्भाव था; अर्थात्-परशुराम आदि भगवान के आवेशावतार थे, द्रौपदी का चौर भगवान का प्रवेशावतार था नृसिंहस्प भगवान् का सृति अवतार था एवं राम और कृष्ण, भगवान् के आविर्भावावतार थे।

शिष्य—यहा दो बार 'असौ-असौ' क्यों बहा?

गुरु—कुछ लोग एक 'असौ' को ग्रणार्थक 'अमु शब्द का सम्बन्ध में पुरुष वह मैं हूँ'। बिन्तु श्रीविनोबाजी कहते हैं कि 'योऽसौ मैं पुरुष वह मैं हूँ'। असौ शब्द अवतारण असौ पुरुष सोऽद्यम् अस्मि' में दूसरा 'असौ' शब्द अवतारण अनित है, वह जो 'असौ पुरुष वह है मैं हूँ, यह हुआ इस वाक्यका अर्थ 'असौ पुरुष'=उस पारका, परात् पर पुरुष-परमेश्वर। वह जो उस पारका है वही दिलहुल इस पार का है, अर्थात् मैं ही वह हूँ।'

शिष्य—'पुरुष' शब्द का आग्ने 'परमेश्वर' अर्थ कैसे कर दला?

गुरु—मैंने अर्थ नहीं किया थुति (वेद) ने किया है। यथा हि 'सेम इस्तिए अर्थ' नहीं किया थुति (वेद) ने किया है। 'पूर्वम् ओपत्' (वृ० ११४।१)-यहले ही इसलिए 'पुरुष' है। "पूर्वम् ओपत्" (वृ० ११४।१)-यहले ही इसलिए 'पुरुष' है। "पुरीतति शोते" देह को जला चुका है, इसलिए 'पुरुष' है। "पुरीतति शोते" (वृ० २।१।१६) तथा 'पुरि शोते' (वृ० २।४।१८)-देह में हृदय की (वृ० २।६।१८)-देह में प्रवेश किया है, इसलिए 'पुरुष' है। 'पुर आविश्ट्' यहा में पशा रहता है, इसलिए 'पुरुष' है। 'पुर आविश्ट्' (वृ० २।६।१८)-देह में प्रवेश किया है, इसलिए 'पुरुष' है। 'पूर्वम् अर्पत्' (देखो मत्र ४) ये सभी अर्थ (निर्वचन) उत्तम 'पूर्वम् अर्पत्'

मात्र प्रगट करते हैं। परन्तु धोविनोबाजी का विवरण भी सुनने जैसा है तथा मानने योग्य सूक्ष्म है—‘इस मंत्र में ‘पूरुष एक्षये’ अदि एदों से ईश्वर की ईश्वरताकी व्याख्या की गई है। इसलिए इसके अनुसार सुन्मेहे लगता है कि—‘पुरुष ईश्वरे’—अर्थात् देह पर रासन चलाता है—राज्य करता है, इसलिए ‘पुरुष’ है, यह निर्वचन यहाँ सूचित करना चाहिए (विनोद)।

शिष्य—आप तो इस मंत्र में ध्यान करने बैठे थे, कहाँ जा निकले?

गुरु—जहाँ निकलता या वही निकला हूँ, अन्यत नहीं; जो यहाँ तक नहीं निकलता—नहीं पहुँचता, वह कभी चाहनी है; ये चाहने की तीन भूमिकाएँ हैं। विश्वेषण से प्राप्त पेण्यण—निरीदण—नियमन प्रवर्तन—पालन, पाच रदिमदा चिन्तनरूप पहली भूमिका है, संशेषणसे प्राप्त कन्याएष्टम तेज, यह दर्शनरूप दूसरी भूमिका है और “योऽमौ असौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि” वह समरसतारूप तीसरी भूमिका है। (ध्याता ध्यन ध्येय) विपुली का एक हो जाना ही सच्चा ध्यान है।

शिष्य—‘सोऽहम्’ जप है या अनुभव?

गुरु—यहाँ यह अनुभव के रूप में आगे रखा है। साधक के लिए यह जप भी है। यह जप प्राणायाम के साथ करना चाहिए। दूसरे समय में यात्र प्रथास के साथ यह जप करने में कुछ व्याधा नहीं। योगराश में इसही प्रक्रिया विस्तार-रूपक दी है। आत्मानुभव के बाद यह केवल ‘जप’ न रहकर ‘अर्खंड जप’ बन जाना है। इसे ‘अजपा’ भी कह देते हैं।

शिष्य—‘सोऽहम्’ में जो एकता की अनुभूति (अनुभव) है, वह किम प्रकार की है? अर्थात् (क) प्रेमादिशमरूप? (ख) अगानिमावरूप? (ग) अर्णांशिरूप? (घ) साधन्यरूप? सधवा (ङ) तादात्म्यरूप?

गुरु—जैसी जिसकी कल्पना वैसी। दूसरे के अनुभव के विषय में रात्रिक चर्चा करनेषे बाद ही बढ़ेगा, योग नहीं। अनुभव की बस्तु यहाँ में नहाँ आसकती। उसका अनुभव करना ही योग्य है।

सह का स्वाद कौन बता सकेगा ? यह तो खबरे पर ही पता चलेगा ।
इसलिए मर्दार्थ नारदजी 'भूकास्वादनयत्' कह कर छुपी पा गये ।

रिक्ष्य—आपने कहा है कि वह आदित्य के प्रतीक में ईश्वर का ध्यान है ।

अत 'असीं पुरुष' का 'आदित्यपुरुष' यह अर्थ क्यों न लिया जाय ?

उमा—माध्यदिन पाठ में पन्द्रहवें मन्त्र का पूर्वार्थ और इस मन्त्र का

पठन-भेदवाला अतिम चरण से कर 'आदित्य पुरुष' भी अर्थ दिया है ।

"हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितं मुखम् ।

"योऽस्याद्वादित्ये पुरुष सोऽसावहम् ॥" इति ।

यहा भी आदित्य शब्द से परमेश्वर ही लक्ष्य है । यह बात वृहदारण्यक के नीचे लिखे प्रदर्शन से ध्यन में आजायगी ।

"यः आदित्ये तिष्ठन्, आदित्याद् अन्तर, यम् आदि-
त्य, न वेद, यस्य आदित्य, शरीरम्, य आदित्यम् अन्तर-
यमयति, पप ते आत्मा अन्तर्यामी अमृत । (व० ३ । ७ । ६)

समरण रहे—'सोऽहं सिद्धि' के बाद मुक्ति की स्वाभाविक अपेक्षा समरण रहे—'सोऽहं सिद्धि' के बाद मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना रहती है । इसलिए अगले मन्त्र में मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है । इसमें मुक्ति का स्वरूप और इस के अग के हप म अनुकालिक है । साधना भी सूचित की गई है ।

घायुरनिलमसृतमयेद् भस्मान्तरशरीरम् ।

अं ऋतो स्मर, कृतस्मर, प्रतो स्मर शृतस्मर । १७॥

अर्थ—यह प्राण इस बैतन्यमय अमृत-तात्र में लैन होवे और फिर शरीर की राख हो जाय । ईश्वर का नम लैकर, हे दद सक्त्यमय

जीव स्मरण कर । उसका किया स्मरण कर । हे मेरे जीव, स्मरण कर ।

अपने सकल छोड़कर उसका किया स्मरण कर ।

रिक्ष्य—वय यह दूसरी ध्यन विधि है ?

उमा—यह वायु के प्रतीक में ईश्वर का ध्यान करना है । जो अन्तर्यामी पुरु—हो, यहा वायु का ध्यान करना है । सत्य उसको सहा-

वायु का चालक है, वही मेरे प्राणों का चालक है । सत्य उसको सहा-
है । वायु और प्राण मुनद्दरे ढक्कन है । "मृत्योर्भा अनृतं

गमय” यह सूचित हुआ ।

शिष्य—‘घायुरनिलम्’ का अर्थ क्यों कर यताइए ?

१५—वायुः (क्रीत) अनिलम् (कर्म) प्रतिपद्यताम् (अव्याहृत क्रियापद) ।

इसका पहला अर्थ है कि “ वायु=शरीर गतवायु (प्राण) निरन्दर द्वितीय करनेवाले अनिल में (ब्रह्माङ्गत वायु में) शुलभिल जाय । ”

इस अर्थ में यह वाक्य उपलक्षण स्वस्थ है ।

शिष्य—उपलक्षण किसे कहते हैं ?

गुरु—‘स्वार्थ्योधकत्वे सति स्वेतरार्थ्योधकत्वम् उपलक्षण-त्वम्’ अर्थात् जो अपने अर्थ का बोध कराकर अपने से भिन्न अर्थ का भी बोध करता है; उसे उपलक्षण कहते हैं ।

शिष्य—यहाँ इस वाक्यने अपने से भिन्न दूसरे किस अर्थ का बोध कराया है ?

गुरु—यहाँ यह वाक्य “ शरीर के बे सब तत्त्व अपने अपने मूल देवताओं में लौग हो जायें ” इस व्यापक अर्थ का बोध करता है ;

“ गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः,

देवाश्य सर्वे प्रतिदेवतासु ।

कर्माणि विज्ञानमय श्व आत्मा,

परेऽन्यये सर्वे एकीभवन्ति । ” (मुंडक ३।२।७)

अर्थात् पन्द्रह कलाएँ और सम्पूर्ण देवता (इन्द्रिये) अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाहर स्थित हो जाते हैं । फिर सब कर्म और विज्ञानमय आत्मा-ये सब-के-सब परम अविनाशी पर ब्रह्म में एक हो जाते हैं । मुंडकने इसका ऐसा विवरण किया है ।

इस वाक्य का दूसरा अर्थ—“ जीव चैतन्यमय परमात्मतत्त्व में शुलभिल जाय ” । वायुः=वाति=गच्छति इति वायुः=जीव । अर्थात् जीव उपगच्छुक होकर एक देहमें से दूसरी देहमें जाया छरता है ।

* पन्द्रह कलाएँ ये हैं—भद्रा, अकाशादि पञ्च महाभूत, इन्द्रिय, मन, अस, वीय, तप, मंत्र, दर्म, लोक तथा नाम (देखो प्रश्नोपनिषद् ६।८)

इस प्रकार यह न जाय-निष्पापिक होकर रहे। यहाँ अभिलाषा थदा
‘ची गई है।

तीसरा अर्थ—यह याक्य उस अर्थ को नी सूचित करता है।
जो अन्तकालिक साधना में ईश्वर-रप्तण का उपाग्रह्य प्राणनिरोध की
वाद्यनाथना योगशास्त्रने बताई है; जिसका वर्णन गौतमने अपने शाठ्ये
अध्याय में संचेत से किया है।

शिष्य—‘अनिल’ शब्द का सामान्य अर्थ ‘चैतन’ और विशेष अर्थ
‘शुचन आदि वायुक्तिया’ कैसे कर दिया?

गुरु—इस संघर्ष में श्रीविनोबाजी लिखते हैं ‘अनिल’ शब्द ‘अन’=
(इच्छल करना) इस धातु से बना है। सभी कियाओं में किसी-न-
किसी प्रकार की हलचल होती ही है। इसलिए इसे धातुओं की भी
धातु कहना चाहिए। संस्कृत में ‘गमन’ ‘आशन’ आदि किया-वाचक
संज्ञा बनाते समय जो ‘अन’ प्रत्यय जोड़ा जाता है, मैं मानता हूँ,
वह ‘अन’ धातु का ही रूप है। इस प्रकार मूलभूत और व्यापक
धातु से ही ‘अनिल’ शब्द चैतन्य का वाचक बना है। इसके सिवा
‘अन’ धातु का विशेष अर्थ “शुचन आदि वायु किया” होता है।
‘प्राण’ ‘शरण’ आदि में वह दिलाई देता है। उससे अर्थात् ‘वायु’
यह विशेष अर्थ निष्पत्त हुआ। ऊपर हम देख चुके हैं कि इस मध्य
में ये दोनों ही अर्थ अभिप्रेत हैं।”

शिष्य—११ वें और १४ में मन्त्रमें ‘अस्ति’ शब्द का मोश्य अर्थ
किया है और यहाँ ‘ईश्वर’ अर्थ क्यों किया?

गुरु—मोश्य और ईश्वर एक ही है। मरण-राहित्य चैतन्य का संज्ञण
ही है। सब बुझ मरने के बाद जो बचता है वही चैतन्य ही,
ईश्वर है—मोश्य है।

शिष्य—‘मस्मान्त शारीरम्’ का क्या भाव है?

गुरु—यह दहन की विधि है जो वैदिक धर्म की एक विशेषता है।
सभी जोग शरीर का स्मरण किसी-न-किसी प्रकार यथ शक्ति बनाये

रखना चाहते हैं। पर यहाँ सब स्मरण के निःशेष लोप की अभिलापा की है—‘भस्मान्त शरीर (भूयात्)’ यह है वैदिक संघर्षों की पवित्र व्यापुलता।

शिष्य—‘अथ इदम्’ में ‘अथ’ शब्द का क्या अर्थ है?

गुरु—यहाँ का ‘अथ’ शब्द बहुत महत्व का है। ‘अथ’ अर्थात् अनन्तर। पहले जीव परमात्मा में विलीन हो जाय और बाद में शरीर की राख हो जाय। यदि जीतेजी यदि स्थिति प्राप्त न हुई तो यह दद्धनविधि एक नाटक ही होगी, नटक से क्या लाभ? पहले जीवत्व की राख होने दो फिर उसके स्मारक के रूपमें शरीर की राख होने दो। पहले विजय फिर विजयोत्सव। मानव-शरीर मोक्ष के लिए है। अपना उद्देश्य सिद्ध करके ही वह दद्धन का अधिकारी हो सकता है।

शिष्य—‘शरीर’ शब्द का क्या अनुपत्ति है?

गुरु—शरीर शब्द की अनुपत्ति ‘टृ’ (फटना) और ‘थि’ (आश्रय करना) इन दो धातुओं से की जा सकती है। शरीर=शीर्ण होनेवाला फटा-भंगुर है। यह ध्यान में रख कर इसके विषय में आकृति न बढ़ावें। राय ही वह साधना का आश्रय-स्थान भी है, यह समझ कर उसे यथाप्राप्त भौग भी देते रहें। ऐसा दुहरा अर्थबोध शरीर शब्द दे रहा है। जो बात ‘तैन त्यक्तेन भुजीया’ में कही है वही कह रहा है।

शिष्य—पुस्तक के आदि में भी ‘उँ’ और अन्तमें भी ‘उँ’ यह क्यों?

गुरु—पुस्तक के ही आदि-अन्तमें नहीं, जीवन के आदि और अन्तमें भी ‘उँ’ ही चाहिए। इसकी भद्रिमा मदान् दै। इसकी आकृति भी विचित्र और प्रहृति भी विचित्र। इसका उच्चारण भी विचित्र। यही एक ऐसा अवार है जिसका उच्चारण मनुष्य माना के उदर में सीखता है। यो भी कह सकते हैं कि जब जीव पूर्व शरीर छोड़ता है तब ‘उँ’ का उच्चारण करके छोड़ता है। पूर्व शरीर का अन्त दूसरे

रुरीर का आरंभ होता है। इसी को 'अन्त मरि सो गति' मी कह देते हैं। यह ईधर का नाम है 'तस्य वाचक प्रणव,' 'तज्जप स्तदर्थमावनम्' (योगदर्शन)। लीनो वेदों को श्रीटाया उनमें से यह सार निकला (ध० २। २३। ३)। प्रायः सभी उपनिषदोंमें इसका विविध प्रश्नार से बराँन आया है। नन्हा सा मांहूक्य तो ढँकार की च्याख्या में ही समर्पित है। ढँकार के शाम से सारा वेदान्यास सफल और दसके बिना विफल !

“ऋग्वे अद्धरे परमे व्योमन् ।

कृष्ण अद्वार परम द्योति ॥ १३ ॥ (कन्दित)

यस्तन्न वेद किम् श्रुता कारणतः । भाई ! न जाने अब तुम्हे श्रीविनोदाजी की बत्यना भी सुनाता है । मुझो—
यह वैदिक काल का बूढ़ा बीसवीं सदी में बैसे आ गया । मुझो—
यह वैदिक काल का प्रश्न ज्ञान का प्रश्न है ।

शिष्य—क्या ईश्वर के नामों में ‘ॐ’ नाम ही सर्वथेषु है ?

गुरु—ईश्वर के अनन्त गुण हैं और उन गुणों के वाचक अनन्त हैं नाम। सभी थ्रेषु हैं। साधक अपने में जिस गुण की कभी देखता है, उस गुण के वाचक नाम का अर्थभावना पूर्वक जाप करता है—जिससे वह उस गुण का चिन्तन करता करता स्वयं वैष्णो ही बन जाता है या वह गुण उसमें आजाता है। जैसे भूत से होनेवाले भय का चिन्तन करते करते हम भयभीत बन जाते हैं।

दसवें मन में ईश्वर का ‘तत्’ नाम आया है, पन्द्रहवें मन में ‘सत्य’ और इस मन में ‘ठूँ’। ये तीनों ही ईश्वर के नाम ईश्वर के तीन पहलुओं को व्यक्त करते हैं। ‘ठूँ’ शुभ अशुभ को, ‘तत्’ शुभ अशुभ से पर को और ‘सत्य’ या ‘सत्’ बेवल शुभ को। गीताने इन तीनों को एकत्र करके “ॐ तत् सदिति निर्देशो ग्रहणस्त्रिविद्यः स्मृत ” कहा है।

शिष्य—यहा अन्त में अकेले ‘ॐ’ का स्मरण क्यों किया गया है ?

गुरु—जीवम् जन्म जन्मान्तर में अनेक शुभ और अशुभ सकल्प किय गये हैं, वे सब भूल जायें। इसलिए अतिम प्रार्थना में शुभ और अशुभ को अपने पेट म समा लेने का सामर्थ्य रखने वाले ‘ॐ’ का ही यहा स्मरण करना ठीक है।

शिष्य—यहा जीव को ‘कतु’ शब्द से क्यों सबोधित किया गया है ?

गुरु—‘कतु’ शब्दका अर्थ सदृश होता है। जीवस्वरूप का यह ठीक ठीक और सामिक्षण्यान्तर है। क्योंकि सकल्प ही जीव है और निस्तंत्र-वल्प शिव है। प्रार्थना में ईश्वर से यही माग करनी है कि मेरी माग ही समाप्त हो जाय। माग के साथ साथ ‘मेरी’ (ममता) भी। अर्थात् ‘मम’ के स्थान पर ‘तत्’ हो जाय। ‘तत् मेरा है’ कहन में जो ममता का आभास होता है वह भी न हो ‘मैं तेरा हूँ’ बन जाय। जब ‘मैं’ तेरा बन गया तो मेरे ‘सकल्प’ भी तेरे ही हुए। मेरा कर्म, कर्मका फल, और कर्म करने का सकल्प

सब ‘तू ही तू’ या ‘मैं ही मैं’। ठीक तो है “प्रेम गली अति सांकरी तहै नहिं दोउ समायँ”। सरण रहे-‘कतु’ शब्द वेदों में बहुत बार आता है। उसका सामान्यतया ‘संकल्प’ अर्थ है। पर संकल्प और कतु में सूझ मेद है। ‘कतु’ शब्द ‘क’ है। “यत् कतुर् धातुसे बनने के कारण वह कर्मप्रेरक सकल है। “यत् कतुर् भवति तत् कर्म कुरुते” (बृ० ४।४।५) इस शाक्य में कतु और कर्मका संबन्ध जोखबर बताया गया है। मामूली संकल्प आते हैं और जाते हैं। पर जिस संकल्प के अनुसार मनुष्य किसी कृति का आरंभ करता है, वह कतु है।....संकल्प कतुः असु काम....” का आरंभ करता है, वह कतु है। लौकिक भाषा में (ऐतरेय ३।२) में यही सूक्ष्म मेद अभिप्रेत है। लौकिक भाषा में

केतु-हृषीकल्य या कृतसंकल्प कहा जायगा।
रिष्ट—‘कृतं स्मर’ में अपना किया स्मरण करना है या ईधर का?
गुर—यह अपना रहा ही कहा? ईधर का किया स्मरण करना है।
‘कृत’ शब्दसे नाम, रूप, गुण, कर्म, सभी लेने हैं। ईधर की
कृति को, उसके महान् उपकार को, याद बरें। उसका नाम, उसका
रूप, उसके गुण गावें। अपना सकल्प उसमें विलीन करके देहभाव
भूल जावें। इससे अधिक कल्याणकारी मनुष्य के लिए और कर्म
हो सकता है?

भगवती गीता भी यही कहती है—
— लाहौर माम् अनुस्मरन् ।

“ॐ इत्येकादशरं व्रह्म, व्याहृत्वं मान् अनुसारं ।
याः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ।” ५१६
शिष्य—पाण्डु अन्य पुस्तकों में तो ‘हृते स्मर’ का अर्थ ‘अपना किया

स्मरण कर लिखा है ?
गुरु—जेठा ! यह अंतिम प्रार्थना है यह एक विशेष स्थिति का धर्म
है जो अनुभव गम्य है । यही पहुँचने पर आपना दर्शना दुष्क नहीं
रहता । यदि रहता है तो उसीका ही । भगवान् शक्ताचार्य रहते हैं ।
‘सत्यपि मेदापगमे नाथ । तथादं न मामकीन स्त्वयम् ।

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥

नाय ! क्या हुआ जो हम दोनों एक सर्वं गये ? मिर भी मैं अपवा हूँ, आप मेरे नहीं । तरंगके समुद्र में मिलजाने पर भी 'समुद्र वी तरंग है' ऐसा कहते हैं । पर 'तरंग का समुद्र है' ऐसा कोई नहीं कहता ।

किन्च यहाँ के चौथे चरण के स्थान पर "इब्रे स्मर, कृतं स्मर" यह पाठान्तर है । उसका अर्थ है 'संकल्प, का उच्छ्रेद करने के लिए ईश्वर का किया याद कर' अर्थात् इसमें ईश्वर के स्मरण का हेतु स्पष्ट कर दिया है । "क्रिय्" यह कृदन्त नाम 'क्रिय्' (क्राटना) इस प्राचीन धारुसे बना है । अर्वाचीन संस्कृत में 'क्रिय्' यह इसी धारुका स्वयं आया है । "फलदृप्त-केशा-नराद्यमश्चुः" मनुस्मृति के इस वचन में इसका प्रयोग क्राटने के अर्थ में मिलता है । इस पाठभेदसे यह अधिक स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ईश्वर का किया याद करना है न कि जीवका ।

रिक्ष्य—'कृतो स्मर, कृतं स्मर' का दो खार उच्चारण क्यों किया है ?
उठ—अन्तर्द्वाल में ईश्वर-स्मरण वी अत्यन्त आवश्यकता दर्शाने के लिए । जब किसी बात पर विदेष थल देना होता है तो दिरफ़ की जानी है जैसे 'पहले पहले' ।

स्मरण रहे-इस मंत्र में मोहका पूरा स्वरूप रख दिया है । १. शरीर की राख हो जाय । २. प्राण आदि सूक्ष्म ताह उन-उन देवताओं में लेन हो जायें । ३. ईश्वर के चिन्तन में संहराय उच्छ्रेद हो जाय ।

४. और परमस्ता में मिल जाय ।

रिक्ष्य—'अन्तर्द्वाल में ईश्वर-स्मरण हो इसका क्या उपयय या साधन है ?

उठ—'अन्तर्द्वाल में ईश्वर-स्मरण हो' यदि ऐसी इच्छा है तो ईश्वरस्मरण करो । स्मरणमें स्मरण होता है । तैरने से तैरना अन्ता है और लिपने से लिपना ।

रिक्ष्य—इस स्मरण-संग धरते हैं, पर उत्तमी अंगी क्यों नहीं होती ?

गुर—मैं बेसे-मानूँ। विसी सुन्दर देवी का स्मरण करते हैं तो स्वप्न में मालकी होती है। सहे का स्मरण करते हैं तो भाकी होती है और विसीसे साहाइ-भगवा करते हैं तो भाकी होती है। ईश्वर-स्मरण तो हो पर मालकी न हो, यह कैसे हो सकता है।
रिष्य—आप देखते ही हैं, रोज माला पिराता हैं। फिर भाकी क्यों नहीं होती!

गुर—माला ही पिराते हो स्मरण नहीं करते। स्मरण को भावपूर्वक होता है। जब भाव पैदा होगा तब माला भी भूल जायेगे। माला होता है। जब भाव पैदा होगा तब माला भी भूल जायेगे। काम भाव में स्वर्णस्मरण की माला दूसरे भाव भी भूल जायेगे। काम भाव में अपना-प्रदाया भाव भूल जाते हैं। भाव भूल जाते हैं। क्रोधभाव में अपना-प्रदाया भाव भूल जाते हैं। “जाति भावपूर्वक ईश्वर स्मरण में ऊंचनीच का भाव नहीं रहता।” “जाति पाति का भेद न कोई। हरि को भजे सो हरिका द्वोई”

रिष्य—यह भाव पैदा कैसे हो?

गुर—भावदालों का सम्पर्क साधने से।

रिष्य—यदि ऐसे लोग न मिलें तो?

गुर—सारा जीवन तद्भाव-भावित होना चाहिए। घावे से अत तड़ गुर—सारा जीवन तद्भाव-भावित होना चाहिए। घावे से अत तड़ घावे, निर्मल जीवन व्यतीत करने का यत्न करना चाहिए।

रिष्य—यत्न में सफलता कैसे मिले?

गुर—भगवत्-प्रार्थना से। वह अगले मंत्र में है।

गुर—भगवत्-प्रार्थना से। वह अगले मंत्र में है। विश्वानि देय युनानि विहान् अग्ने नप सुपथा रथे अस्मान् विश्वानि देय युनानि विहान् ॥१॥
युषोद्यस्मज् शुद्धरागमेनो भूयिष्ठां से नम उर्मि विषेम ॥२॥

अर्थ—हे मार्गदर्शक देवीव्यवान् प्रभो, विष में मुने हुए सब
तत्त्व तू जानता है। हमें सरल मार्ग से उस परन आगंद की ओर
तत्त्व तू जानता है। हमें सरल मार्ग से दूर हठा। तेरी हम बर-बर
ले जा। देवा ज्ञानेवाला पाप तू हमें दूर हठा। तेरी हम बर-बर नम वाली से दिनय
मन वालीसे दिनय हरते हैं। तेरी हम बर-बर नम वाली से दिनय

हरते हैं।

रिष्य—यह दूसरी भनविष है?

उह—हाँ यहा अग्नि के प्रतीक में ध्यान करना है। जो अन्तर्यामी अग्निका उद्दीपक है, वही मेरे शरीर का भी उद्दीपक है। 'सत्य' उसकी संज्ञा है। अग्नि और शरीर सुनहरे ढक्कन हैं। दूसरी बात—वेदों की यह रीति है कि जीवन का प्रत्येक महान् कार्य अग्नि की साक्षी में किया जाता है, जैसे-विवाह आदि। उसके अनुसार इस मंत्र में अग्नि से चारित्र्य की प्रार्थना की गई है। अर्थात् यह अग्नि की साक्षिता में चारित्र्य की प्रतिक्षा है।

शिष्य—'अग्निं' शब्द का यहा कौनसा अर्थ सेना है?

उह—'अग्निं' शब्द की निरूपि यास्क ने अनेक प्रकार से दी है। उनमें से 'अग्निं=अप्रणी' यह निरूपि यहाँ लागू होती है। क्योंकि इस मंत्र में अग्निमे मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की गई है। व्युत्पत्ति-शास्त्रके अनुपार 'अग्न्य' (व्यक्त होना=प्रदाशित होना) धातु.से 'अग्निं' शब्द बना है। जो उच्च भी प्रगट हुआ है, उस सब को अग्नि का व्य समझना है। इसके अतिरिक्त अग्नि प्रकाशक होने के कारण जन-स्वरूप भी मना गया है। इसलिए वेदों में उसे 'जात-वेदस्' और इस मंत्र में 'विद्वान्' कहा है। अग्नि शब्द का अर्थ है—'विश्वसे व्यक्त हुआ, विश्वतत्त्व का जाननेवाला, विश्व का मार्ग-दर्शक 'सगुण साकार' परमेश्वर'।

शिष्य—यह 'मुख्य'=पीथा रास्ता कौनसा है?

उह—पद्मद्वये मंत्रका 'सत्यधर्म' वेद-प्रतिशादित 'ऋगुनीति' योग्याद्य का 'यम-नियम,' गीता का 'कार्यिक वाचिक-मानसिक तप' मनुष्य वार्षवर्णिक 'मानव-धर्म' जैन एवं शौदों का 'चारित्र्य,' कुरान का 'सिरात्यन् मुस्लिमीम्' यतों से अनुमूल रूपल 'सिद्धर्थ्य'।

शिष्य—इनमें से शैव पार वरनेत्रसा कौनसा मार्ग है?

उह—त्रिपि परं चतुरं परं वही। जितनी तेजीसे चलोगे उतना ही शैव पहुँच जाएंगे। मार्ग मनुष्य पर नहीं चलता, मनुष्य मार्ग पर चलता है।

शिष्य—छहते हैं दि गाय ठेड़ होना आहिए, राघन भसे ऐसा ही हो।

क्या आप इसे नहीं मानते ?

गुर—कुछ मानता भी हूँ और कुछ नहीं भी । परन्तु श्रीविनोबाजी लिखते हैं वि—यह अम आदिकाल से अबतक चला आ रहा है । उसका विवरण 'सुपथः' शब्द कर रहा है । सध्यता अपवित्रता साथ को दूषित किये बिना नहीं रह सकती, यह शब्द है ।"

शिष्य—आप श्रीविनोबाजी के विवार से सहमत हैं ।

गुर—बिलबुल, सोलह आने । व्योंगि समाज में रहनेवालों पर अदुश दोना ही चाहिए । बिना अंतुश के समुदाय नहा रह सकता ।

शिष्य—जगत में हाथियों का समुदाय=मुढ़ होता है ॥ वह निरदुश कैसे रहता है ?

गुर—इसलिए कि वह जंगल में है जब जगर में आवेगा तो उस पर भी अंतुश रखना ही पड़ेगा । मनुष्य जगली नहीं, किंतु अदुश वी आवद्यकता है । रमरण रहे—अपने पर दूसरों का अदुश आत्मा की आवनति करता है और अपने पर अपना अदुश आत्मा की उच्छिति । अवनति करता है और अपने पर अपना अदुश आत्मा की उच्छिति । अपना या अपनों का अदुभव ही शब्द है । इसलिए शास्त्रीय अदुश अपना या अपनों का अदुभव ही शब्द है ।

उच्छितिकारक है, अवनति कारक नहीं भी ।

शिष्य—आपने कहा था कि 'कुछ मानता भी हूँ और कुछ नहीं भी' नहीं भी कैसे ?

गुर—यह सामुदायिक प्रार्थना है । क्योंकि 'अस्मान्' समुदाय का वाचक है । समुदाय के लिए 'सुपथ' की परम आवद्यकता है । पर कुछ ऐसे महापुरुष भी देखने में आते हैं । जिनका मार्ग 'सुपथ' नहीं कहा जा सकता । जैसे शराब पीना आदि । पर हैं वे बस्तुत महापुरुष ही । मानना होगा कि वह मार्ग व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक नहीं । 'निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधि को निषेध ।' शब्द भी कहता ही है ।

शिष्य—निस्त्रैगुण्ये क्या पहचान है ?

गुर—उसकी पहचान न बरना ही उसकी पहचान है । क्योंकि इस जो

पहचान करेंगे वह गुणों की ही होगी। पर वह तो गुणों से पर है।

अत एव पहचान की आवश्यकता ही नहीं। स्त्रय को पहचानो। शिष्य—रावे=परम आनन्द की ओर में 'रे' का 'परम आनन्द' अर्थ कैसे किया?

गुरु—'रे' और 'रव' ये दो शब्द वेदों में बार बार आते हैं। मूलत एक ही शब्द के ये दो रूप हैं। फिर भी उन में अर्थ की छठाएं भिन्न भिन्न हैं। 'रवि' शब्द का अर्थ समृद्धि होता है। 'रविर् वै पतत् सर्वं यन् मूर्तं च अमूर्तम् च' (प्रथोपनिषद् ११४) अर्थात् मूर्त और अमूर्त सभी 'रवि' है। 'रे' शब्द मुख्यतया आनन्द का वाचक है। उसका दूसरा रूप 'रे' भी होता है। 'रेवा' शब्द में वह दपलबध है। 'रे-शा'=नर्म=दा, आनन्द देनेवाली आनन्दमयी। पर 'रे' और 'रवि' दोनो मूल में एक ही होने के कारण, अर्थ की दोनो छटाओं को मिला कर इस मन्त्र में 'रे' का अर्थ 'परम आनन्द' निराला गया है।

शिष्य—'परम आनन्द' किसे कहते हैं?

गुरु—१६ वें मंत्र में वर्णित 'ईश्वर-दर्शन' और १७ वें मंत्रमें वर्णित 'ईश्वर प्रवेश' ही परम आनन्द है। यही 'रवि' है। "पथा अस्य परमा गति। पथा अस्य परमा सम्पत्। पथ अस्य परम आनन्द। पतस्य पथ आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति" (४० ऋ॒ ३।३।३।) "यो रायोऽवतिर् मदान्" (ऋ॒ १।४।१०)। अर्थात् जो परम आनन्दका धारा है।

स्मरण रह—यहाँ 'रे' शब्द धन के विरोधी रूप में आया है। अर्थात् जीवन का साध्य 'रे' है न कि 'धन'। वर्णित धारा से स्मरणा हुआ धन भी आनन्द का एक साधन हो सकता है। पर तिमक आनन्द की नाय ही उसाह पेंडना है। इस तरह का धन धन ही नहीं, बट भी निघन (विनाश) है। यही उपनिषदों की

आध्यात्मिक भाषा में 'वित्तेपणात्याग' है और मनुजों की सामाजिक भाषा में 'अर्थशुचिता' है। इसी का प्रत्यक्षबोध मंत्र पढ़ले और दूसरे में दिया 'जा चुका' है उसी को ८ वें १५ वें और इस अंतिम मंत्र में सूचना देकर हड़ किया गया है।

शिष्य—पिछले दो मंत्रों में 'अह' 'करो' (मम जीव) आया हुआ एकवचनान्त प्रयोग (अस्मान्) बहुवचन में किस लिए प्रयोग गया?

गुरु—इसलिए कि यह सामुदायिक प्रार्थना है।
शिष्य—ऐसा कहने में क्या आपत्ति है कि ईश्वर-दर्शन (मंत्र १६) और

ईश्वर-प्रवेश (मंत्र १७) से उसके व्यक्तित्व का लोप हो गया?
गुरु—आपत्ति तो विशेष नहीं। पर ईश्वर-दर्शन और ईश्वर-प्रवेश व्यक्तिमुह—प्रार्थना के लिए उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे। ऐसे गत साधन हैं। वे उन उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे। इन के संसारका नाश हो जाने व्यक्ति भी लाखों में एक दो ही मिलेंगे। इन के संसारका नाश हो जाने पर भी दूसरों का संसार तो बना ही रहेगा "कृतार्थं प्रति" "नष्टपर मपि अनप्तं तद् अन्यसाधारणत्वात्" (या. द २१२२) पर चारित्य साधना के लिए ऐसी बात नहीं। वह तो सामुदायिक हो सकती है। हो सकती ही नहीं करनी ही चाहिए। क्योंकि सामुदायिक सकती है। हो सकती ही और कसौटी पर भी चढ़ती है। इसलिए रूप में वह पूर्ण होती है और कसौटी पर भी हो जाती है। यही सामुदायिक एक प्रकारसे वह सुलभ (सुगम) भी हो जाती है। यही सामुदायिक सधना का सुर्पथ है। समरण रहे— पिछले १५ वें मंत्र में सर्वधर्म सधना का सुर्पथ है। और यही सर्वधर्म के आचरण के दर्शन के विषय में प्रार्थना है और यही सर्वधर्म के आचरण

के विषय में।

शिष्य—'वयुन' शब्द का क्या अर्थ है और उसके ज्ञान से क्या लाभ है?

गुरु—'वयुन' में 'वयु' में 'अन' और 'उन' प्रत्यय

गुरु—'व' (व्युना, ग्युना, पिरोना) ये दो शब्द बनते हैं। वयन=व्युने जो इन से 'वयन' और 'वयुन' ये दो शब्द बनते हैं। वयन=व्युने की किया। वयुन उनावट, गूंडन, अनुस्तूल, जीवन में पिरोये हुए या द्वात रखे। इस प्रकार की अनुस्तूलयों (व्युनों) के ज्ञान से वही या द्वात रखे। जितना इनका ज्ञान होता जाता है उनका लाभ है कि जितना जितना

ही कर्त्तव्यमय स्थष्ट होता जाता है। जैसे प्राणिमात्र को (विजीविदा) जीने की इच्छा होती है (मंत्र २), यह वयुन (व्याप्तत्व) समग्र में आजाने पर अंहिसाधर्म प्रवाह से ही प्राप्त हो जाता है। ‘मैं एवं अन्य भूत एक दूसरे से मिले हुए हैं’ (मंत्र ६) यह वयुन जैव जाग्र तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि दिसीके प्रति उग्रप्सा-पृणा न करें।

शिष्य—‘युयोधि’ कियासे क्या तात्पर्य निकलता है?

गुरु—‘यु’ (दूर करना) धातुका यह रूप गाना जाता है। पर—‘यु॒ (लड़ना) धातुका भी यह रूप हो तो वैदिक व्याकरण कोई इकायट नहीं ढालेगा। इसलिए दोनों अर्थों को मिलाऊ इसका अर्थ ‘सदेद-देना’ करना योग्य है। साधक को ईधर-स्मरण-पूर्वक पाप से निरंतर लान्ते रहना चाहिए, यही इस प्रार्थना में शार्दूल ‘युयोधि’ कियासे तात्पर्य निकलता है। “तस्मात्स्वेषु कालेषु, भावनुस्मर युध्य च”

(गी० ३१७)

शिष्य—‘जुहुराणम् एनः’ का मतलब?

गुरु—एनस् (पाप) की ‘जुहुराणम्’ वयार्थ व्याख्या है। “हृ” पुटिल-पती” से “जुहुराणम्” बना है। जिसका अर्थ ‘टेदाजानेवाला’ है। टेदापन ही पाप है और सरलता पुण्य है। वेदों में पाप की ‘हुरित’ और पुण्य की ‘ुवित’ संज्ञाएँ आती हैं, इनका अवरणः अर्थ हुरित=टेदाजाना, और उवित=प्रीपा जाना ही है।

शिष्य—यही ‘नम उक्तिम्’ की क्या आवश्यकता पड़ी?

गुरु—यही मन की प्रतिशो स्तो है। प्रतिशो के लिए नमता का सहारा आवश्यक है। प्रतिशो नया नमतादी सहायता से मन की रधा होती है। यही ‘रामरक्षा’ मंत्र है और यही ‘अग्निसाक्ष्य’ है।

शिष्य—इस से प्रतिशो क्यों मर्दा होती?

गुरु—इस ‘महान्’ नहीं इमन्निए।

शिष्य—‘महान्’ क्यों बना जाता है?

शुद्ध—प्रतिज्ञा से । सुनो—अद्वा के बिना वीर्य=बत्साह नहीं होता, बिना वीर्य के धैर्य नहीं होता, बिना धैर्य के प्रतिज्ञा नहीं होती, बिना प्रतिज्ञा के महान् कार्य नहीं होता, और बिना महान् कार्य किये कोई महान् नहीं बनता ।

शिष्य—ऋग्वेद (१।१८।१) में यह मंत्र, हाथ से कोई निन्दित कर्म हो जाने पर या मार्गप्रसंश हो जाने पर जप के लिए कहा है । यहाँ तो कोई ऐसा कर्म नहीं बना, फिर यहाँ यह मंत्र क्यों ?

गुरु—वहाँ इस मंत्र का नैमित्तिक विनियोग है और यहाँ यह मंत्र जीवन में नित्य का मार्ग दिखानेवाला साथी है ।

योद्धाओं पाठ-भेद क्षेत्र में तो यह उपनिषद् यजुर्वेद का अतिम अध्याय है । इसलिए यह मंत्र भी यजुर्वेदगत ही है । पर मूल यजुर्वेद में यह ऋग्वेद से ही अवतरित हुआ है ।

शिष्य—माध्यंदिन पाठ में “ॐ खं ब्रह्म” यह अतिम निर्देश है । पर इस उपनिषद् में तो ‘ब्रह्म’ शब्द ही नहीं आया । इसका क्या समाधान है ?

गुरु—“ॐ ख ब्रह्म” में लङ्घार का सप्रद सन्त्रहवें मन्त्र में हुआ है । यद्यपि ‘ब्रह्म’ पद का स्वरूप से उल्लेख नहीं आया तो भी मन ४-५ का ‘ब्रह्म’ पद का स्वरूप से उल्लेख नहीं आया तो भी मन ४-५ का नपुसकलिंगी प्रयोग उसीको सम्म करता है (देखो मन्त्र ४) । शेष रहा अन्यथा ब्रह्म की व्याप्ति के आगे आकाश की गिननी ही क्या ? अन्यथा ब्रह्म की व्याप्ति के आगे आकाश की गिननी ही क्या ? (देखो मन्त्र ५)

१६-१७-१८ यह यानश्चयो मिलाकर एक सम्पूर्ण विन्तन है ।

लङ्घारकी तीन ग्रन्थाएँ—भू, सुव, स्व ।

इन के आधिमीतिक अर्थ-पृथ्वी, अतरिक, स्वर्ग ।

अधिरैत अर्थ-अग्नि, वायु, सूर्य ।

” अध्यात्म अर्थ-शरीर, प्राण, बुद्ध ।

” सापने तो एक दिन कहा था कि अब भगवान् का मन न लगा

शिष्य—

तो उसने भावना की “एकोऽहं यहु स्यां प्रजायेय” फिर अनेक रूप गढ़ लिये गये और उनकी पहचान के लिए उनके नाम रख दिये। अर्थात् १- भगवान्, २-भावना, ३-रूप, ४-नाम। पहले एक नाम पकड़ो, फिर उसके अनुसार रूप की कल्पना करो। उस रूप के साथ कोई न-कोई सम्बन्ध जोड़ो—यही भाव है। इस भाव में इन्हें तेनमय हो जाओ कि अमरेंट की तरह ‘सोऽहं’ बन जाओ। पर इस उपनिषद् में (तथा वेदों में) तो अनेक देवताओंके नाम भरे पड़े हैं। यह कैसी उल्लम्फन?

पुछ—यदा, यह उल्लम्फन नहीं सुलभन है। वेद कहता है “एकं सद् विप्रा यहुधा यदन्ति” परमेश्वर एक है उपासकोंने उसे अनेक नाम दिये हैं। सम्पूर्ण परमेश्वर एक ही अभिव्यक्ति में न समाने के कारण पहले हम उसकी भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों का विभेदण करें, बदल में उन सब का संस्थेशण करें। अन्न में उसके भी पार जा कर ‘सोहमस्मि’ के अनुभव में छुल जायें। इस प्रकार यह परिपूर्ण उपासना प्रक्रिया है। इसका विवरण मंत्र १६ में हो चुका है।

वेदार्थ-भीमासा के आचार्य जीमिनि ने अमिन वाचक ‘वैश्वानर’ शब्द की चर्चा करते समय यहा है कि यदि ‘वैश्वानर’ शब्द को अस्तर्थ के भी साक्षात् ईश्वर-वाचक समझा जाय तो कोई अपर्ति नहीं (प्र० सू. ११३।१२८)। यही न्याय व्यपक करते—

स्य=वाच्यार्थ से ‘प्रेरक’ परमेश्वर।

अनिल=वाच्यार्थ से ‘वैतन्यमय’ परमेश्वर।

अग्नि=वाच्यार्थ से ‘देवीन्यमानभागदशंक’ परमेश्वर।

ये अर्थ घन में रखने में सब सफल हो जाता है।

शिष्य—क्या एर्य अदि विदेष अभिष्ठिति अर्थ महों सेवा?

पुछ—क्यों नहा सेवा, सेवा है। यह एक व्यपक समन्वय-दर्शन है। इसीलिए इस अनेक प्रदेशों के नाम भी में “देवा वास्य-दर्शन” ही रहता।

प्रिय— इस उपनिषद् के अंत में ‘पदाभ्यास’ क्यों नहीं?

युह—श्रीविनोबाजी का कहना है कि “उपनिषद् आदि की समाप्ति में अंतिम एक दो पदों की द्विहक्षिक करने की रुदि है। यही शास्त्रीय भाषा में ‘पदाभ्यास’ है और वह समाप्ति का सूचक माना जाता है। इस प्रकार का पदाभ्यास ईशावास्य के अंत में दिखाई नहीं देता। पर १७ वें मंत्र में पाया जाता है। क्योंकि यह अठारहवाँ मंत्र ईशावास्य ने विषय की पूर्ति के लिए ऋग्वेद से सीधा ले लिया है। उस के बिना ईशावास्य का विवेचन अपूर्ण ही रहता, इस कारण यह ईशावास्य का अंगभूत ही है, पीछे से जोहा हुआ नहीं। पर अठारहवें मंत्र के अंत में पदाभ्यास क्यों नहीं? वह इस प्रकार ध्यान में आता है। काकायदा पदाभ्यास क्यों नहीं? वह इस में न होने पर भी उस के बदले तदन्तर्गत “भूयिष्ठां पदाभ्यास इस में न होने पर भी उस के बदले तदन्तर्गत “भूयिष्ठां ते नम उक्तिम्” ये दो प्रन्थ की परिसमाप्ति सूचित करते हैं।”

शिष्य—यदि तो श्रीविनोबाजी का वर्थन हुआ, आप का क्या कथन है।
गुरु—मेरी समझ में 'पदाभ्यास' को रुद्धि न कह कर भाव प्रगट करने का

—मरा उमरना । ॥१॥ स्वाभाविक प्रकार कहना चाहिए । हड़ि उस लाल का नाम है जो बिना किसी भाव के नल पड़ी हो । हर्ष के भाव में 'बाह बाह' कोध के भाव में 'मारो मारो' भय में 'साप साप' किसी खात पर जोर देने के लिए में 'पढ़को पढ़को' आदि में स्वाभाविक द्रिढ़ता हो जाती है । 'पदाभ्यास' में भी समाजिक दृष्टि, वही कहीं भक्ति का उद्देश, ईश्वर-दर्शन का उल्लास, में भी समाजिक दृष्टि, कहीं भक्ति का उद्देश, ईश्वर-दर्शन का उल्लास, सफलता की प्रसक्तता आदि भाव रहते ही हैं । 'गीता प्रवचन' के अन्त में श्रीविनोबाजीने यहाँ है कि "अब तो सब 'तूही, तूही, तूही'" यह है हृदय की वाणी । उचारणमान से हृदय भर आता है, पुस्तक हाथ से निर पड़ती है, उन की अद्देतुकी दया का स्मरण आते ही शब्द रुक जाता है और गता है जाता है । श्रीविनोबाजी का हृदय तो तीन ही धाराओं में कूट कर यहाँ है । पर भगवान् का विद्युत्प्रदेशने के बाद अर्जुन की तो विलक्षण ही स्थिति हो गई । मावका सागर ही उमर पड़ा । वह बोल उठा—

“नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।
नम पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते,
नमोस्तु ते सर्वते पव सर्व ।”

वैसा है यह पागलपन । एक प्रणाम नहीं, हजारों । वे भी एक और से नहीं चारों ओर से । एक ही बार नहीं किन्तु भूय । यह है दर्शन वा उत्तरास : ठोक इसीप्रसार ईशावास्य के अन्त में भी हुआ है । यह भावो-द्रेक द्विरक्षि में समानेवाला नहीं : अर्जुन तो एक था, यहां तो समुदाय है—‘अस्मान्’ है । इस लिए वह भाव “भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम” के रूप में कृप दिया । यह वर्तमान की ‘श्री १००८’ या ‘अनन्तधीविभूषित’ वाली हृदय हीन रक्षि नहीं, किन्तु इस में हृदय की भाँची होती है । अस्तु, आओ बेटा, अन्त में हम भी मिलकर कहें कि—

“एक मंथ औ ध्यान एक है, यही एक पूजा तेरी ।
युग युग यही रहे घस मां ! अब, मैं बेटात् मां मेरी ।”

ॐ । पूर्णमद् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

(इच्छा अर्थ आरंभ में दिया है ।)

* ॐ तत्सत्, श्रीराधाहृष्णार्पणमस्तु *

परिशिष्ट

शिष्य—गुरुदेव ! एक बात पूछूँ ? यदि इष्ट न हों तो ।

गुरु—मूँछों बेटा, रुठने की क्या बात है ।

शिष्य—पर सोग ‘इन्द्रियों’ बोलते और लिखते हैं । पर आप ‘इन्द्रियें’ क्यों बोलते हैं ?

गुरु—अच्छा, तुम्हीं बताओ कि ‘इन्द्री’ शब्द होता है या ‘इन्द्रिय’ ?

शिष्य—‘इन्द्रिय’ ।

गुरु—तब तो ‘इन्द्रियें’ ही बोलना और लिखना ठीक है । कुछ लोग तो अभी तक भी ‘विधियां’ के स्थान पर ‘विधियें’ बोल और लिख रहे हैं, एवं ‘श्रुतियें’ ‘सूत्रियें’ आदि । जीलिंग अकारान्त शब्दों के अन्त में (प्रथमाके बहुवचन में) ‘एं’ होता है; जैसे पुस्तकें, सदकें आदि । हाँ, पंजाबी में-पुस्तकों सहका-इन्द्रियां आदि अवश्य होता है । अस्तु, यह आपना ग्रहण विषय नहीं । इसलिए कोई दूसरी बात पूछो । यदि तुम्हें इस विषय का रस हो तो थोरामध्यन्द बर्मी की ‘अच्छी-हिन्दी’ अथवा आपनी ‘आदर्श हिन्दी’ नामक पुस्तक देखनी चाहिए ।

शिष्य—अच्छा, आपने उपोद्घात में कहा था कि “यह उपनिषद् गीता की जननी है ।” पर सोक में देखते हैं कि माँ बड़ी होती है और बेटी छोटी । यहा माँ छोटी है और बेटी बड़ी ।

गुरु—जब हम ‘जननी’ के लिए ‘बड़ा’ शब्द का प्रयोग करते हैं; तब हमारा तात्पर्य ज्येष्ठता (चालकृत बहप्पन) से होता है जब कहते हैं कि ‘गोता बड़ी है और उपनिषद् छोटी है’ तब हमारा अभिप्राय आवार से होता है । देखा जाय तो माँ की अपेक्षा बेटी का ही आकार बड़ा होता है जैसे बीज से रुक्ष का । बेटी के ही आगे शास्य-प्रशास्याएं चलती हैं । यह दूसरी बात है कि विसी छोटी अपेक्षा वह बेटी भी माँ होती हो ।

रिष्य—आप बताइएगा कि यह जननी कैसे है ?

गुरु—तुम्हीं कहो कि यह जननी कैसे नहीं ?

रिष्य—“विस्त्रित सशरण चरणं, शोक-संविद्वा-मानसः” यह गीता के प्रथम अध्याय का उपक्रम (आरंभ) और अठारहवें अध्याय का “नष्टो मोहः स्मृतिः लब्धा, त्वत् असादाद् मयाऽच्युतः”

यह उपसंहार (समाप्ति) ईशावास्थ में कहा है ?

गुरु—यदि तुम्हारी हाँटि बीज में उक्त देख सकती हो तो देखो ईशावास्थ के ७ वें मंत्र के ‘तत्र को मोहः कः शोकः’ में गीता का उपक्रम और उपसंहार।

रिष्य—गीता के दूसरे अध्याय की ‘सांख्यवुद्धि’ और ‘योगवुद्धि’ इसमें कहा है ?

गुरु—मंत्र ६ से १८ तक वर्णित ‘वुद्धिशोधन’ और ‘हृदय-शोधन’ सांख्यवुद्धि और योग वुद्धि नहीं सो और क्या है ?

रिष्य—तीसरे अध्याय के ‘कर्मयोग’ की ‘नहिं कश्चित् शणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मण्ट्’ (३-५) ‘नियतं कुरु कर्म त्वम्’ (३-८) ‘कार्यं कर्म समाचार’ (३-११) ‘नहिं देहभृतम् शक्यं, त्यजनुं कर्माण्यशेषतः’ (१८-११) आदि आज्ञाएं इसमें कहा हैं ?

गुरु—दूसरे मंत्र के ‘एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति’ में

रिष्य—चौथे अध्याय का ‘परिव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्’ अर्थात् दुष्टता-नियमन और साधुता-प्रेरण हप दुहरा अवतार कार्य इसमें कहा है ?

गुरु—सोहहवें मंत्र के ‘यम सूर्य’ इन दो विवेकों में। यम=नियमन-कर्ता (अग्रुन की ओर से) सूर्य=पर्वत-कर्ता (शुभ की ओर)।

रिष्य—पाचवें अध्याय का ‘पद्यन् शृण्यन् सृष्टशन्’ आदि झेयवर्णन इस में कहा है ?

गुरु—मंत्र योग और पाचवा देखो।

शिष्य—छठे अध्याय का 'आत्मौपद्येन सर्वत्र सर्वं पद्यति योऽर्जुन !'
एवं 'सर्वभूत-स्थितं यो मां, भजत्येकत्वं भास्थितः' यह आत्मौ-
पद्य और साम्ययोग कहा आता है ?

गुरु—मत्र छठे 'सर्वभूतेषु चात्मानम्,' और सातवें 'पक्त्वमनु-
पद्यत-' में देखो ।

शिष्य—सातवें अध्याय की त्रिगुणमयी माया (योगमाया) कहा आती है ?

गुरु—पन्द्रहवें मंत्र का 'द्विरणमयपात्र' ही योगमाया है ।

शिष्य—आठवें अध्याय में वर्णित प्रयाण स्थाधना (सातत्ययोग) इस में
कहा आता है ?

गुरु—मंत्र १६वें के 'यायुरनिलम्' में देखो ।

शिष्य—नवम अध्याय की राजविद्या (सर्वपर्णयोग) कहा आता है ?

गुरु—पहले मंत्र के तीसरे पाद 'तेन त्यक्तेन भुंजीथा' में ।

शिष्य—इसवें अध्याय का 'विभूतियोग' और चारहवें अध्याय का
'विश्वरूपदर्शनयोग' कहा आता है ?

गुरु—मंत्र सोलहवें के 'व्यूह' शब्द में दसवाँ अध्याय और 'समूह'
शब्द में चारहवाँ अध्याय आ गया ।

शिष्य—चारहवें अध्याय के 'लोकान्मोद्दिजते च यः' आदि भक्तलक्षण
इस में कहा है ?

गुरु—छठे मंत्र के 'ततो न विजुगुप्तते' में । ३१३६

शिष्य—तेरहवें अध्याय का क्षेत्र-क्षेत्रश-विवेक कहा आता है ?

गुरु—आठवें मंत्र के 'अकायम् अव्याप्तम् अस्त्वाविरम्' में ।

शिष्य—चौदहवें अध्याय का 'मूढयोनिषु जायते' वाला गुणविभास
इस में कहा है ?

गुरु—तीसरे ५६ के 'अन्धेन तमसावृताः' में देव सर्वते हो ।

शिष्य—पन्द्रहवें अध्यायका 'पुरुषोत्तमयोग' कहा देये ?

गुरु—१६वें मंत्र के 'योऽस्त्वौ असौ पुरुषः सोऽहमस्मि' में देखें ।

शिष्य—१६वें अध्याय की 'आसुरो सम्पत्तिः' की गति कहा दूँ ?

गुरु—तीष्ठे मंत्र के ‘असुर्या नाम ते लोकाः’ में ।

शिष्य—सनहवें अध्याय के ‘ॐ तत् सत्’ इस व्रद्गनिर्देश के दर्शन कहा करें ?

गुरु—दसवें (ये नः तत् विचरक्षिरे) मंत्र का ‘तत्’, १५वें (सत्य स्था पिहिते मुखम्) मंत्र का ‘सत्य’ और १७वें (३० कठो स्मर) मंत्र का ‘३०’ मिलाकर ‘ॐ तत् सत्’ बनालो । [यहा ‘सत्’ शब्द के स्थान पर ‘सत्य’ शब्द का प्रयोग हुआ है]

शिष्य—अठारहवें अध्याय का सङ्केत कहा आता है ?

गुरु—वता तो दिया कि अठारहवा अध्याय गीता का उपर्युक्त है । जहाँ पहला अध्याय आता है वहाँ अठारहवाँ ।

शिष्य—ठीक ही श्रीविनोदाजीने लिखा है कि “ईशावास्य वेदोंका सार है और गीता का वीज” ।

गुरु—ठीक ही नहीं, बिलकुल ठीक । मैंने ‘वीज’ शब्द के स्थान पर ‘ज्ञनी’ शब्द रख दिया है ।

शिष्य—गीता में ‘भीमांसा’ शब्द क्यों नहीं आया ?

गुरु—ईशावास्य में नहीं आया इसलिए ।

शिष्य—अच्छा तो बताइए मंत्र ८, १०, ११, का ‘अविद्या’ शब्द गता में क्यों नहीं आया ?

गुरु—इसलिए कि यहा का ‘अविद्या’ शब्द उस अर्थ में नहीं आया जिस अर्थ में दूसरे शरणों पर आता है । यही कारण है कि यहा के विद्या और ‘अविद्या’ शब्द का अर्थ करते समय टीकाकार वक्तुर में पड़ गये ।

शिष्य—गीता में इस ‘अविद्या’ शब्द का क्वेनसा पर्याय आया है ?

गुरु—‘अविद्या’ का अर्थ है-प्रनावद्युष शान का चिन्तन न करना-भूल जाना । इसी ही गताने न किञ्चित्थपि चिन्तयेत् कहा है; अर्थात् अर्थ शान का-जो बुद्धि पर भार हो-चिन्तन मत करो ।

शिष्य—ऐसे ही एकदो उदाहरण और दूसिए जिस से ईशावास्य में गौतम की पांडी हो सके ?

उह—सुनो, ईशावास्य के ‘ईशावास्य मिदं सर्वम्’ को गीताने ‘वामुदेव सर्वम्’ (५-१६) ‘न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूत चराचरम्’ (१०-३६) ‘विष्ण्याहमिदं कृत्स्नमोक्षाशेन स्थितो जगत्’ (१०-४२) कहा है। ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’ को ‘भुजते ते त्वरं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्’ (३-१३) ‘मा गृधं कस्य स्विद् धनम्’ को ‘समलोक्यामन्वाचन’ (६८) (१४-२४) ‘यदच्छालाभ सन्तुष्ट’ (५-१२) एवं ‘न कर्म लिप्यते नरे’ को ‘न मां कर्मणि लिम्पन्ति’ (५-१४) ‘कुर्वन्नपि न लिप्यते’ (५-१०) ‘न करोति न लिप्यते’ (१३-३१) कहा है। ईशावास्य के ‘‘तत्र को मोहः क शोकः’ का भाष्य गीताने इस प्रकार किया है कि ‘न शोचति न कांहति’ (१८-५४) ‘नाभिनन्दति न द्वेष्टि’ (२-५७) ‘न द्वेष्टि न काञ्चति’ (५-६) न द्वेष्यकृशलं वर्म दुश्ले नानुरज्यते’ (१८-१०) ‘न प्रहृष्येत् प्रिय प्राप्य, नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्’ (५-२०) आदि। ईशावास्य के भक्त की ‘युथोध्यस्मज्जुहुराणमेनः’ वाली प्रार्थनाने गीता में आकर भगवान् की आङ्ग का रूप घारण कर लिया ‘मामनुस्मर युध्य च’ इति (७-७)। कि बहुना, चिरजीव। अपने चक्रुच्चो पर चिरन्तन चिन्तन का चक्रा चढ़ा कर देखो, तुम्हें ईशावारण के प्रत्यक्षर में गीता वृक्ष की प्रलय भाँकी होगी।



ईशावास्योपनिषद्

शब्दार्थ सहित

शिख—गुरुदेव ! आपने मत्रों का अर्थ तथा मावार्थ तो समझा ? पर
प्रत्येक शब्द का अर्थ भी समझने की कृता कीजिएगा ?
युद्ध—अच्छा मुझे—

ॐ पूर्णमद् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते ।
पूर्णस्य एवं मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते ॥

ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ।

ॐ=(सच्चिदानन्द घन) अद्=यद (परब्रह्म), पूर्णम्=पूर्ण है,
इदम्=यह (जगत् भी) पूर्णम्=पूर्ण है । पूर्णात्=पूर्ण से, पूर्णम्=पूर्ण,
उदच्यते=निष्पत्त होता है । पूर्णस्य=रूप में से, पूर्णम्=पूर्ण आदाय=
निराल लें (तो भी) पूर्णम्=पूर्ण, एव=ही, अवशिष्यते=शेष (भाव)।
रहता है । ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ।

सपूर्णं जीवनं दर्शनं (मन १०३३)

ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यन्मित्य जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृह्य कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

ॐ । जगत्याम्=जगत् में, यत् किं च=जो पुष्ट जगत्=जीवन
है, इदम्=यह, सर्वम्=सर्व ईशावास्यम्=ईश्वर का बगाया हुआ है,
तेन=इसलिए, त्यक्तेन=उगरे नामसे त्याग रहके त् यथ प्रत,
भुजीथा=भोगना जा । कस्यमित्यन्=किसी के धनम्=घनके प्रत,
मा गृह्य=वापना न रम ।

कुर्यान्नेष्येद् कर्माणि जिजीविषेन छत समा ।

पथ त्ययि नान्यथेतोःमिति न कर्म लिप्यते नरे । २॥

इद=इष लाल म., कर्माणि=कर्म, कुर्यान्=हरते हरते, पथ=ही,
शतम्=साँ, समा.=ए त त, जिजीविषेन=भीने ही इदा हरे,
त्ययि-नुम दरवन् के लिए, पथम्-ही मार्ग है । इता-इतो,
नान्यथा-मिति मार्ग न भक्षिन्ननहीं । नरे=मनुष्य हो, कर्म=कर्म, न-

नहीं, लिप्यते=चिपकता (फलवासना चिपकती है) । २।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः

तां स् ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥३॥

आत्महन =आत्मज्ञानसे शानुता करने वाले, ये के च=जो बोई,
जना =आत्म घातकी जन हैं। ते=ते, प्रेत्य=देहपातवे बाद, अन्धेन=
गाद, तमसा=अधकारणे, आवृताः=घिरी हुई असुर्या=असुरी कही
जानेवाली, ते=गसिद्ध लोका =योनिषा है अभिगच्छन्ति=(उनकी ओर)
मुड़ते हैं । ३।

अत्मा की महिमा (मन ४-५)

अनेजदेकं मनसो जीवीयो नैनद् देवा आप्नुयन् पूर्वमर्पत् ।
नद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्या दधाति ॥४॥

तत्-वह (आत्मतत्त्व) पक्षम्=एक ही एक, अनेजत्=यज्ञानुन
चलन वलन न करने वाला किन्तु, मनस्=मनसे भी, जघीय=अधिक
योगवान् है। देवा=देव (इन्द्रिय) पत्=उसे, न आप्नुयन्=यह
नहीं सकते, (उस्टा उसने ही देवों को) पूर्वम्=भीमे, अर्पत्=परद
रखा है। अन्यान्=रूपरे, धावतः=शीढ़नेवालों की, तत्=ह, तिष्ठत्=
खड़ा रहा ही, अत्येति=वीक्षे इह जाता है, मातरिष्या=प्रवृत्तमाता
की गोदमे रोलनेवाला प्राण, तस्मिन्=इसकी सत्ता पर, अप्=हलचल,
दधाति=रहता रहता है । ४।

तदेजति तन्नेजति तद् दूरे तदन्तिके ॥

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य यात्यतः ॥५॥

तत्=ह, पज्जति=हल-चल वरता भी है और तत्=ह, न
पज्जति=हल चल नहीं भी वरता। तत्=ह, दूरे=हर भी है और
तत्=ह, उ=आयम्, अन्तिष्ठे=गास भी। तत्=ह, अस्य=ह
सर्वस्य=पव के, अन्तर्=भीतर भी है और तत्=ह, अस्य=ह,
सर्वस्य=पव के उ=विलक्षण, यात्यतः=शाहर भी है । ५।

आत्मज्ञ पुरुष (मन ६७=)

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपदयति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततौ न विजुगुप्सते ॥६॥

तु-परन्तु, य=जो, आत्मनि=आत्मा में पव=ही, सर्वाणि=समस्त, भूतानि-भूत, च=और सर्वभूतेषु=सब भूतों में, आत्मानम्=आत्मा को, अनुपदयति=निरन्तर दखता है, तत्=कि वह, न विजुगुप्सते=किसीसे ऊंचता नहीं । ६ ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि अत्रैवाऽभृद्विजानतः ।

तत्र को मोह क शोक पश्चत्वमनुपदयत । ७॥

यस्मिन्=जसकी हृष्टि से, आत्मा पव=आत्मा ही, सर्वाणि=सब, भूतानि=भूत, अभूत्=ही रहा है । तत्र=उस, अनु=निरन्तर पक्षत्वम्=एकत्र, पदयत्=देखनेवाले, विज्ञानतः=विज्ञानी पुरुष को, मोह कः ?=मोह कहा ? और शोक कः=शोक कहा ?

स पर्यात् शुश्रमकायमग्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्म् ।
कविर् मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतोऽथान् व्यदधात्

छावतीभ्यः समाभ्यः । ८॥

स=वह (आत्मज्ञ पुरुष) शुश्रम्=जैतसी, अकायम्=दहरहित इसलिए अप्रणाम्=यण आदि दह दोषों से तथा अस्नाविरम्=स्नायु आदि दह गुणों में सर्वपा अनिः, शुद्धम्=शुद्ध और आपापविद्म्=आप ऐप-मुक, ऐसे आत्मनश्च को पर्यात्=न रो और से घेरकर घेड गया । कविः=है वह कवि छन्तशरी, मनीषी=शशी, परिभूः=प्रक और स्वयम्भूः=मनान्त्र हो गया । उसने शाहदतीभ्य समाभ्यः=यात्राकाल तक ठिकनेवाले, अथान्=सब अम याथातथ्यतः=यथ वह, व्यदधात्=शाप लिये । ८ ।

बीद्रक साधना और आत्मज्ञ (मन ६-१०-११)

अन्यं तमः प्रयिष्यन्ति ये अविद्यामुणासते ।

ततो भूय इय से तमो य उ पिद्याया रहतः । ९॥

ये-ओ, अविद्याम्=अविद्या में, उपासते भूय गये थे, अन्यम्=

और, तम्=अंधकार में, प्रविशन्ति=चले गये। ये=जो, विद्याम्=विद्या में, रता=रम गये, ते=ते, ततः=उससे, उ=भी, भूयः इव=मानो और तर, तमः=अधकारमें चले गये। ६।

अन्यदेवाहुर् विद्या अन्यदाहुरविद्या

इति शुश्रुम घीरणां ये नस् तद् विचचक्षिरे ॥१०॥

विद्या=विद्या से (आत्मतत्त्व को) अन्यत् पद्य=भिज है, आहुः=इह है और अविद्या=अविद्या से, अन्यत्=भिज कहा है। ये=जिन्होंने, न=हमको, तत्=उसका विचचक्षिरे=दर्शन कराया है, घीरणाम्=उन धौर पुरुषों से. इति शुश्रुम=(हमने) ऐसा सुना है । १०।

विद्यां चाविद्यां च यस् तद् वेदोभय सह ।

अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥११॥

विद्याम्=विद्या च=ओर, अविद्याम्=अविद्या, उभयं सह=इन दोनों के साथ, य=जो, तत्=उस आत्मतत्त्व को, वेद=जानते हैं, (वे उस आत्मतत्त्व के सहारे) अविद्यया=अविद्या से, मृत्युम्=मृत्यु को, तीत्वा=पर करके, विद्यया=विद्या से, अमृतम्=अमृत को अश्नुते=पते हैं । ११।

हादिछ साधना और आत्मज्ञान (मन्त्र १२ १३ १४)

अन्यं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिसुपासते ।

ततो भूय इव ते य उ संभूत्यां रता. ॥१२॥

ये=जो, असंभूतिम्=निरोध गं, उपासते इव गये वे, अन्यम्=गाढ, तम्=अधकार में, प्रविशन्ति=हैठे। ये=जो, संभूत्याम्=विद्या से में, रता=रम है, ते=ते ततः=उससे, उ=भी, भूय इव=मानो और तर अधकार में हैठे । १२।

अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रुम घीरणां ये नस् तद् विचचक्षिरे ॥१३॥

सम्भवात्-(आत्मतत्त्व को) विद्या से, अन्यत्=भिज, पद्य=ही, आहुः=इह है और असम्भवात्=निरोध से, अन्यत्=भिज, आहुः=इह

आत्मज्ञ पुरुष (मंत्र ६-५-५)

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येयानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते ॥६॥

तु-परन्तु, य=तो, आत्मनि=आत्मा में पश्य=ही, सर्वाणि=मस्त, भूतानि-भूत, च=और सर्वभूतेषु=मब भूतों में, आत्मानम्=आत्म को, अनुपश्यति=निरन्तर देखता है; ततः=फिर वह, न विज्ञुगुप्सते=किसीसे लगता नहीं । ६ ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि अत्मैधाऽभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक पक्षत्वमनुपश्यतः ॥७॥

यस्मिन्=जैसकी इष्टमे, आत्मा पश्य=आत्मा ही, सर्वाणि=सब, भूतानि=भूत, अभूत्=ही रहा है । तत्र=उस, अनु=निरन्तर पक्षत्वम्=एकत्व, पश्यतः=इतनेकाले, विजानतः=विज्ञानी पुरुष को, मोहः कः ?=मोह कहा ? और शोकः कः=शोक कहा ?

स पर्यगात् शुक्रमकायमवणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्म् ।
कथि॒ र मनीषी परिभूः स्वर्यभूः याथात्थ्यतोऽर्थात् व्यद्यात्

छायतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥

स-वह (आत्मज्ञ पुरुष) शुक्रम्-जैसकी, अकायम्=इहरहित इसलिए अवणम्=वण अदि देह-दीयों से तथा अस्नाविरम्=स्नानु अदि देह-शुणोंमे सर्वया अतिस, शुद्धम्=शुद्ध और अपापविद्म्=गाव-बैश्य-मुहू, ऐसे आत्मनात् को पर्यगात्=वरो और से पेक्षक बैठ गया । कथि॒ रैद॑ कवि कल्पदर्शी, मनीषी॒=गरी, परिभूः॒=गणक और स्वर्यभूः॒=वतन्त्र हो गय । उसने शाद्वतोभ्य समाभ्यः॒=परावर, व्यद्यात्॒=गाप लिये । ८ ।

बैद्ध गापना और आत्मज्ञ (मंत्र १-१०-११)

अन्यं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ।

ततो भूय इथं ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥

ये-ओ, अविद्याम्=परिषद् वे, द्वयासने॒=इव गये वे, अन्यम्-

थोर, तम्=अधकार में, प्रविशन्ति=चले गये। ये=जो, विद्यायाम्=विद्यामें, रता.=रम गये, से=वे, ततः=उससे, उ=भी, भूयः इव=मानो थोरतर, तमः=अधकारमें चले गये। ६।

अन्यदेयाहुर् विद्यया अन्यदाहुरविद्यया

इति शुश्रुम धीराणां ये नस् तद् विचचक्षिरे ॥१०॥

विद्यया=विद्यासे (आत्मतत्त्व के) अन्यत् इव=भिज ही, आहुः=हहा है और अविद्यया=अविद्या से, अन्यत्=भिज कहा है। ये=जिन्होंने, न=हमको, तत्=उसका विचचक्षिरे=दर्शन कराया है, धीराणाम्=उन धीर पुरुषों से, इति शुश्रुम=(हमने) ऐसा सुना है । १०।

विद्यां चाविद्यां च यस् तद् वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥११॥

विद्याम्=विद्या च=धीर, अविद्याम्=अविद्या, उभयं सह=इन दोनों के साथ, ये=जो, तत्=उस आत्मतत्त्व के, वेद=जानते हैं, (वे उस आत्मतत्त्व के सहारे) अविद्यया=अविद्या से, मृत्युम्=मृत्यु को, तीत्वा=पार करके, विद्यया=विद्या से, अमृतम्=अमृत को अश्नुते=पाते हैं । ११।

हादिक साधना और आत्मज्ञान (मन्त्र १२-१३-१४)

अन्यं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव से य उ संभूत्यां रताः ॥१२॥

ये=जो, असंभूतिम्=बिरोध में, उपासते इन गये वे, अन्यम्=गाढ, तम्=अधकार में, प्रविशन्ति=हैं। ये=जो, संभूत्याम्=विद्यास में, रताः=रम रहे, से=वे ततः=उससे, उ=भी, भूयः इव=मानो थोरतर अधकार में हैं। १२।

अन्यदेयाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस् तद् विचचक्षिरे ॥१३॥

संभवात्-(आत्मतत्त्व को) विद्यासे, अन्यत्=भिज, पव=ही, आहुः=हहा है और असंभवात्=विरोध से, अन्यम्=भिज, आह=हहा

सोऽहमस्मि यह मैं हूँ । १६।

यायुरनिलममृतमधेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर, कृतं स्मर, क्रतो स्मर, कृतं स्मर ॥१७॥

इदम्=यह, अनिलम्=प्राण, अमृतम्=उम चैनन्यमय अमृततत्त्वम् (प्रविशतु=लीन होवे) और शरीरम्=शरीर की, भस्मान्तम्=पत (भूयात्) हो जाय ॐ=ईश्वर का नाम लेकर, क्रतो ।=हे इदं संरत्यमय जीव । स्मर=स्मरण वर । अपने संवत्सर छेदकर वृत्तम्=उमका किया, स्मर=स्मरणकर । १७ ।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मङ् शुद्धराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥१८॥

अग्ने ।=मार्गदर्शक ददीप्तमान, देव=प्रभो । विश्वानि=यज्ञ वयु-
नानि=विश्व में बुने हुए तत्त्व, विद्वान्=तू जनता है । अस्मान्=हमें,
सुपथा=सरल मार्ग से, राये=उस परम आनंद की ओर नय=ले जा ।
शुद्धराणम्=टेढ़ा जाने वाला एनः=पाप, अस्मत्=इससे, युयोधि=तू
दू हड्डा (खदेह) । ते=तेरी भूयिष्ठाम्=बार बार, नमउक्तिम्=नम
वाणी से विनाय करते हैं । १८ ।

ॐ । पूर्णमद् पूर्णमिद् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णयादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।



पद्मानुवाद

—०—

शिष्य—गुरुदेव! आप इस व्याख्या के अनुसार पद्म बनाने की कृपा
कीजिएगा जिससे कठस्थ करने में सुविधा रहे ?

गुरु—लो, बेटा ! यह सब तेरे लिए कर रहा हूँ। पर किसीसे झगड़ा
न ठान लेना (बादो नावलम्ब्यः) ।

ॐ

पूर्ण ब्रह्म वह तथा, पूर्ण यह जगत् पसारा ।
'बने पूर्ण से पूर्ण' कहे यह प्रणव हमारा ॥
पूरे में से जाय, निकाल जो यह पूरा ।
तो भी बाकी बचे, वहा पूरे का पूरा ॥

१

जो कुछ जोवन यहा=जगत् में दीखे प्यारे ।
भसा हुआ है वही, ईश के अतुल सहारे ॥
इसीलिए तुम करोन्त्याग, उस ईशनाम से ।
यथाप्राप्त लो भोग, काम क्या अन्य-दाम से ॥

२

खस्ते इच्छा एक, यहा हम चलते-फिरते ।
जीवें सब सौ-साल, कर्म हम करते-करते ॥
कर्म मार्ग को छोट, नहीं जग और सदारा ।
नर से ऐसे चिपक-सके जट् कर्म येचारा ॥

आत्मज्ञान से शून्य, वही जन स्वात्मधाती ।
 (देह-पात के बाद, कहाँ घे जाते पापी ?) ॥
 मुहृते हैं उस ओर, जहाँ अति गाढ़ अंधेरा ।
 वही आमुरी-मूढ़-पाप-पशु-योनि कही है ॥

४

आत्मसत्त्व है एक, नहीं वह हिलता-दुलता ।
 फिर भी मनसे अधिक, वेग से है वह चलता ॥
 पकड़न सकते देव-उसे, पर इन देवों को ।
 रखा हुआ है पकड़, कभी से पर्ण पुरुष ने ॥
 खड़ा-खड़ा ही छोड़ जाता, जो दीड़ते दूसरे सकल ।
 वह 'है' तो चलता प्राण यह, जो रहा प्रहृति में मचल ॥

५

करता है वह चलन, और वह चलन न करता ।
 रहता है वह दूर, और वह पास भी रहता ॥
 भीतर सब के पास, उसीका रहे निरन्तर ।
 तथा सभी के बढ़ी, सर्वदा रहता बादर ॥

६

लगे दीखने सकल-मूर जब निज में जिसको ।
 सब भूतों में लगा-देखने जो जन निज को ॥
 महामना वह कभी, स्वार्थ में नदौ दूरता ।
 इसी लिर वह कभी, किसी से नहीं ऊरता

१६ तू ही पूणा, निरीक्षक तू, नियामक तू प्रवर्तक तू ।

पिता के तुल्य पालन तू, ये पाचो रश्मिया तेरी ॥

दिवादे सोलकर इनको, तथा एकत्र सब करके ।

“अहा ! यह रूप तेजोमय, परम कल्याणतम तेरा ॥

रहा हूँ देख अब अपना, परात्पर रूप यह मेरा ” ।

१७ मेरे इस प्राण का लय हो, अमर उस तत्त्व चेतन में ।

मिले सब तत्त्व देवों में, अवन्तर राख हो तन की ॥

तू लेकर नाम ईश्वर का, सभी निज कल्पना छोड़ ।

मेरे सकल्पमय जीव, किया उसका स्मरण कर तू ॥

मेरे सकल्पमय जीव, किया उसका स्मरण कर तू ॥

१८ परम देदीप्यमान भगवन् ! तू ही है मार्ग का दर्शक ।

बुने हैं विश्व मेरे जो जो, सभी वे तत्त्व तू जाने ॥

हमें तू सरल मार्ग से, परम आनंद तक ले जा ।

हृदादे दूर तू हमसे, कुटिल गति पाप लो भगवन् ।

विनय करते हैं हम तेरी, अनेकों बार बाणी से ।

विनय करते हैं हम तेरी, अनेकों बार बाणी से ॥

ॐ पूर्ण ब्रह्म वह तथा, पूर्ण यह जगत् पसारा ।

‘यने पूर्ण से पूर्ण’ कहे यह प्रणव हमारा ॥

पूर्ण में से जाय, निकाला जो यह पूरा ।

तो भी बाकी बचे, वहा पूरे का पूरा ॥

ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति

अशुद्धि-संशोधन

—०—

शुद्ध,	शुद्ध,	पृष्ठ,	पृष्ठ,
कौर	ओैर	३	२१
प्रत्यक्ता	आवृद्धक्ता	६	१४
८	९	१०	२६
परार्थ में	परार्थका आत्मार्थ में	११	११
भगवा	भगडा	७२	११, १३
यज्ञ	वाक्य	८३	३
सन्त्रहणे	सन्त्रहणे	८५	१६
मादाय	मादाय	१०६	१८
अधकार	अधकार	११२	११

कृपया अशुद्धिया सुधार कर पढ़िएगा।

निवेदक निगम

Not to be Issued

Bharatiya Vidya Bhawan's Branches

Call No Sa2Vn / NIG / 29363

Title Iśavāsya Darshana (

Author Nigamānanda Param

Date of Issue	Borrower's No	Date of Issue	R